

## **Interest Rate Model**

**L&T Finance Limited (formerly known as L&T Finance Holdings Limited)  
(‘Company’)**

## Contents

I.	Preamble .....	2
II.	Objective .....	2
III.	Approach for gradation of risk.....	2
IV.	Pricing .....	3
V.	Reset of Floating Interest Rate on Equated Monthly Instalments (EMI) based Personal Loans .....	6
VI.	Fees and Charges .....	7
VII.	Ownership of the Policy .....	7
VIII.	Communication of aspects of the Policy.....	7
<b>IX</b>	<b><u>Review/Revision</u></b> .....	<b>8</b>

## I. Preamble

Reserve Bank of India (RBI) vide its notification dated January 02, 2009 and guidelines on fair practices code for non-banking finance companies dated March 26, 2012 now subsumed in the Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company –Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023 as updated from time to time, have directed all the NBFCs to:

- Put in place a Board approved Interest Rate Model taking into account relevant factors such as cost of funds, margin and risk, premium etc. and determine the rate of interest to be charged for loans and advances
- Communicate the rate of interest to the borrower along with the approach for gradation of risk and rationale for charging different rates of interest to different categories of borrowers.
- Make available the rates of interest and the approach for gradation of risks on the website of the companies.

## II. Objective

To arrive at the benchmark rates to be used for different category of customer segments and to decide on the principles and approach of charging spreads to arrive at final rates charged from customers

## III. Approach for gradation of risk

The rate of interest for loans for various business segments and various schemes thereunder is arrived after adjusting for spread by the relevant business segment.

Factors taken into account by businesses (as applicable for respective business) for calculating spreads are as follows:

- Interest rate risk (fixed vs floating loan)
- Credit and default risk in the related business segment
- Output of application scorecard
- Historical performance of similar homogeneous clients
- Profile of the borrower
- Industry segment
- Repayment track record of the borrower
- Nature and value of collateral security
- Secured Vs unsecured loan
- Subvention available
- Ticket size of loan
- Bureau Score
- Tenure of Loan
- Location delinquency and collection performance
- Customer Indebtedness (other existing loans)
- Pricing offered by competition and other relevant factors

The rate of interest for the same product and tenor availed during the same period by different customers need not be the same. It could vary for different customers depending upon consideration of all or combination of above factors.

The rate of interest shall be annualised rates, with monthly, bi-monthly, quarterly, semi-annually, or annual compounding.

#### IV. Pricing

Pricing is essentially a function of risk, tenor and prevailing market trend. As far as fund-based exposure is concerned, pricing has two components, viz., benchmark and spread. The benchmark and spread are a function of cost of funds, margin, risk premium etc.

The decision to offer a fixed or floating interest rate loan by the organisation, will inter alia depend on the nature of the product being offered, market conditions, sources & terms of funds, client requirement etc.

The Company intimates the borrower, the loan amount and rate of interest at the time of sanction of the loan along with the tenure and amount of the instalment.

The pricing for each of these products is arrived at by taking into consideration cost of funds, risk premium, other operating costs, margin, credit losses and pre-tax ROA.

Sr. No	Factor	Description
1.	<b>Cost of Funds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Company raises funds from its lenders with both end use specified and/or unspecified which is against pool of receivables.</li> <li>• The cost of fund varies for different products offered by the company depending on nature of product such as Fixed/Floating rate, tenor, repayment frequency, priority lending benefits etc.</li> <li>• Company also needs to put some equity portion to run the business and the cost of such equity is taken into consideration.</li> <li>• The Company also keeps some liquidity buffer in the form of investments into liquid funds to manage liquidity risk and has to bear negative carryon on those investments too.</li> </ul>
2.	<b>Operating Cost</b>	Retail products offered by the Company are sourced by in house teams/DSA's and collections are also undertaken through its own teams/collection agents. Accordingly, the Company operates through a large number of employees on its rolls as well collection agents which substantially increases the operating costs.
3.	<b>Margins</b>	The Company operates through its large network of branches located in 22 states, 2 Union Territories and mostly through its own employees/collection agents. The Company has invested widely in technology in order to improve loan servicing to its customers. The teams are ably supported by technology and analytics for sourcing of business. The margins are hence calculated accordingly.
4.	<b>Risk Premium</b>	The company has been operating consistently at par with industry levels of collections through investments in on-ground collections team ably supported by technology and analytics. However, some of the products such as Micro Loans may be prone to certain event risks such as demonetisation, floods, COVID 2019 etc. Premium for such event risk gets included in the pricing of each product.

<b>Sr. No</b>	<b>Factor</b>	<b>Description</b>
5.	<b>Pre-tax ROA</b>	Base Return on assets is the minimum return expected by the company on its assets.

**i. For Wholesale Products:**

The floating interest rate loans would be linked to transparent benchmarks that broadly reflect cost of funds including L&T Finance Limited (“Company”) PLR\*, Bloomberg AAA or GOI securities or MIBOR or the lead lender’s Base Rate/MCLR (in case of consortium lending) or any other suitable benchmark (e.g., SBI Base Rate/MCLR etc).

For fixed interest rate transaction, interest rate shall be decided on each case-to-case basis at the time of sanction/disbursement based on current interest rate scenario in addition to gradation of risk approach as discussed above.

Concepts such as Return on Equity, Shareholder Value Added, etc. may also be used in determining the pricing.

The pricing for each transaction would inter-alia be based on due negotiation with the client and subject to approval by the Approving Authority as mentioned in the Credit Policy of the Company.

Current the PLR is available on the website of the Company, any change in the same is subject to approval of Asset Liability Management Committee.

**ii. For Retail Loans:**

Company lends money to its retail borrowers on both fixed and floating rates depending on the nature of the product. The Company offers following retail products namely, Farmer Finance, Rural Business Finance, Warehouse Receipt Finance, Two-Wheeler Finance, Consumer Loans, Home Loans and Loan against Property and Unsecured SME Loans to its borrowers.

<b>Sr. No</b>	<b>Product</b>	<b>Offering</b>	<b>Annualized rate of interest<sup>1</sup> generally charged to our customer<sup>3</sup></b>
1.	Farmer Finance	Provide a) Loans to farmers for purchase of tractors, harvesters and other agricultural implements, used towards tilling of agricultural land and haulage of produce for generation of income b) Loans to farmers for purchase of agricultural inputs used towards crop production c) Loans to farmers for working capital requirements towards crop production and allied-agricultural activities	10 % to 19 % per annum.
2.	Warehouse Receipt Finance	Provides short term loans to farmers to avoid distress sale and realise better prices for their crop produce. It is also extended to traders and processors to procure Agri commodities at competitive prices, during the harvest season, when the commodity prices are at the lowest, thereby enabling them to maximize their profitability	8 % to 15 % per annum.
3.	Two-Wheeler Finance	Provide loans to customers for purchase of two wheelers which are used by the customer in order to attend to or enhance his/her generation of income.	8.5 % to 22 % per annum.
4.	Rural group loans and Microfinance loans	Provides a) Small ticket group loans under JLG structure to women borrowers for income generation activities and b) such other loans as the company may decide to offer for borrowers in rural areas	16% to 23.50% per annum.
5.	Micro Loan Against Property	Provides a) Micro Loan against property and b) such other loans as the company may decide to offer for borrowers in rural areas	14 % to 22 % per annum

Sr. No	Product	Offering	Annualized rate of interest <sup>1</sup> generally charged to our customer <sup>3</sup>
6.	Personal Loans	Provides loans to customers for their consumption needs. The customer may invest towards various end uses viz. travel, purchase of consumer durables, medical bills, education etc. The customer may be an existing or new customer.	11 % to 24 % per annum.
7.	Home Loans	Provides loans to customers for purchase, construction, improvement and extension of homes. The Company also provide option to existing home loan customers with other banks/Financial institutions to switch their outstanding loan amount to us with better terms & conditions.	Floating rate of interest shall be linked to L&T Finance Limited – HL PLR <sup>2</sup> .  <u>@ Fixed rate of interest:</u> 11.5% to 12.25% per annum  Note: Please refer #
8.	Loan Against Property	Provides loans to customers for financial assistance against mortgage of residential (self-occupied, rented, vacant) and commercial properties.	Floating rate of interest shall be linked to L&T Finance Limited – LAP PLR <sup>2</sup> .  <u>@ Fixed rate of interest:</u> 12.5% to 13.25% per Annum Note: Please refer #
9.	Unsecured SME Loan	Provides loans primarily tofor small and medium enterprises and individuals toto fund their business requirement	11% to 23% per annum.
10.	Supply Chain Finance	Provides short term financing facility primarily to vendors and dealers, which are associated with corporate anchors, to fund their business requirement	<u>8% to 26% per annum</u>

@ at the time of reset of floating interest rate as per the terms of this Policy.

# The interest rate including the structure thereof on any of the existing loans may be modified (irrespective of the change in relevant benchmark rate for floating rate loans) on account of credit deterioration

**\*Note:**

1. The interest rate range is an indicative and the final rate is arrived basis the gradation of risk. Indicative interest rate as communicated above are subject to change at any point of time, subject to the sole discretion of the Company.
2. Current the Company PLR is available on the website of the Company, any change in the same is subject to approval of Asset Liability Management Committee.
3. In case of loans acquired via pool purchase, interest rate on these loans may be referenced

to an external benchmark rate viz, T-bills, Repo rate, MCLR/ Benchmark rates of Large Banks / Financial institution and may not necessarily be within the range as indicative above for each of the respective products given their origination mode. Hence for such loans their interest rate movement will be according to the changes in the linked external benchmark specified in their respective sanction letter

4. The pricing would inter-alia be based on due negotiation (where applicable) with the client and/or credit assessment parameters being followed by the Company.

#### V. Reset of Floating Interest Rate on Equated Monthly Instalments (EMI) based Personal Loans

RBI vide its Circular No. DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 dated August 18, 2023 ("RBI Circular") has laid down a regulation regarding reset of floating interest rate on EMI based Personal Loans and require Regulated Entities to lay down policy framework in respect of EMI based floating rate personal loans. The term "Personal Loans" is defined in the RBI circular No. DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 on "XBRL Returns – Harmonization of Banking Statistics" dated January 04, 2018.

The instructions covered in this section are to be extended to the existing as well as new loans suitably by December 31, 2023.

At the time of sanction of EMI based floating rate personal loans, the Company shall take into account the repayment capacity of borrowers to ensure that adequate headroom/ margin is available for elongation of tenor and/ or increase in EMI, in the scenario of possible increase in the external benchmark rate during the tenor of the loan. In respect of EMI based floating rate personal loans, following framework shall be followed by the Company:

1. At the time of sanction, the Company shall clearly communicate to the borrowers about the possible impact of change in benchmark interest rate on the loan leading to changes in EMI and/or tenor or both. Subsequently, any increase in the EMI/ tenor or both on account of the above shall be communicated to the borrower immediately through appropriate channels.
2. At the time of reset of interest rates, the borrower shall be provided an option to switch over once from existing floating rate to a fixed rate during the tenure of the loan. Any further switch from fixed to floating or floating to fixed during the tenor of the loan shall be at the sole discretion of the Company.
3. The borrower shall have an option for (a) (i) enhancement in EMI or (ii) elongation of tenor or (iii) a combination of both options as per the internal policies of the Company; and, (b) to prepay, either in part or in full, at any point during the tenor of the loan.
4. All applicable charges for switching of loans from floating to fixed rate and any other service charges/ administrative costs incidental to the exercise of the above options shall be disclosed in the sanction letter and also at the time of revision of such charges/ costs by the Company from time to time.
5. The Company shall ensure that the elongation of tenor in case of floating rate loan does not result in negative amortisation.

6. The Company shall share / make accessible to the borrowers, through appropriate channels, a statement at the end of each quarter which shall at the minimum, enumerate the principal and interest recovered till date, EMI amount, number of EMIs left and annualized rate of interest / Annual Percentage Rate (APR) for the entire tenor of the loan.
7. Apart from the equated monthly instalment loans, these instructions would also apply, mutatis mutandis, to all equated instalment-based loans of different periodicities.
8. The Company shall send a communication to all existing borrowers, through appropriate channels, intimating the options available to them.

## VI. Fees and Charges

In addition to charging interest on the loans, the Company will also be levying fees and charges as applicable. Additionally, the Company will also collect stamp duty, service tax / GST and other cess as may be applicable from time to time. Any revision in these charges would be implemented on prospective basis with due communication to customers.

Applicable schedule of charges (wherever necessary) is available on the website of the Company.

## VII. Ownership of the Policy

Respective Business Chief Executives will be owner of this Policy and would be responsible for implementation of the Policy. The Board of Directors hereby authorizes the Asset Pricing Committee of the Company to inter-alia review and make appropriate changes to this Interest Rate Model Policy including any changes to the rate of interest range, etc. basis the money market scenario and/ or any regulators requirement which includes the upward / downward revision in interest rates applicable to various loan products and the relevant charges applicable for such loan products.

## VIII. Communication of aspects of the Policy

The company will communicate the effective rate of interest -to customers at the time of sanction / availing of the loan through the acceptable mode of communication.

Interest rate model and schedule of charges (wherever necessary) would be uploaded on the website of the company and any change in the benchmark rates and charges for existing customers would be uploaded on the web site of the Company.

## IX. Review/Revision of the Policy

If at any point a conflict of interpretation / information between the Policy and any regulations, rules, guidelines, notification, clarifications, circulars, master circulars/ directions issued by relevant authorities ("Regulatory Provisions") arises, then interpretation of the Regulatory Provisions shall prevail. In case of any amendment(s)and/or clarification(s) to the Regulatory Provisions, the Policy shall stand amended accordingly from the effective date specified as per the Regulatory Provisions

Document Owner	Respective GEC's
----------------	------------------

### **Version Control**

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Author</b>	<b>Change Description</b>
1.0	November 2023	Respective GEC's	New policy adopted
2.0	January 2024	Respective GEC's	Addition of Fixed Rate of Interest range for Home Loans and Loan Against Property
3.0	October 2024	Respective GEC's	Annual Review- Revisions carried out in line with process update
4.0	January 2025	Board	Revisions carried out in line with process update and noting of revision in Interest rate range of specific products as approved by Asset Pricing Committee

This document is for internal use of the Company. No part of any document in this link may be reproduced or copied in any form, circulated or by any means [graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information retrieval systems] reproduced on any disc, tape, perforated media or other information storage device, etc., without the prior written permission of the Treasury Department.

## ब्याज दर मॉडल

L&T फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ('कंपनी') के नाम से जात)

## विषय-सूची

I.	प्रस्तावना .....	12
II.	उद्देश्य.....	12
III.	जोखिम के वर्गीकरण के लिए दृष्टिकोण.....	12
IV.	मूल्य निर्धारण.....	13
V.	समान मासिक किस्तों (ईएमआई) पर आधारित व्यक्तिगत ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर का रीसेट .....	17
VI.	फीस एवं शुल्क.....	17
VII.	पॉलिसी का स्वाभित्व.....	18
VIII.	पॉलिसी के पहलुओं का संचार .....	18
IX	<u>नीति की समीक्षा/संशोधन</u> .....	18

## I. प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना दिनांक 02 जनवरी 2009 और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर 26 मार्च 2012 के दिशानिर्देश अब समय-समय पर अद्यतन किए गए मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) दिशानिर्देश, 2023, 19 अक्टूबर, 2023, में शामिल किया गया है, ने सभी एनबीएफसी को निर्देशित किया है:

- फंड की लागत, मार्जिन और जोखिम, प्रीमियम आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्याज दर मॉडल स्थापित करें और ऋण और अग्रिमों के लिए लगाए जाने वाले व्याज की दर निर्धारित करें
- विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं से अलग-अलग व्याज दरें वसूलने के लिए जोखिम के उन्नयन के दृष्टिकोण और तर्क के साथ-साथ उधारकर्ता को व्याज दर के बारे में बताएं।
- कंपनियों की वेबसाइट पर व्याज दरें और जोखिमों के वर्गीकरण का तरीका उपलब्ध कराएं।

## II. उद्देश्य

विभिन्न श्रेणी के ग्राहक खंडों के लिए उपयोग की जाने वाली बैंचमार्क दरें तय करना और ग्राहकों से ली जाने वाली अंतिम दरों पर पहुंचने के लिए चार्जिंग स्प्रेड के सिद्धांतों और दृष्टिकोण पर निर्णय लेना

## III. जोखिम के वर्गीकरण के लिए दृष्टिकोण

विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों और उनके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण की व्याज दर संबंधित व्यवसाय खंड द्वारा प्रसार के समायोजन के बाद तय की जाती है।

स्प्रेड की गणना के लिए व्यवसायों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारक (जैसा कि संबंधित व्यवसाय के लिए लागू है) इस प्रकार हैं:

- व्याज दर जोखिम (निश्चित बनाम अस्थायी ऋण)
- संबंधित व्यवसाय क्षेत्र में क्रेडिट और डिफॉल्ट जोखिम
- आवेदन के स्कोरकार्ड का आउटपुट
- समान समरूप ग्राहकों का ऐतिहासिक प्रदर्शन
- उधारकर्ता की प्रोफाइल
- उद्योग खंड
- उधारकर्ता का पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड
- संपार्शिक प्रतिभूति की प्रकृति और उसकी कीमत
- प्रतिभूति द्वारा ऋण बनाम बिना प्रतिभूति के ऋण
- उपलब्ध अनुदान
- ऋण का टिकट आकार
- ब्यूरो स्कोर
- ऋण की अवधि
- स्थान विलंब और संग्रह प्रदर्शन
- ग्राहक की ऋणग्रस्तता (अन्य मौजूदा ऋण)
- प्रतिस्पर्धा और अन्य प्रासंगिक कारकों द्वारा प्रस्तावित मूल्य निर्धारण

विभिन्न ग्राहकों द्वारा एक ही अवधि के दौरान प्राप्त एक ही उत्पाद और उसी अवधि के लिए ब्याज दर एक समान होना जरूरी नहीं है। उपरोक्त सभी कारकों पर विचार करने या उनके संयोजन के आधार पर यह विभिन्न ग्राहकों के लिए भिन्न हो सकता है।

ब्याज की दर मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ वार्षिक दरें होंगी।

#### IV. मूल्य निर्धारण

**मूल्य निर्धारण मूलत:** जोखिम, अवधि और प्रचलित बाजार प्रवृत्ति का एक कार्य है। जहां तक फंड-आधारित एक्सपोज़र का सवाल है, मूल्य निर्धारण के दो घटक होते हैं, अर्थात् बैंचमार्क और स्प्रेड। बैंचमार्क और स्प्रेड फंड की लागत, मार्जिन, जोखिम प्रीमियम आदि का एक कार्य है।

संगठन द्वारा निश्चित या अस्थाई ब्याज दर ऋण की पेशकश करने का निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ पेश किए जा रहे उत्पाद की प्रकृति, बाजार की स्थितियाँ, धन के स्रोत और शर्तों, ग्राहक की आवश्यकता आदि पर निर्भर करेगा।

कंपनी ऋण की मंजूरी के समय उधारकर्ता को ऋण की राशि और ब्याज दर के साथ-साथ किस्त की अवधि और किस्त की राशि के बारे में सूचित करती है।

इनमें से प्रत्येक उत्पाद का मूल्य निर्धारण फंड की लागत, जोखिम प्रीमियम, अन्य संचालन लागत, मार्जिन, क्रेडिट हानि और कर-पूर्त आरओए को ध्यान में रखकर किया जाता है।

क्र. सं.	कारक	विवरण
1.	फंड की लागत	<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी अपने ऋणदाताओं से अंतिम उपयोग निर्दिष्ट और/या अनिर्दिष्ट दोनों के साथ धन जुटाती है जो प्राप्य खातों के पूल के विरुद्ध है।</li> <li>कंपनी द्वारा पेश किए गए विभिन्न उत्पादों के लिए फंड की लागत उत्पाद की प्रकृति जैसे निश्चित/अस्थाईदर, अवधि, पुनर्भुगतान आवृत्ति, प्राथमिकता ऋण लाभ आदि के आधार पर भिन्न होती हैं।</li> <li>कंपनी को व्यवसाय चलाने के लिए कुछ इक्विटी हिस्सा भी लगाना पड़ता है और ऐसी इक्विटी की लागत को ध्यान में रखा जाता है।</li> <li>कंपनी तरलता जोखिम को प्रबंधित करने के लिए लिकिवड फंड में निवेश के रूप में कुछ लिकिवडी बफर भी रखती है और उन निवेशों पर नकारात्मक भार भी वहन करना पड़ता है।</li> </ul>
2.	संचालन लागत	कंपनी द्वारा पेश किए गए खुदरा उत्पाद घरेलू टीमों/डीएसए द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और संग्रह भी इसकी अपनी टीमों/संग्रह एजेंटों के माध्यम से किया जाता है। तदनुसार, कंपनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के साथ-साथ संग्रह एजेंटों के माध्यम से काम करती है, जिससे संचालन लागत में काफी वृद्धि होती है।
3.	मार्जिन	कंपनी 22 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित शाखाओं के अपने बड़े नेटवर्क और ज्यादातर अपने कर्मचारियों/संग्रह एजेंटों के माध्यम से काम करती है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को बेहतर ऋण सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी में व्यापक रूप से निवेश किया है। व्यवसाय की सोसिंग के लिए टीमों को प्रौद्योगिकी और विश्लेषण द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए मार्जिन की गणना तदनुसार ही की जाती है।

4.	<b>जोखिम प्रीमियम</b>	कंपनी प्रौद्योगिकी और विश्लेषकों द्वारा सहायता प्राप्त ऑन-ग्राउंड संग्रह टीम में निवेश के माध्यम से संग्रह के उद्योग स्तर के बराबर लगातार काम कर रही है। हालाँकि, माइक्रो लोन जैसे कुछ उत्पाद कुछ निश्चित घटना जोखिमों जैसे कि विमुद्रीकरण, बाढ़, कोविड 2019 आदि से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं से होने वाले जोखिम के लिए प्रीमियम प्रत्येक उत्पाद के मूल्य निर्धारण में शामिल हो जाता है।
5.	<b>कर-पूर्व आरओए</b>	परिसंपत्तियों पर बेस रिटर्न कंपनी द्वारा अपनी परिसंपत्तियों पर अपेक्षित न्यूनतम रिटर्न है।

i. **थोक उत्पादों के लिए:**

अस्थाई ब्याज दर वाले ऋण पारदर्शी बैंचमार्क से जुड़े होंगे जो मोटे तौर पर L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ("कंपनी") पीएलआर\*, ब्लूमबर्ग एए या भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों या एमआईबीओआर या प्रमुख ऋणदाता की आधार दर/एमसीएलआर (कंसोर्टियम ऋण के मामले में) या किसी अन्य उपयुक्त बैंचमार्क (जैसे, एसबीआई बेस रेट/एमसीएलआर आदि) सहित फंड की लागत को दर्शाते हैं।

निश्चित ब्याज दर लेनदेन के लिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जोखिम ट्रृष्टिकोण के उन्नयन के अलावा वर्तमान ब्याज दर परिदृश्य के आधार पर मंजूरी/संवितरण के समय प्रत्येक मामले-दर-मामले आधार पर ब्याज दर तय की जाएगी।

मूल्य निर्धारण निर्धारित करने में इक्विटी पर रिटर्न, शेयरधारक मूल्य वर्धित इत्यादि जैसी अवधारणाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक लेनदेन के लिए मूल्य निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहक के साथ उचित बातचीत पर आधारित होगा और कंपनी की क्रेडिट नीति में उल्लिखित अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।

वर्तमान में पीएलआर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसमें कोई भी बदलाव परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति की मंजूरी के अधीन है।

ii. **खुदरा ऋण के लिए:**

कंपनी अपने खुदरा उधारकर्ताओं को उत्पाद की प्रकृति के आधार पर निश्चित और अस्थाई दोनों दरों पर पैसा उधार देता है। कंपनी अपने उधारकर्ताओं को निम्नलिखित खुदरा उत्पाद प्रदान करती है, जैसे कि किसान वित्त, ग्रामीण व्यवसाय वित्त, वेयरहाउस रसीद वित्त, दोपहिया वित्त, उपभोक्ता ऋण, गृह ऋण और संपत्ति पर ऋण और असुरक्षित SME ऋण।

क्रम सं.	उत्पाद	प्रस्ताव	वार्षिक ब्याज दर <sup>1</sup> जो आम तौर पर हमारे ग्राहकों <sup>3</sup> से ली जाती है
1.	किसान वित्त	<p>प्रदान करता है a) किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरणों की खरीद के लिए ऋण, जिनका उपयोग आय सूजन के लिए कृषि भूमि की जुटाई करने और उपज की ढुलाई करने के लिए किया जाता है</p> <p>d) फसल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कृषि आदानों की खरीद के लिए किसानों को ऋण प्रदान करता है</p> <p>e) फसल उत्पादन और संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए किसानों को ऋण प्रदान करता है</p>	प्रति वर्ष 10% से 19% तक।
2.	वेयरहाउस रसीद वित्त	किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने और उनकी फसल की उपज के लिए बहेतर कीमतें प्राप्त करने के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान करता है। फसल के मौसम के दौरान, जब कमोडिटी की कीमतें सबसे कम होती हैं, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए इसे व्यापारियों और प्रोसेसरों तक भी बढ़ाया जाता है, जिससे उन्हें अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करने में मदद मिलती है	प्रति वर्ष 8% से 15% तक।
3.	दोपहिया वाहन वित्त	ग्राहकों को उन दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए ऋण प्रदान करना जिनका उपयोग ग्राहक द्वारा अपनी आय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।	प्रति वर्ष 8.5% से 22% तक।
4.	ग्रामीण समूह ऋण और माइक्रोफाइनेंस ऋण	ये प्रदान करते हैं a) आय सूजन गतिविधियों के लिए महिला ऋणकर्ताओं को जेएलजी संरचना के तहत छोटे टिकट समूह ऋण और b) ऐसे अन्य ऋण जो कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणकर्ताओं के लिए पेश करने का निर्णय ले सकती है	प्रति वर्ष 16% से 23.50% तक।

क्रम सं.	उत्पाद	प्रस्ताव	वार्षिक ब्याज दर <sup>1</sup> जो आम तौर पर हमारे ग्राहकों <sup>3</sup> से ली जाती है
5.	संपत्ति पर सूक्ष्म ऋण	प्रदान करता है a) संपत्ति पर सूक्ष्म ऋण और b) ऐसे अन्य ऋण जो कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में उधारकर्ताओं को देने का निर्णय ले सकती है	प्रति वर्ष 14% से 22% तक।
6.	व्यक्तिगत ऋण	ग्राहकों को उनकी उपभोग आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करता है। ग्राहक विभिन्न अंतिम उपयोगों के लिए निवेश कर सकता है, जैसे कि यात्रा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद, चिकित्सा बिल, शिक्षा आदि। यह ग्राहक मौजूदा या नया ग्राहक हो सकता है।	प्रति वर्ष 11% से 24% तक।
7.	घर के लिए ऋण	ग्राहकों को घरों की खरीद, निर्माण, सुधार और विस्तार के लिए ऋण प्रदान करता है। कंपनी अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों के मौजूदा होम लोन ग्राहकों को बेहतर नियमों और शर्तों के साथ अपनी बकाया ऋण राशि हमारे पास स्थानांतरित करने का विकल्प भी प्रदान करती है।	ब्याज की अस्थाई दर L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड - एचएल पीएलआर2 से जुड़ी होगी।  @ ब्याज की निश्चित दर: प्रति वर्ष 11.5% से 12.25% तक।  ध्यान दें: कृपया # देखें
8.	संपत्ति पर ऋण	ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवासीय (स्वयं के रहने वाला, किराये पर लिया हुआ, खाली) और वाणिज्यिक संपत्तियों को बंधक के रूप में रखने पर ऋण प्रदान करता है।	ब्याज की अस्थाई दर L&T फाइनेंस लिमिटेड - एलएपी पीएलआर2 से जुड़ी होगी।  @ ब्याज की निश्चित दर: प्रति वर्ष 12.5% से 13.25% तक।  ध्यान दें: कृपया # देखें
9.	बिना किसी प्रतिभूति के एसएमई ऋण	मुख्य रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों और व्यक्तियों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करता है	प्रति वर्ष 11% से 23% तक।
10.	आपूर्ति श्रृंखला वित्त	यह मुख्य रूप से विक्रेताओं और डीलरों को, जो कॉर्पोरेट एंकरों से जुड़े होते हैं, उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक वित्तपोषण सुविधा प्रदान करता है	प्रति वर्ष 8% से 26% तक।

@ इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार फ्लोटिंग ब्याज दर के रीसेट के समय।

# किसी भी मौजूदा ऋण पर ब्याज दर सहित उसकी संरचना को ऋण की गिरावट के कारण संशोधित किया जा

सकता है (फ्लोटिंग रेट ऋण के लिए प्रासंगिक बैंचमार्क दर में परिवर्तन के बावजूद)

**\*टिप्पणी:**

1. ब्याज दर सीमा एक संकेतक हैं और अंतिम दर जोखिम के स्तर के आधार पर तय की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सांकेतिक ब्याज दर कंपनी के विवेक के अधीन, किसी भी समय परिवर्तन के अधीन है।
2. वर्तमान में कंपनी का पीएलआर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसमें कोई भी बदलाव परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति की मंजूरी के अधीन है।
3. पूल खरीद के माध्यम से प्राप्त ऋणों के मामले में, इन ऋणों पर ब्याज दर बाहरी बैंचमार्क दर जैसे टी-बिल, रेपो दर, एमसीएलआर/ बड़े बैंकों / वित्तीय संस्थानों की बैंचमार्क दरों के संदर्भ में हो सकती है और यह आवश्यक नहीं है कि यह प्रत्येक संबंधित उत्पाद के लिए उनके मूल मोड को देखते हुए ऊपर दर्शाई गई सीमा के भीतर हो। इसलिए ऐसे ऋणों के लिए उनकी ब्याज दर में परिवर्तन उनके संबंधित स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट लिंकड बाहरी बैंचमार्क में परिवर्तन के अनुसार होगा।
4. मूल्य निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहक के साथ उचित बातचीत (जहां लागू हो) और/या कंपनी द्वारा अपनाए जा रहे क्रेडिट मूल्यांकन मापदंडों पर आधारित होगा।

## V. समान मासिक किस्तों (ईएमआई) पर आधारित व्यक्तिगत ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर का रीसेट

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 दिनांक 18 अगस्त, 2023 ("आरबीआई परिपत्र") के माध्यम से ईएमआई आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर के रीसेट के संबंध में एक विनियमन निर्धारित किया है और इसकी आवश्यकता है विनियमित संस्थाएं ईएमआई आधारित फ्लोटिंग दर वाले व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में नीतिगत ढांचा तैयार करेंगी। "पर्सनल लोन" शब्द को 04 जनवरी, 2018 के "एक्सबीआरएल रिटर्न - बैंकिंग सांख्यिकी का सामंजस्य" पर आरबीआई परिपत्र संख्या DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 में परिभाषित किया गया है।

इस अनुभाग में शामिल निर्देशों को 31 दिसंबर, 2023 तक मौजूदा और नए ऋणों पर भी उपयुक्त रूप से लागू किया जाना है।

ईएमआई आधारित फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन की मंजूरी के समय, कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखेगी कि संभावित वृद्धि के परिदृश्य में अवधि बढ़ाने और/या ईएमआई में वृद्धि के लिए पर्याप्त हेडरम/मार्जिन उपलब्ध है, ऋण की अवधि के दौरान बाहरी बैंचमार्क दर में संभावित वृद्धि की स्थिति में। ईएमआई आधारित फ्लोटिंग रेट व्यक्तिगत ऋण के संबंध में, कंपनी द्वारा निम्नलिखित ढांचे का पालन किया जाएगा:

1. मंजूरी के समय, कंपनी उधारकर्ताओं को ऋण पर बैंचमार्क ब्याज दर में बदलाव के संभावित प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताएगी, जिससे ईएमआई और/या अवधि या दोनों में बदलाव हो सकता है। इसके बाद, उपरोक्त के कारण ईएमआई/अवधि या दोनों में कोई भी वृद्धि उधारकर्ता को उचित चैनलों के माध्यम से तुरंत सूचित की जाएगी।
2. ब्याज दरों के रीसेट के समय, उधारकर्ता को ऋण की अवधि के दौरान एक बार मौजूदा अस्थाई दर से निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। ऋण की अवधि के दौरान निश्चित से अस्थाई या अस्थाई से निश्चित में कोई भी बदलाव कंपनी के विवेक पर निर्भर करेगा।
3. उधारकर्ता के पास (a) (i) ईएमआई में वृद्धि या (ii) अवधि बढ़ाने या (iii) कंपनी की आंतरिक नीतियों के अनुसार दोनों विकल्पों का संयोजन; और, (b) ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने का विकल्प होगा।
4. ऋणों को अस्थाई से निश्चित दर पर स्विच करने के लिए सभी लागू शुल्क और उपरोक्त विकल्पों के प्रयोग से संबंधित किसी भी अन्य सेवा शुल्क/प्रशासनिक लागत का खुलासा मंजूरी पत्र में और कंपनी द्वारा समय-समय पर ऐसे शुल्क/लागत के संशोधन के समय भी किया जाएगा।
5. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अस्थाई दर पर ऋण के मामले में अवधि बढ़ने से नकारात्मक परिशोधन न हो।
6. कंपनी प्रत्येक तिमाही के अंत में उचित चैनलों के माध्यम से उधारकर्ताओं के लिए एक विवरण साझा करेगी / उस तक पहुंचाएगी, प्रत्येक तिमाही के अंत में एक विवरण जिसमें कम से कम, अब तक वसूल किए गए मूलधन और ब्याज, ईएमआई राशि, शेष ईएमआई की संख्या और ऋण की पूरी अवधि के लिए ब्याज की वार्षिक दर / वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की गणना होगी।
7. समान मासिक किस्त वाले ऋणों के अलावा, ये निर्देश, यथोचित परिवर्तनों के साथ, विभिन्न आवधिकों के सभी समान किस्त-आधारित ऋणों पर भी लागू होंगे।
8. कंपनी सभी मौजूदा उधारकर्ताओं को उचित चैनलों के माध्यम से एक संचार भेजेगी, जिसमें उन्हें उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी जाएगी।

## VI. फीस एवं शुल्क

ऋण पर ब्याज वसूलने के अलावा, कंपनी लागू फीस और शुल्क भी लगाएगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी समय-समय

पर लागू होने वाले स्टांप शुल्क, सेवा कर / जीएसटी और अन्य उपकर भी एकत्र करेगी। इन शुल्कों में कोई भी संशोधन ग्राहकों को उचित संचार के साथ संभावित आधार पर लागू किया जाएगा।

शुल्कों की लागू अनुसूची (जहां भी आवश्यक हो) कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

#### VII. पॉलिसी का स्वामित्व

संबंधित व्यवसाय के मुख्य कार्यपालक इस पॉलिसी के स्वामी होंगे और पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। निदेशक मंडल कंपनी की परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण समिति को अन्य बातों के साथ-साथ इस ब्याज दर मॉडल नीति की समीक्षा करने और इसमें उचित परिवर्तन करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें मुद्रा बाजार परिदृश्य और/या किसी भी नियामक आवश्यकता के आधार पर ब्याज दर सीमा आदि में कोई भी परिवर्तन शामिल है, जिसमें विभिन्न ऋण उत्पादों पर लागू ब्याज दरों में ऊपर/नीचे संशोधन और ऐसे ऋण उत्पादों के लिए लागू प्रासंगिक शुल्क शामिल हैं।

#### VIII. पॉलिसी के पहलुओं का संचार

कंपनी ऋण की स्वीकृति / प्राप्ति के समय संचार के स्वीकार्य माध्यम से ग्राहकों को प्रभावी ब्याज दर के बारे में सूचित करेगी।

ब्याज दर मॉडल और शुल्कों की अनुसूची (जहां भी आवश्यक हो) कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और मौजूदा ग्राहकों के लिए बैंचमार्क दरों और शुल्कों में कोई भी बदलाव कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

#### IX. नीति की समीक्षा/संशोधन

यदि किसी भी बिंदु पर नीति और संबंधित अधिकारियों ("नियामक प्रावधान") द्वारा जारी किए गए किसी भी विनियम, नियम, दिशानिर्देश, अधिसूचना, स्पष्टीकरण, परिपत्र, मास्टर परिपत्र / निर्देशों के बीच व्याख्या / जानकारी का टकराव उत्पन्न होता है, तो नियामक प्रावधानों की व्याख्या मान्य होगी। नियामक प्रावधानों में किसी भी संशोधन(नों) और/या स्पष्टीकरण(णों) के मामले में, यह नीति नियामक प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट प्रभावी तिथि से तदनुसार संशोधित हो जाएगी।

दस्तावेज़ स्वामी	संबंधित जीईसी का
------------------	------------------

#### संस्करण नियंत्रण

संस्करण	दिनांक	लेखक	विवरण बदलें
1.0	नवम्बर 2023	संबंधित जीईसी का	नई पॉलिसी अपनाई गई
2.0	जनवरी 2024	संबंधित जीईसी का	गृह ऋण और संपत्ति पर ऋण के लिए निश्चित ब्याज दर सीमा को जोड़ना
3.0	अक्टूबर 2024	संबंधित जीईसी का	वार्षिक समीक्षा- प्रक्रिया अद्यतन के अनुरूप संशोधन किए गए

4.0	जनवरी 2025	बोर्ड	प्रक्रिया अद्यतन के अनुरूप संशोधन किए गए तथा परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित विशेष उत्पादों की ब्याज दर सीमा में संशोधन को नोट किया गया।
-----	------------	-------	--

यह दस्तावेज़ कंपनी के आंतरिक उपयोग के लिए है। इस लिंक के किसी भी दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को ट्रेजरी विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में पुनः प्रस्तुत या कॉपी नहीं किया जा सकता है, प्रसारित नहीं किया जा सकता है या किसी भी माध्यम से [ग्राफिक, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, टेपिंग या सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली शामिल हैं] किसी भी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना भंडारण उपकरण आदि पर पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

## त्याज दर मॉडेल

L&T फायनान्स लिमिटेड (पूर्वी L&T फायनान्स होलिडंग्स लिमिटेड ('कंपनी') म्हणून ओळखले जात असे)

## अनुक्रमणिका

I.	प्रस्तावना.....	21
II.	उद्दिष्ट्य.....	21
III.	जोखमीच्या श्रेणीकरणासाठी दृष्टीकोन.....	21
IV.	किंमत.....	22
V.	समान मासिक हप्त्यांवर (ईएमआय) आधारित वैयक्तिक कर्जावरील फ्लोटिंग व्याज दर रीसेट करा .....	26
VI.	शुल्क आणि आकार.....	26
VII.	पॉलिसीची मालकी .....	27
VIII.	पॉलिसीच्या पैलूंचे संप्रेषण.....	27
IX	<u>पॉलिसीचे पुनरावलोकन/सुधारणा</u> .....	<u>27</u>

## I. प्रस्तावना

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) द्वारे 02 जानेवारी, 2009 ची अधिसूचना आणि दिनांक 26 मार्च 2012 ची नॉन-बैंकिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी योग्य पद्धती संहितेची मार्गदर्शक तत्वे आता वेळोवेळी अद्ययावत केल्यानुसार 19 ऑक्टोबर, 2023 दिनांकित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मास्टर डायरेक्शन - (नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित नियमन) निर्देशांमध्ये जमा केले गेले आहेत, ने सर्व एनबीएफसी ला निर्देश दिले आहेत की:

- निधीची किंमत, मार्जिन आणि जोखीम, प्रीमियम इ. यासारख्या संबंधित घटकांचा विचार करून मंडळाने मंजूर केलेले व्याज दर मॉडेल तयार करा आणि कर्जे आणि अग्रिम रकमांसाठी आकारले जाणारे व्याज दर निश्चित करा
- कर्जदाराला व्याजदराची आणि जोखीम श्रेणीकरणाचा दृष्टीकोन आणि कर्जदारांच्या विविध श्रेणींसाठी वेगवेगळे व्याजदर आकारण्याचे तर्क याबाबतची माहिती दया.
- कंपन्यांच्या वेबसाइटवर व्याजदर आणि जोखमीच्या श्रेणीकरणाचा दृष्टिकोन उपलब्ध करून द्या.

## II. उद्दिष्ट्य

ग्राहकांच्या विविध श्रेणींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बैंचमार्क दरांवर पोहोचण्यासाठी आणि ग्राहकांकडून आकारलेल्या अंतिम दरांवर पोहोचण्यासाठी स्प्रेड आकारण्याच्या तत्वांवर आणि दृष्टिकोनावर निर्णय घेण्यासाठी

## III. जोखमीच्या श्रेणीकरणासाठी दृष्टीकोन

विविध व्यवसाय विभागांसाठी आणि त्याखालील विविध योजनांसाठी कर्जाचा व्याजदर संबंधित व्यवसाय विभागाद्वारे स्प्रेडसाठी समायोजिन केल्यानंतर येतो.

स्प्रेडची गणना करण्यासाठी व्यवसायांद्वारे (संबंधित व्यवसायासाठी लागू) विचारात घेतलेले घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

- व्याजदर जोखीम (स्थिर वि बदलते कर्ज)
- संबंधित व्यवसाय विभागातील क्रेडिट आणि डीफॉल्ट जोखीम
- अर्ज स्कोअरकार्डचे आउटपुट
- समान एकसंध क्लायंटची ऐतिहासिक कामगिरी
- कर्जदाराचे प्रोफाइल
- उद्योग विभाग
- कर्जदाराचा परतफेड ट्रॅक रेकॉर्ड
- संपार्श्विक सुरक्षेचे स्वरूप आणि मूल्य
- सुरक्षित वि असुरक्षित कर्जे
- अर्थ सहाय्य उपलब्ध
- कर्जाचा तिकीट आकार
- ब्युरो स्कोअर
- कर्जाचा कालावधी
- स्थान अपराध आणि संकलन कार्यप्रदर्शन
- ग्राहकाचा कर्जदारपणा (अन्य विद्यमान कर्ज)
- स्पर्धा आणि इतर संबंधित घटकांद्वारे ऑफर केलेली किंमत

एकाच उत्पादनासाठी आणि वेगवेगळ्या ग्राहकांनी त्याच कालावधीत घेतलेल्या कालावधीसाठी व्याजदर समान असणे आवश्यक नाही. वरील सर्व घटकांचा विचार करून किंवा संयोजनावर अवलंबून मिन्न ग्राहकांसाठी ते बदलू शकते.

व्याजाचा दर मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक चक्रवाढ सह वार्षिक दर असेल.

#### IV. किंमत

किंमत हे मूलत: जोखीम, कालावधी आणि प्रचलित बाजारातील कल यांचे कार्य आहे. जोपर्यंत फंड-आधारित अनावरणाचा संबंध आहे, तेथे किंमतीचे दोन घटक असतात, उदा., बैंचमार्क आणि स्प्रेड. बैंचमार्क आणि स्प्रेड हे फंड ऑफ कॉस्ट, मार्जिन, जोखीम प्रीमियम इत्यादींचे कार्य आहे.

संस्थेद्वारे स्थिर किंवा बदलता व्याजदर कर्ज ऑफर करण्याचा निर्णय, ऑफर केल्या जाणाऱ्या उत्पादनाचे स्वरूप, बाजार परिस्थिती, स्त्रोत आणि निधीच्या अटी, ग्राहकांची आवश्यकता इत्यादींवर अवलंबून असेल.

कंपनी कर्जदाराला, कर्ज मंजूरीच्या वेळी कर्जाची रक्कम आणि व्याजदर आणि हप्त्याची मुदत आणि रक्कम सूचित करते.

यापैकी प्रत्येक उत्पादनाची किंमत ही निधीची किंमत, जोखीम प्रीमियम, इतर कार्यकारी खर्च, मार्जिन, क्रेडिट तोटा आणि करपूर्व आरओए विचारात घेऊन निर्धारित केली जाते.

क्र. सं.	घटक	वर्णन
1.	निधीची किंमत	<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी आपल्या सावकारांकडून अंतिम वापर निर्दिष्ट करून आणि/किंवा निर्दिष्ट न करता अशा दोन्ही प्रकारे निधी उभारते जे प्राप्याच्या पूलाच्या विरुद्ध आहे.</li> <li>स्थिर/बदलता दर, मुदत, परतफेडीची वारंवारता, प्राधान्य कर्ज लाभ इ. यासारख्या उत्पादनाच्या स्वरूपावर अवलंबून कंपनीने ऑफर केलेल्या विविध उत्पादनांसाठी निधीची किंमत बदलते.</li> <li>कंपनीला व्यवसाय चालविण्यासाठी काही इक्विटी भाग ठेवणे देखील आवश्यक असते आणि अशा इक्विटीची किंमत विचारात घेतली जाते.</li> <li>कंपनी रोकडसुलभतेची जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी रोकडसुलभ फंडामध्ये गुंतवणुकीच्या स्वरूपात काही रोकडसुलभतेचा बफर देखील ठेवते आणि त्या गुंतवणुकीवर नकारात्मक वाहकदेखील सहन करावा लागतो.</li> </ul>
2.	कार्यकारी खर्च	कंपनीने ऑफर केलेली किरकोळ उत्पादने अंतर्गत संघ/डीएसए द्वारे मिळवली जातात आणि त्यांचा संग्रह देखील स्वतःचे संघ/कलेक्शन एजंट्सद्वारे केला जातो. त्यानुसार, कंपनी मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून तसेच संकलन एजंट्सद्वारे कार्य करते ज्यामुळे कार्यकारी खर्चात लक्षणीय वाढ होते.
3.	मार्जिन	कंपनी 22 राज्यांमध्ये, 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असलेल्या शाखांच्या मोठ्या नेटवर्कद्वारे आणि मुख्यत: स्वतःच्या कर्मचारी/कलेक्शन एजंट्सद्वारे कार्य करते. कंपनीने आपल्या ग्राहकांना कर्ज सेवा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. व्यवसायाच्या सोर्सिंगसाठी संघांना तंत्रज्ञान आणि विश्लेषणाद्वारे समर्थपणे समर्थन दिले जाते. म्हणून मार्जिनची त्यानुसार गणना केली जाते.

4.	<b>जोखीम प्रीमियम</b>	तंत्रज्ञान आणि विश्लेषणाद्वारे समर्थपणे समर्थित कार्यरत कलेकशन टीममधील गुंतवणुकीद्वारे कंपनी संकलनाच्या उद्योग स्तरांच्या बरोबरीने सातत्याने कार्य करत आहे. तथापि, सूक्ष्म कर्जासारखी काही घटनांच्या जोखमीना बळी पडू शकतात. अशा घटनांच्या जोखमीसाठी प्रीमियम प्रत्येक उत्पादनाच्या किंमतीमध्ये समाविष्ट केला जातो.
5.	<b>करपूर्व ROA</b>	मालमतेवरील मूळ परतावा हा कंपनीला तिच्या मालमतेवर अपेक्षित असलेला किमान परतावा असतो.

i. **घाऊक उत्पादनांसाठी:**

फ्लोटिंग व्याजदर कर्ज पारदर्शक बैंचमार्कशी जोडली जातील जी L&T फायनान्स होलिंग्ज लिमिटेड ("कंपनी") पीएलआर\*, ब्लूमबर्ग एए किंवा जीओआय सिक्युरिटीज किंवा एमआयबीओआर किंवा लीड लैंडरचा बेस रेट/एमसीएलआर (कंसोर्टियमच्या बाबतीत) यासह निधीची किंमत दर्शवितात कर्ज देणे किंवा इतर कोणतेही योग्य बैंचमार्क (उदा. एसबीआय बेस दर/एमसीएलआर इ.).

स्थिर व्याजदर व्यवहारासाठी, वर चर्चा केल्याप्रमाणे जोखीम दृष्टिकोनाच्या श्रेणीकरणाव्यतिरिक्त संध्याच्या व्याजदर परिस्थितीच्या आधारावर मंजूरी/वितरणाच्या वेळी प्रत्येक प्रकरण ते प्रकरण आधारावर व्याजदर निश्चित केला जाईल.

भागांवरील परतावा, भागधारक मूळ्य वर्धित इत्यादी संकल्पना देखील किंमत ठरवण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

प्रत्येक व्यवहाराची किंमत इतर गोष्टींबरोबरच क्लायंटशी योग्य वाटाघार्टीवर आधारित असेल आणि कंपनीच्या पत धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे मान्यता देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या मंजुरीच्या अधीन असेल.

पीएलआर कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, त्यात कोणताही बदल मालमता दायित्व व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेच्या अर्धीन आहे.

ii. **किरकोळ कर्जासाठी:**

कंपनी आपल्या किरकोळ कर्जदारांना उत्पादनाच्या स्वरूपावर अवलंबून स्थिर आणि बदलत्या दोन्ही दरांवर पैसे उधार देते. कंपनी त्याच्या कर्जदारांना खालील किरकोळ उत्पादने ऑफर करते जसे की, फार्मर फायनान्स, रुल बिझनेस फायनान्स, वेअरहाऊस रिसीट फायनान्स, टू-व्हीलर फायनान्स, ग्राहक कर्ज, गृहकर्ज आणि मालमतेवरील कर्ज आणि असुरक्षित एसएमई कर्ज.

क्र. सं.	उत्पादन	ऑफरिंग	वार्षिक व्याज दर <sup>1</sup> सामान्यतः आमच्या ग्राहकां <sup>3</sup> कडून आकारला जातो
1.	शेतकरी वित	a) शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, कापणी यंत्र आणि इतर शेतकी अवजारे खरेदी करण्यासाठी कर्ज, ज्याचा वापर शेतजमीनीची मशागत करण्यासाठी आणि उत्पन्न निर्भितीसाठी उत्पादनाची उचल करण्यासाठी केला जातो. f) पौक उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी इनपुट्सच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज g) पौक उत्पादन आणि संबंधित-कृषी	10 % ते 19 % प्रतिवर्ष.
2.	गोदाम पावती वित	शेतकऱ्यांना त्रासदायक विक्री टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या पिकांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळावा यासाठी त्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. कापणीच्या हंगामात, शेतमालाच्या किमती सर्वात कमी असताना, स्पर्धात्मक किमतींवर कृषी माल खरेदी करण्यासाठी व्यापरी आणि प्रोसेसर यांना देखील दिले जाते, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा नफा वाढवता येतो.	8 % ते 15 % प्रतिवर्ष.
3.	टू-व्हीलर फायनान्स	ग्राहकांना त्याच्या/तिच्या उत्पन्नात सहभागी होण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी ग्राहक वापरत असलेल्या दुचाकींच्या खरेदीसाठी कर्ज दया.	8.5 % ते 22 % प्रतिवर्ष.
4.	ग्रामीण गट कर्ज आणि सूक्ष्म वित कर्ज	a) महिला कर्जदारांना उत्पन्नवाढीच्या उपक्रमांसाठी जेएलजी संरचनेअंतर्गत लहान तिकीट गट कर्जे आणि b) ग्रामीण भागातील कर्जदारांसाठी कंपनी ॲफर करण्याचे ठरवू शकते अशी इतर कर्जे	16 % ते 23.50 % प्रतिवर्ष.
5.	मालमत्तेवर सूक्ष्म कर्ज	a) मालमत्तेवर सूक्ष्म कर्ज आणि b) कंपनी ग्रामीण भागातील कर्जदारांसाठी ॲफर करण्याचे ठरवू शकते अशी इतर कर्ज प्रदान करते	14% ते 22% प्रतिवर्ष

क्र. सं.	उत्पादन	ऑफरींग	वार्षिक व्याज दर <sup>1</sup> सामान्यतः आमच्या ग्राहकांकडून आकारला जातो
6.	वैयक्तिक कर्ज	ग्राहकांना त्यांच्या उपभोगाच्या गरजांसाठी कर्ज पुरवते. ग्राहक विविध अंतिम उपयोगासाठी गुंतवणूक करू शकतो उदा. प्रवास, ग्राहकोपयोगी वस्तूची खरेटी, वैद्यकीय बिले, शिक्षण इ. ग्राहक विद्यमान किंवा नवीन ग्राहक असू शकतो.	11 % ते 24 % प्रतिवर्ष.
7.	गृहकर्ज	घरे खरेटी, बांधकाम, सुधारणा आणि विस्तारासाठी ग्राहकांना कर्ज देते. कंपनी इतर बँका/वितीय संस्थांसह विद्यमान गृहकर्ज ग्राहकांना त्यांच्या थकित कर्जाची रक्कम अधिक चांगल्या अटी आणि शर्तीसह आमच्याकडे स्विच करण्याचा पर्याय देखील प्रदान करते.	व्याजाचा बदलता दर L&T फायनान्स लिमिटेडशी-एचएल पीएलआर2 जोडला जाईल. <u>@ निश्चित व्याज दर:</u> 11.5% ते 12.25% प्रतिवर्ष टीप: कृपया # पहा
8.	मालमत्तेवर कर्ज	निवासी (स्वतःअधिग्रहित केलेली, भाडेतत्वावरील, रीकामी) आणि व्यावसायिक मालमत्ता गहाण ठेवून आर्थिक सहाय्यासाठी ग्राहकांना कर्ज उपलब्ध करते.	व्याजाचा बदलता दर L&T फायनान्स लिमिटेडशी-एलएपी पीएलआर2 जोडला जाईल. <u>@ निश्चित व्याज दर:</u> 12.5% ते 13.25% प्रतिवर्ष टीप: कृपया # पहा
9.	असुरक्षित एसएमई कर्ज	प्रामुख्याने लघु आणि मध्यम उद्योगांना आणि व्यक्तींना त्यांच्या व्यवसायासाठी निधी देण्यासाठी कर्ज प्रदान करते	11 % ते 23 % प्रतिवर्ष.
10.	पुरवठा साखळी वित	कॉर्पोरेट अँकरशी संबंधित असलेल्या विक्रेत्यांना आणि डीलर्सना त्यांच्या व्यवसायाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अल्पकालीन वितपुरवठा सुविधा प्रदान करते	<u>8% ते 26% प्रतिवर्ष</u>

@ या पॉलिसीच्या अटीनुसार फ्लोटिंग व्याजदर रीसेट करताना.

# क्रेडिट खराब झाल्यामुळे कोणत्याही विद्यमान कर्जावरील संरचनेसह व्याजदर सुधारित केले जाऊ शकतात (फ्लोटिंग रेट कर्जासाठी संबंधित बेंचमार्क दरात बदल असला तरीही)

#### \*टीप:

- व्याज दर श्रेणी ही एक सूचक आहे आणि अंतिम दर जोखमीच्या श्रेणीकरणावर आधारित आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे सूचक व्याज दर कंपनीच्या विवेकबुद्धीनुसार, कोणत्याही वेळी बदलू शकतात.
- वर्तमान PLR कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, त्यात कोणताही बदल मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेच्या अधीन आहे.
- पूल खरेदीद्वारे घेतलेल्या कर्जाच्या बाबतीत, या कर्जावरील व्याजदर बाह्य बेंचमार्क दर उदा, टी-बिल, रेपो

दर, मोठ्या बँका / वित्तीय संस्थांच्या एमसीएलआर/ बैंचमार्क दरांना संदर्भित केले जाऊ शकतात आणि त्या मर्यादेत असणे आवश्यक नाही, प्रत्येक संबंधित उत्पादनांसाठी वरील सूचक त्यांच्या उत्पत्ती मोडमध्ये दिले आहेत. त्यामुळे अशा कर्जासाठी त्यांची व्याजदराची हालचाल त्यांच्या संबंधित मंजुरी पत्रामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या लिंकड एक्सटर्नल बैंचमार्कमधील बदलांनुसार असेल.

4. क्लाएंतसोबत (जिथे लागू असेल तेथे) यथायोग्य तडजोड करण्याच्या आणि/किंवा कंपनी अनुसरण करत असलेल्या क्रेडिट परिक्षण मानकांच्या आधारावर अंतर्गत प्रायसिंग असेल.

## V. समान मासिक हप्त्यांवर (ईएमआय) आधारित वैयक्तिक कर्जावरील फ्लोटिंग व्याज दर रीसेट करा

आरबीआय ने आपल्या परिपत्रक क्रमांक DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 दिनांक 18 ऑगस्ट, 2023 ("आरबीआय परिपत्रक") द्वारे ईएमआय आधारित वैयक्तिक कर्जावरील फ्लोटिंग व्याजदर रीसेट करण्याबाबत एक नियमावली तयार केली आहे आणि ईएमआय आधारित बदलता दर वैयक्तिक कर्जाच्या संदर्भात नियमन केलेल्या संस्थांनी धोरणात्मक फ्रेमवर्क तयार करणे आवश्यक आहे. "वैयक्तिक कर्ज" या शब्दाची व्याख्या आरबीआय च्या परिपत्रक क्रमांक DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 मध्ये 04 जानेवारी 2018 रोजीच्या "एक्सबीआरएल रिट्नर्स - बँकिंग आकडेवारीचे सामंजस्य" मध्ये केली आहे.

या विभागात समाविष्ट असलेल्या सूचना संध्याच्या तसेच नवीन कर्जाना 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत विस्तारित कराव्यात.

ईएमआय आधारित बदलतादर वैयक्तिक कर्ज मंजूर करताना, कर्जाच्या कालावधीत बाह्य बैंचमार्क दरात संभाव्य वाढीच्या परिस्थितीत, मुदत वाढवण्यासाठी आणि/किंवा ईएमआय मध्ये वाढ करण्यासाठी पुरेशी हेडरम/मार्जिन उपलब्ध आहे याची खाली करण्यासाठी कंपनी कर्जदारांची परतफेड क्षमता विचारात घेईल. ईएमआय आधारित बदलता दर वैयक्तिक कर्जाच्या संदर्भात, कंपनी खालील फ्रेमवर्कचे पालन करेल:

1. मंजुरीच्या वेळी, कंपनी कर्जदारांना कर्जावरील बैंचमार्क व्याजदरातील बदलामुळे ईएमआय आणि/किंवा मुदतीत किंवा दोन्हीमध्ये बदल होण्याच्या संभाव्य परिणामाबदल स्पष्टपणे कळवेल. त्यानंतर, वरील कारणामुळे ईएमआय/ मुदतीत किंवा दोन्हीमध्ये कोणतीही वाढ झाल्यास योग्य चॅनेलद्वारे कर्जदाराला त्वरित कळवले जाईल.
2. व्याजदर पुनर्संचयित करताना, कर्जदाराला कर्जाच्या कालावधीत विद्यमान बदलत्या दरावरून एका निश्चित दरावर एकदा स्विच करण्याचा पर्याय प्रदान केला जाईल. कर्जाच्या कालावधी दरम्यान स्थिर ते बदलता किंवा बदलता ते स्थिर करण्यासाठी कोणतेही पुढील स्विच कंपनीच्या विवेकबुद्धीनुसार असेल.
3. कर्जदाराकडे (a) (i) ईएमआय वाढवणे किंवा (ii) मुदत वाढवणे किंवा (iii) कंपनीच्या अंतर्गत धोरणांनुसार दोन्ही पर्यायांचे संयोजन करणे ; आणि, (b) कर्जाच्या कालावधी दरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर, एकतर अंशात: किंवा पूर्ण स्वरूपात, पूर्वप्रदान करण्याचा पर्याय असेल..
4. कर्जे फ्लोटिंगासून स्थिर दरावर स्विच करण्यासाठी लागू होणारे सर्व शुल्क आणि वरील पर्यायांच्या वापरासाठी अनुबंधिक कोणतेही सेवा शुल्क/प्रशासकीय खर्च हे मंजूरी पत्रात आणि कंपनीद्वारे वेळोवेळी अशा शुल्क/खर्चाच्या पुनरावृत्तीच्या वेळी उघड केले जातील.
5. कंपनी हे सुनिश्चित करेल की बदलता दर कर्जाच्या बाबतीत मुदत वाढल्यास नकारात्मक परिशोधन होणार नाही.
6. कंपनी योग्य चॅनेलद्वारे, कर्जदारांना प्रत्येक तिमाहीच्या शेवटी एक विधान सामायिक करेल / प्रवेशयोग्य बनवेल, ज्यामध्ये किमान, आजपर्यंत वसूल केलेले मुद्दल आणि व्याज, ईएमआय रक्कम, बाकी ईएमआय ची संख्या आणि कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी वार्षिक व्याज दर / वार्षिक टक्केवारी दर (एपीआर) यांची गणना स्पष्ट केलेली असेल.
7. समान मासिक हप्त्यांच्या कर्जाव्यतिरिक्त, या सूचना वेगवेगळ्या कालावधीच्या सर्व समान हप्त्यांवर आधारित कर्जाना देखील लागू होतील.
8. कंपनी सर्व विद्यमान कर्जदारांना, त्यांच्यासाठी उपलब्ध पर्यायांची माहिती देऊन, योग्य माध्यमांद्वारे एक संप्रेषण पाठवेल.

## VI. शुल्क आणि आकार

कर्जावर व्याज आकाराण्याबोररच, कंपनी लागू होईल त्याप्रमाणे शुल्क आणि आकार देखील लावेल. याव्यतिरिक्त,

कंपनी मुद्रांक शुल्क, सेवा कर/जीएसटी आणि वेळोवेळी लागू होणारा इतर उपकर देखील गोळा करेल. या शुल्कातील कोणतीही सुधारणा ग्राहकांशी योग्य संवाद साधून संभाव्य आधारावर लागू केली जाईल.

शुल्काचे लागू वेळापत्रक (जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा) कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

## VII. पॉलिसीची मालकी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पॉलिसीचे मालक असतील आणि ते पॉलिसीच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असतील. संचालक मंडळ कंपनीच्या मालमता मूळ्य निर्धारण समितीला इतर गोष्टीबोरोबरच या व्याजदर मॉडेल धोरणाचा आढावा घेण्यास आणि त्यात योग्य बदल करण्यास अधिकृत करते, ज्यामध्ये मुद्रा बाजार परिस्थिती आणि/किंवा कोणत्याही नियामकांच्या आवश्यकतावर आधारित व्याजदर श्रेणीतील कोणतेही बदल समाविष्ट आहेत ज्यामध्ये विविध कर्ज उत्पादनांना लागू असलेल्या व्याजदरांमध्ये वाढ/कमी सुधारणा आणि अशा कर्ज उत्पादनांसाठी लागू असलेले संबंधित शुल्क समाविष्ट आहे.

## VIII. पॉलिसीच्या पैलूंचे संप्रेषण

संप्रेषणाच्या स्वीकारार्ह पद्धतीद्वारे कंपनी कर्ज मंजूरीच्या वेळी / कर्ज मिळवत असताना ग्राहकांना लागू व्याजदर कळवेल.

व्याज दराचे मॉडेल आणि शुल्काचे वेळापत्रक (जेथे आवश्यक असेल तेथे) कंपनीच्या वेबसाइटवर अपलोड केले जाईल आणि विद्यमान ग्राहकांसाठी मापदंड दर आणि शुल्कांमधील कोणताही बदल कंपनीच्या वेबसाइटवर अपलोड केला जाईल.

## IX. पॉलिसीचे पुनरावलोकन/सुधारणा

धोरण आणि कोणतेही नियम, नियमने, मार्गदर्शक तत्वे, अधिसूचना, स्पष्टीकरणे, परिपत्रके, मुख्य परिपत्रके/संबंधित प्राधिकरणांनी जारी केलेले निर्देश ("नियामक तरतुदी") यांच्यात कोणत्याही वेळी अर्थाचा/माहितीचा संघर्ष उद्भवल्यास, नियामक तरतुदीचा अर्थ लक्षात घेतला जाईल. नियामक तरतुदीमध्ये कोणतीही सुधारणा आणि/किंवा स्पष्टीकरण असल्यास, नियामक तरतुदीनुसार निर्दिष्ट केलेल्या प्रभावी तारखेपासून धोरणात त्यानुसार सुधारणा केली जाईल.

कागदपत्राचा मालक	संबंधित जीईसी
------------------	---------------

### आवृत्ती नियंत्रण

आवृत्ती	दिनांक	लेखक	वर्णन बदला
1.0	नोव्हेंबर 2023	संबंधित जीईसी	नवीन धोरण स्वीकारले
2.0	जानेवारी 2024	संबंधित जीईसी	गृहकर्ज आणि मालमतेवरील कर्जासाठी निश्चित व्याजदर श्रेणी जोडणे
3.0	ऑक्टोबर 2024	संबंधित जीईसी	वार्षिक पुनरावलोकन- प्रक्रिया अद्यतनाच्या अनुषंगाने पुनरावृत्ती केली जाते

4.0	जानेवारी 2025	बोर्ड	मालमता मूल्य निर्धारण समितीने मंजूर केलेल्या विशिष्ट उत्पादनांच्या व्याजदर श्रेणीतील प्रक्रियेच्या अद्यतन आणि सुधारणांच्या नोंदीनुसार केलेल्या सुधारणा.
-----	---------------	-------	---

हा दस्तऐवज कंपनीच्या अंतर्गत वापरासाठी आहे. या लिंकमधील कोणत्याही दस्तऐवजाचा कोणताही भाग कोणत्याही स्वरूपात पुनरुत्पादित किंवा कॉपी केला जाऊ शकत नाही, प्रसारित किंवा कोणत्याही प्रकारे [फोटोकॉपी, रेकॉर्डिंग, टेपिंग किंवा माहिती पुनर्प्राप्ती प्रणालीसह ग्राफिक, इलेक्ट्रॉनिक किंवा यांत्रिक] कोणत्याही डिस्क, टेप, परफोरेटेड मीडिया किंवा इतर माहिती साठवण्याचे साधन इ. वर कोषागार विभागाच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय पुनरुत्पादित केले जाऊ शकत नाही.

## व्याज एव भोडल

L&T फायनान्स लिमिटेड (अगाउ L&T फायनान्स होल्डिंग्स लिमिटेड तरीके ओળखातुं हतुं)  
 ("एलटीएफ")तरफथी शुभे रुद्धार्थो,

## વિષય સૂચિ

I.	પ્રસ્તાવના.....	30
II.	ઉકેશ્ય .....	30
III.	જોખમના ગ્રેડેશન માટેનો અભિગમ.....	30
IV.	કિમત નિર્ધારણ .....	31
V.	સમાન માસિક હપ્તાઓ (ઇએમઆઈ) આધારિત વ્યક્તિગત લોન પર ફ્લોટિંગ વ્યાજ દરને ફરીશી સેટ કરો 35	
VI.	ડી અને શુલ્ક .....	36
VII.	નીતિની માલિકી.....	36
VIII.	નીતિના પાસાઓનો સંચાર.....	36
IX	<u>સમીક્ષા/સુધારણા</u> .....	36

## I. પ્રસ્તાવના

ભારતીય રિઝર્વ બેંક(આરબીઆઈ) એ 2 જાન્યુઆરી, 2009 ના રોજના તેના જાહેરનામા અને 26 માર્ચ, 2012 ના રોજના નોન-બેંકિંગ ફાયનાન્સ કંપનીઓ માટે મફેયર પ્રેક્ટિસ કોડ પરની માર્ગદર્શિકા દ્વારા સમાવિષ્ટ કરેલ છે, જે હવે 19 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજના માસ્ટર ડાયરેક્શન - રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (નોન-બેંકિંગ ફાયનાન્સિયલ કંપની - સ્કેલ બેઝ રેઝયુલેશન) ડાયરેક્શન, 2023 તારીખ 19 ઓક્ટોબર, 2023, જે સમયાંતરે અપડેટ કરવામાં આવે છે માં સમાવિષ્ટ છે, એ તમામ એનબીએફ્સી ને નિર્દેશ આપ્યો છે કે:

- બંદોળની કિમત, માર્જિન અને જોખમ, પ્રીમિયમ વગેરે જેવા સંબંધિત પરિબળોને ધ્યાનમાં લેતા બોર્ડ દ્વારા માન્ય વ્યાજ દર મોડલ મૂકો અને લોન અને એડવાન્સિસ માટે વસૂલવામાં આવનાર વ્યાજનો દર નક્કી કરો
- ઝાણ લેનારને વ્યાજના દરની સાથે જોખમના ગ્રેડેશન માટેના અભિગમ અને વિવિધ કેટેગરીના ઝાણ લેનારાઓને વ્યાજના અલગ-અલગ દરો વસૂલવાના તર્ક સાથે વાતચીત કરો.
- કંપનીઓની વેબસાઇટ પર વ્યાજના દરો અને જોખમોના ગ્રેડેશન માટેનો અભિગમ ઉપલબ્ધ કરાવો.

## II. ઉદ્દેશ્ય

ગ્રાહક સેગમેન્ટની વિવિધ શ્રેણીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બેન્ચમાર્ક દરો પર પહોંચવા અને ગ્રાહકો પાસેથી વસૂલવામાં આવેલા અંતિમ દરો પર પહોંચવા માટે ચાર્જિંગ સ્પ્રેડના સિદ્ધાતો અને અભિગમ નક્કી કરવા.

## III. જોખમના ગ્રેડેશન માટેનો અભિગમ:

વિવિધ બિઝનેસ સેગમેન્ટ્સ અને તે હેઠળની વિવિધ સ્કીમ માટે લોન માટે વ્યાજનો દર સંબંધિત બિઝનેસ સેગમેન્ટ દ્વારા સ્પ્રેડ માટે એડજસ્ટ કર્યા પછી આવે છે.

સ્પ્રેડની ગણેતરી કરવા માટે વ્યવસાયો દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા પરિબળો (સંબંધિત વ્યવસાય માટે લાગુ) નીચે મુજબ છે:

- વ્યાજ દર જોખમ (ફિક્સ્ડ વિ ફ્લોટિંગ લોન)
- સંબંધિત બિઝનેસ સેગમેન્ટમાં કેટિ અને ડિફોલ્ટ જોખમ
- એપ્લિકેશન સ્કોરકાર્ડનું આઉટપુટ
- સમાન સમાન ગ્રાહકોનું ઔતિહાસિક પ્રદર્શન
- ઉધાર લેનારની પ્રોફાઇલ
- ઇન્ડસ્ટ્રી સેગમેન્ટ
- ઉધાર લેનારનો પુનઃચુકવણી ટ્રેક રેકૉર્ડ
- કોલેટરલ સુરક્ષાની પ્રકૃતિ અને મૂલ્ય
- સુરક્ષિત વિ અસુરક્ષિત લોન

- સબવેન્શન ઉપલબ્ધ છે
- લોનની ટિકિટનું કડ
- બ્યુરો સ્કોર
- લોનની મુદત
- સ્થાન અપરાધ અને સંગ્રહ કામગીરી
- ગ્રાહક ઝાણ (અન્ય વર્તમાન લોન)
- સ્પર્ધા અને અન્ય સંબંધિત પરિબળો દ્વારા ઓફર કરાયેલ કિંમત

વિવિધ ગ્રાહકો દ્વારા સમાન સમયગાળા દરમિયાન એક જ ઉત્પાદન અને મુદત માટેના વ્યાજનો દર સમાન હોવો જરૂરી નથી. ઉપરોક્ત તમામ પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને અથવા સંયોજનના આધારે તે વિવિધ ગ્રાહકો માટે બદલાઈ શકે છે.

વ્યાજનો દર માસિક, દ્વિ-માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધ-વાર્ષિક અથવા વાર્ષિક ચકવૃદ્ધિ સાથે વાર્ષિક દરો હશે.

#### IV. કિંમત નિર્ધારણ

પ્રાઇસીંગ અનિવાર્યપણે જોખમ, મુદત અને પ્રવર્તમાન બજાર વલણનું કાર્ય છે. જ્યાં સુધી ફંડ-આધારિત એક્સપોઝરની વાત છે, કિંમત નિર્ધારણમાં બે ઘટકો છે, જેમ કે, બેન્ચમાર્ક અને સ્પ્રેડ. બેન્ચમાર્ક અને સ્પ્રેડ એ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ, માર્જિન, રિસ્ક પ્રીમિયમ વગેરેનું કાર્ય છે.

સંસ્થા દ્વારા ફિક્સ્ડ અથવા ફ્લોટિંગ વ્યાજ દરની લોન ઓફર કરવાનો નિર્ણય, અન્ય બાબતોની સાથે સાથે ઓફર કરવામાં આવતી પ્રોડક્ટની પ્રકૃતિ, બજારની સ્થિતિ, સોતો અને ભંડોળની શરતો, કલાયન્ટની જરૂરિયાત વગેરે પર નિર્ધર રહેશે.

કંપની લોન મંજૂર કરતી વખતે લોન લેનારને, લોનની રકમ અને વ્યાજના દરની સાથે હપ્તાની મુદત અને રકમની જાણ કરે છે.

આમાંના પ્રત્યેક ઉત્પાદનોની કિંમત ભંડોળની કિંમત, જોખમ પ્રીમિયમ, અન્ય ઓપરેટિંગ ખર્ચ, માર્જિન, કેડિટ નુકસાન અને કરવેરા પહેલાના આરથોએને ધ્યાનમાં લઈને નક્કી કરવામાં આવે છે.

ક્રમ નં	પરિબળ	વર્ણન
---------	-------	-------

1.	બંડોળના કિમત	<ul style="list-style-type: none"> <li>કંપની તેના ધિરાણકર્તાઓ પાસેથી અંતિમ ઉપયોગ નિર્દિષ્ટ અને/અથવા અસ્પષ્ટ એમ બંને સાથે બંડોળ ઊભું કરે છે જે પ્રાપ્તિપાત્રોના પૂલની વિરુદ્ધ છે.</li> <li>કંપની દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી વિવિધ પ્રોડક્ટ્સ માટે ફંડની કિમત અલગ-અલગ હોય છે જેમ કે ફિક્સ્ડ/ફલોટિંગ રેટ, ટેનર, રિપેમેન્ટ ફીકવન્સી, અગ્રતા ધિરાણ લાભો વગેરે.</li> <li>કંપનીએ બિઝનેસ ચલાવવા માટે અમુક ઈક્વિટી હિસ્સો પણ મૂકવો પડે છે અને આવી ઈક્વિટીની કિમતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.</li> <li>કંપની લિક્વિડટી રિસ્કને મેનેજ કરવા માટે લિક્વિડ ફંડ્સમાં રોકાણના સ્વરૂપમાં અમુક લિક્વિડટી બફર પણ રાખે છે અને તે રોકાણો પર પણ નકારાત્મક વહન કરવું પડે છે.</li> </ul>
2.	ઓપરેટિંગ ખર્ચ	કંપની દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી છટક પ્રોડક્ટ્સ ધરની ટીમો/ડીઓસએ દ્વારા મેળવવામાં આવે છે અને તેની પોતાની ટીમો/કલેક્શન એજન્ટો દ્વારા કલેક્શન પણ હાથ ધરવામાં આવે છે. તદનુસાર, કંપની તેના રોલ્સ પર મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ તેમજ કલેક્શન એજન્ટો દ્વારા કાર્ય કરે છે જે ઓપરેટિંગ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે.
3.	માર્જિન	કંપની 22 રાજ્યો, 2 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સ્થિત તેની શાખાઓના વિશાળ નેટવર્ક દ્વારા અને મોટાભાગે તેના પોતાના કર્મચારીઓ/સંગ્રહ એજન્ટો દ્વારા કાર્ય કરે છે. કંપનીએ તેના ગ્રાહકોને લોન સવિસિંગ સુધારવા માટે ટેકનોલોજીમાં વ્યાપકપણે રોકાણ કર્યું છે. ટીમો વ્યવસાયના સોસિંગ માટે ટેકનોલોજી અને એનાલિટિક્સ દ્વારા સમર્થિત છે. માર્જિન તેથી તે મુજબ ગણવામાં આવે છે.
4.	જોખમ પ્રીમિયમ	કંપની ટેકનોલોજી અને એનાલિટિક્સ દ્વારા સમર્થિત ઓન-ગ્રાઉન્ડ કલેક્શન ટીમમાં રોકાણ દ્વારા કલેક્શનના ઉદ્યોગના સ્તરની સમકક્ષ રીતે કામ કરી રહી છે. જો કે, સૂક્ષ્મ લોન જેવી કેટલીક પ્રોડક્ટ્સ ડિમોનેટાઇઝેશન, પૂર, કોવિડ 2019 વગેરે જેવા અમુક ઘટનાના જોખમો માટે જોખમી હોઈ શકે છે. આવી ઘટનાના જોખમ માટેનું પ્રીમિયમ દરેક ઉત્પાદનની કિમતમાં સમાવવામાં આવે છે.
5.	પ્રી-ટેક્સ આરઓએ	અસ્કયામતો પરનું મૂળ વળતર એ કંપની દ્વારા તેની અસ્કયામતો પર અપેક્ષિત ન્યૂનતમ વળતર છે.

i. જશ્યાબંધ ઉત્પાદનો માટે:

ફલોટિંગ વ્યાજ દરની લોન પારદર્શક બેન્ચમાર્ક સાથે જોડાયેલ હુશે જે L&T ફિનાન્સ લિમિટેડ ("કંપની") પીએલઆર\*, બ્લૂમબર્ગ એચેએ અથવા જુઓઆઈ સિક્યોરિટીઝ અથવા એમઆઈબીઆર અથવા લીડ ધિરાણકર્તાના બેઝ રેટ/એમ્સીએલઆર (કંસોર્ટિયમ ધિરાણના કિસ્સામાં) અથવા અન્ય કોઈપણ સહિતના બંડોળના ખર્ચને વ્યાપકપણે પ્રતિબિંબિત કરે છે. યોગ્ય બેન્ચમાર્ક (દા.ત., એસબીઆઈ બેઝ

રેટ/એમસીએલઆર વગેરે).

નિશ્ચિત વ્યાજ દરના વ્યવહાર માટે, ઉપર ચર્ચા કર્યા મુજબ જોખમ અલિગમના ગ્રેડેશન ઉપરાંત વર્તમાન વ્યાજ દરના પરિદ્રશ્યના આધારે મંજૂરી/વિતરણ સમયે દરેક કેસ-ટુ-કેસ આધારે વ્યાજ દર નક્કી કરવામાં આવશે.

ઇઝ્વેટી પર વળતર, શેરહોલ્ડર વેલ્વ્યુ એડેડ વગેરે જેવા ખ્યાલોનો ઉપયોગ પણ કિંમત નક્કી કરવા માટે થઈ શકે છે.

દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનની કિંમત અન્ય બાબતોની સાથે-સાથે કલાયન્ટ સાથે યોગ્ય વાતાવાર પર આધારિત હશે અને કંપનીની કેડિટ પોલિસીમાં જણાવ્યા મુજબ મંજૂરી આપનાર સત્તાધિકારીની મંજૂરીને આધીન હશે.

પીએલઆર કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે, તેમાં કોઈપણ ફેરફાર એસેટ લાયબિલિટી મેનેજમેન્ટ કમિટીની મંજૂરીને આધીન છે.

## ii. છૂટક લોન માટે:

કંપની તેના છૂટક ઉધાર લેનારાઓને ઉત્પાદનની પ્રકૃતિના આધારે ફિક્સ્ડ અને ફ્લોટિંગ બંને દરે નાણાં ઉધીના આપે છે. કંપની તેના લેનારાઓને ફાર્મર ફાઇનાન્સ, રૂરલ બિઝનેસ ફાઇનાન્સ, વેરહાઉસ રિસિપ્ટ ફાઇનાન્સ, ટુ-વીલર ફાઇનાન્સ, કન્યાયુમર લોન, હોમ લોન અને પ્રોપર્ટી સામે લોન અને અસુરક્ષિત એસએમઈ લોન નામની રિટેલ પ્રોડક્ટ્સ ઓફર કરે છે.

ક્રમ. નં	ઉત્પાદન	ઓફર કરે છે	વાર્ષિક વ્યાજ દર <sup>1</sup> સામાન્ય રીતે અમારા ગ્રાહક પાસેથી વસ્તુલવામાં આવે છે <sup>3</sup>

1.	ઘેડૂત નાણા	a) ઘેડૂતોને ટ્રેક્ટર, હાવેસ્ટર અને અન્ય કૃષિ ઓજારો ખરીદવા માટે લોન આપો, જેનો ઉપયોગ એતીની જમીનને ઘેડવામાં અને આવક ઉલ્લિ કરવા માટે ઉત્પાદનની હેરફેર માટે કરવામાં આવે છે b) પાક ઉત્પાદન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કૃષિ ઇનપુટ્સની ખરીદી માટે ઘેડૂતોને લોન c) પાક ઉત્પાદન અને સંલગ્ન-કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ માટે કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો માટે ઘેડૂતોને લોન	10 % થી 19 % પ્રતિ વર્ષ.
2.	વેરહાઉસ રસીદ ફાઇનાન્સ	ઘેડૂતોને મુશ્કેલીના વેચાણને ટાળવા અને તેમના પાકના ઉત્પાદન માટે વધુ સારા ભાવ મેળવવા માટે ઢંકા ગાળાની લોન પૂરી પાડે છે. લાણાણીની મોસમ દરમિયાન, જ્યારે કોમોડિટીના ભાવ સૌથી નીચા હોય છે, ત્યારે તે વેપારીઓ અને પ્રોસેસર્સને સ્પર્ધાત્મક ભાવે કૃષિ કોમોડિટીની ખરીદી કરવા માટે પણ વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે, જેથી તેઓ તેમની નફાકારકતા વધારવા માટે સક્ષમ બને.	8 % થી 15 % પ્રતિ વર્ષ.
3.	ટુ-વીલર ફાઇનાન્સ	ગ્રાહકોને ટુ વીલર ખરીદવા માટે લોન આપો જેનો ઉપયોગ ગ્રાહક દ્વારા તેની/તેણીની પેઢીમાં હાજરી આપવા અથવા તેને વધારવા માટે કરવામાં આવે છે.	8.5 % થી 22 % પ્રતિ વર્ષ.
4.	ગ્રામીણ જીથ લોન અને માઈકોફાયન્સ લોન	a) મહિલા ઉધારકર્તાઓને જેએલજી માળખા હેઠળ નાની ટિકિટ જીથ લોન આવક પેદા કરવાની પ્રવૃત્તિઓ માટે પૂરી પાડે છે. b) ગ્રામીણ વિસ્તારો અને ગામડાઓમાં વ્યક્તિગત લોન c) મિલકત સામે ગ્રામીણ લોન અને d) કંપની ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઉધારકર્તાઓ માટે ઓફર કરવાનું નક્કી કરી શકે તેવી અન્ય લોન	16 % થી 23.50 % પ્રતિ વર્ષ.
5.	પ્રોપરી સામે લોન:	એ) પ્રોપરી સામે માઈકો લોન અને બી) કંપની ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઉધારકર્તાઓ માટે ઓફર કરવાનું નક્કી કરી શકે તેવી અન્ય	14% થી 22% પ્રતિ વર્ષ.

		લોન પૂરી પાડે છે.	
6.	વ્યક્તિગત લોન	ગ્રાહકોને તેમની વપરાશની જરૂરિયાતો માટે લોન આપે છે. ગ્રાહક વિવિધ અંતિમ ઉપયોગો માટે રોકાણ કરી શકે છે જેમ કે. મુસાફરી, કન્યામર ડયુરેબલ્સ, મેડિકલ બિલ, શિક્ષણ વગેરેની ખરીદી. ગ્રાહક હાલના અથવા નવા ગ્રાહક હોઈ શકે છે. ગ્રાહક હાલના અથવા નવા ગ્રાહક હોઈ શકે છે.	11 % થી 24 % પ્રતિ વર્ષ.
7.	હોમ લોન	ગ્રાહકોને ઘરોની ખરીદી, બાંધકામ, સુધારણા અને વિસ્તરણ માટે લોન પૂરી પાડે છે. કંપની અન્ય બેંકો/નાણાકીય સંસ્થાઓ સાથેના હાલના હોમ લોન ગ્રાહકોને તેમની બાકી લોનની રકમ વધુ સારા નિયમો અને શરતો સાથે અમને સ્વિચ કરવાનો વિકલ્પ પણ પ્રદાન કરે છે.	ફલોટિંગ વ્યાજ દર L&T ફાઇનાન્સ લિમિટેડ સાથે લિંક કરવામાં આવશે - એચએલ પીએલઆર૨.  @ વ્યાજનો નિશ્ચિત દર: 11.5% થી 12.25% પ્રતિ વર્ષ.  નોંધ: કૃપા કરીને # નો સંદર્ભ લો
8.	સામે લોન મેલકત	ગ્રાહકોને લોન પૂરી પાડે છે સામે નાણાકીય સહાય રહેણાંક મકાનનું ગારો (સેલ્ફ-કબજા હેઠળના, ભાડાના, ખાલી) અને વાણિજ્યિક મિલકતો.	ફલોટિંગ વ્યાજ દર L&T સાથે જોડાયેલ હશે ફાઇનાન્સ લાયિટેડ - એલએપા પાએલઆર૨.  @ વ્યાજનો નિશ્ચિત દર: 12.5% થી 13.25% પ્રતે વાર્ષિક નોંધ: કૃપા કરીને # નો સંદર્ભ લો
9.	અસુરક્ષિત એસએમઈ લોન	મુખ્યત્વે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો અને વ્યક્તિઓને તેમના વ્યવસાય માટે ભંડોળ પૂર્ણ પાડવા માટે	11% થી 23% વાર્ષિક જરૂરિયાત માટે લોન આપે છે.
10.	સપ્લાય ચેઇન ફાઇનાન્સ	ક્રોપોરેટ એન્કર સાથે સંકળાયેલા વિકેતાઓ અને ડીલરોને તેમની વ્યવસાયની જરૂરિયાતને ભંડોળ પૂર્ણ પાડવા માટે ટ્રેક ગાળાની ધિરાણની સુવિધા પૂરી પાડે છે.	8% થી 26% પ્રતિ વર્ષ.

④ આ પોલિસીની શરતો અનુસાર ફ્લોટિંગ વ્યાજ દરના રીસેટ સમયે.

# કેડિટ બગાડને કારણે હાલની કોઈપણ લોન પર તેના માળખા સહિત ફેરફાર થઈ શકે છે (ફ્લોટિંગ રેટ લોન માટે સંબંધિત બેન્ચમાર્ક દરમાં ફેરફારને ધ્યાનમાં લીધા વગર)

\*નોંધ:

1. વ્યાજ દર શ્રેષ્ઠી એક સૂચક છે અને અંતિમ દર જોખમના ગ્રેડેશનના આધારે આવે છે. ઉપર જણાવેલ સૂચક વ્યાજ દર કોઈપણ સમયે બદલાઈ શકે છે, જે કંપનીના સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિને આધીન છે.
2. પીએલઆર કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે, તેમાં કોઈપણ ફેરફાર એસેટ લાયબિલિટી મેનેજમેન્ટ કમિટીની મંજૂરીને આધીન છે.
3. પૂલ ખરીદી દ્વારા મેળવેલી લોનના ડિસ્સામાં, આ લોન પરના વ્યાજ દરને બાબત બેન્ચમાર્ક દર જેમ કે, ટી-બિલ, રેપો રેટ, મોટી બેકો/ફાયનાન્સિયલ સંસ્થાના એમસીએલઆર/ બેન્ચમાર્ક દરોનો સંદર્ભ આપવામાં આવી શકે છે અને તે જરૂરી નથી કે તે દરેક સંબંધિત ઉત્પાદનો માટે તેમના મૂળ મોડને ધ્યાનમાં રાખીને ઉપરોક્ત સૂચક શ્રેષ્ઠીમાં હોય. આથી આવી લોન માટે તેમના વ્યાજ દરની હિલચાલ તેમના સંબંધિત મંજૂરી પત્રમાં ઉત્લેખિત લિંક એક્સ્ટર્નલ બેન્ચમાર્કમાં ફેરફારો અનુસાર હશે.
4. કિંમત અન્ય બાબતોની સાથે કલાયન્ટ સાથે યોગ્ય વાતાવરણો (જ્યાં લાગુ પડે) પર આધારિત હશે અને/અથવા કંપની દ્વારા અનુસરવામાં આવતા કેડિટ મૂલ્યાંકન પરિમાણો.

#### V. સમાન માસિક હપ્તાઓ (ઇએમઆઈ) આધારિત વ્યક્તિગત લોન પર ફ્લોટિંગ વ્યાજ દરને ફરીથી સેટ કરો

આરબીઆઈ એ તેના પરિપત્ર નંબર ડીઓઆર.એમસીએસ.આરઈસી.32/01.01.003/2023-24 તારીખ 18 ઓગસ્ટ, 2023 ("આરબીઆઈ પરિપત્ર") દ્વારા ઇએમઆઈ આધારિત પર્સનલ લોન પર ફ્લોટિંગ વ્યાજ દરને રીસેટ કરવા અંગે એક નિયમ ઘડયો છે અને તેની જરૂરિયાત ઇએમઆઈ આધારિત ફ્લોટિંગ રેટ પર્સનલ લોનના સંબંધમાં પોલિસી માળખું તૈયાર કરવા માટે નિયમન કરેલ એન્ટ્રી. "વ્યક્તિગત લોન" શબ્દની વ્યાખ્યા 04 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજના "એક્સબીઆરએલ રિટન્સ - બેંકિંગ આંકડાઓની સુમેળ" પરના આરબીઆઈ પરિપત્ર નંબર ડીબીઆર.ના.બી.પી.બીસી.99/08.13.100/2017-18 માં કરવામાં આવી છે.

આ વિભાગમાં આવરી લેવામાં આવેલી સૂચનાઓ હાલની તેમજ નવી લોન પર લાગુ થવાની છે યોગ્ય રીતે 31 ડિસેમ્બર, 2023 સુધીમાં.

ઇએમઆઈ આધારિત ફ્લોટિંગ રેટ પર્સનલ લોન મંજૂર કરતી વખતે, કંપની સંબંધિત વધારાના સંજોગોમાં, મુદ્દત વધારવા અને/અથવા ઇએમઆઈમાં વધારો કરવા માટે પર્યાપ્ત હેડરૂમ/માર્જિન ઉપલબ્ધ છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉધારકર્તાઓની પુનઃચૂકવણી ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લેશે. લોનના સમયગાળા દરમિયાન બાબત બેન્ચમાર્ક દરમાં. ઇએમઆઈ આધારિત ફ્લોટિંગ રેટ પર્સનલ લોનના સંદર્ભમાં, કંપની દ્વારા નીચેના માળખાને અનુસરવામાં આવશે:

1. મંજૂરી સમયે, કંપનીએ લોન પરના બેન્ચમાર્ક વ્યાજ દરમાં ફેરફારની સંભવિત અસર વિશે સ્પષ્ટપણે ઉધાર લેનારાઓને કોમ્પ્યુનિકેશન કરવો જોઈએ જે ઈએમઆઈ અને/અથવા મુદત અથવા બંનેમાં ફેરફાર તરફ દોરી જાય છે. ત્યારબાદ, ઉપરોક્ત કારણોસર ઈએમઆઈ/ મુદત અથવા બંનેમાં કોઈપણ વધારાની જાણ ઉધાર લેનારને યોગ્ય માધ્યમો દ્વારા તરત જ કરવામાં આવશે.
2. વ્યાજ દરો રીસેટ કરતી વખતે, લોન લેનારને લોનના સમયગાળા દરમિયાન હાલના ફ્લોટિંગ રેટમાંથી એક નિશ્ચિત દર પર એક વાર સ્વિચ કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે. લોનની મુદત દરમિયાન ફિક્સડમાંથી ફ્લોટિંગ અથવા ફ્લોટિંગથી ફિક્સડમાં કોઈપણ વધુ સ્વિચ કંપનીની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિ પર રહેશે.
3. ઝાણ લેનાર પાસે (એ) (i) ઈએમઆઈમાં વૃદ્ધિ અથવા (ii) મુદત લંબાવવા અથવા (iii) કંપનીની આંતરિક નિતિઓ અનુસાર બંને વિકલ્પોના સંયોજન માટેનો વિકલ્પ હશે; અને, (બી) લોનની મુદત દરમિયાન કોઈપણ સમયે, આંશિક રીતે અથવા સંપૂર્ણ રીતે, પૂર્વચુકવણી કરવી.
4. ઉપરોક્ત વિકલ્પોના ઉપયોગથી સંબંધિત લોનને ફ્લોટિંગથી ફિક્સડ રેટમાં બદલવા માટેના તમામ લાગુ પડતા ચાર્જ અને અન્ય કોઈપણ સેવા ચાર્જ/વહીવટી ખર્ચ મંજૂરી પત્રમાં અને કંપની દ્વારા સમયાંતરે આવા ચાર્જ/ખર્ચમાં સુધારો કરતી વખતે પણ જાહેર કરવામાં આવશે.

5. કંપની એ સુનિશ્ચિત કરશે કે ફલોટિંગ રેટ લોનના કિસ્સામાં મુદત લંબાવવાથી નકારાત્મક ઝાણમુજિતે ન થાય.
6. કંપની દરેક ત્રિમાસિક ગાળાના અંતે એક સ્ટેટમેન્ટ ઉધારકર્તાઓને યોગ્ય માધ્યમો દ્વારા શેર/સુલભ બનાવશે જે ઓછામાં ઓછું મુદત અને આજ સુધી વસૂલ કરાયેલ વ્યાજ, ઈઓમઆઈ રકમ, બાકી ઇઓમઆઈની સંખ્યા અને વ્યાજના વાંચિક દરની ગણતરી કરશે. / લોનના સમગ્ર સમયગાળા માટે વાંચિક ટકાવારી દર (એપીઆર).
7. સમાન માસિક હપ્તા લોન સિવાય, આ સૂચનાઓ વિવિધ સામયિકતાની તમામ સમાન હપ્તા આધારિત લોન પર પણ લાગુ થશે.
8. કંપની તમામ વર્તમાન ઝાણ લેનારાઓને યોગ્ય ચેનલો દ્વારા કોમ્પ્યુનિકેશન મોકલશે, તેમને ઉપલબ્ધ વિકલ્પોની જાણ કરશે.

## VII. ફી અને શુલ્ક

લોન પર વ્યાજ વસૂલવા ઉપરાંત, કંપની ફી અને શુલ્ક પણ લાગુ કરશે. વધુમાં, કંપની સ્ટેપ્પ ડયુટી, સર્વિસ ટેક્સ/જુએસટી અને સમયાંતરે લાગુ પડતા અન્ય સેસ પણ એકત્રિત કરશે. આ શુલ્કમાં કોઈપણ સુધારો ગ્રાહકોને યોગ્ય કોમ્પ્યુનિકેશન સાથે સંબંધિત ધોરણે લાગુ કરવામાં આવશે.

ચાર્જનું લાગુ શેડ્યુલ કંપનીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.

## VIII. નીતિની માલિકી

સંબંધિત બિજનેસ એક્ઝિક્યુટિવ આ પોલિસીના માલિક હશે અને પોલિસીના અમલીકરણ માટે જવાબદાર રહેશે. આથી, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કંપનીની એસેટ પ્રાઇસિંગ કમિટીને અન્ય બાબતોની સાથે, વ્યાજ દર મોડેલ નીતિની સમીક્ષા કરવા અને તેમાં યોગ્ય ફેરફારો કરવા માટે અધિકૃત કરે છે, જેમાં મની માર્કેટ પરિસ્થિતિ અને/અથવા કોઈપણ નિયમનકારોની જરૂરિયાતના આધારે વ્યાજ દરમાં કોઈપણ ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે જેમાં વિવિધ લોન ઉત્પાદનો પર લાગુ વ્યાજ દરોમાં ઉપર/નીચેનો સુધારો અને આવા લોન ઉત્પાદનો માટે લાગુ પડતા સંબંધિત શુલ્કનો સમાવેશ થાય છે.

## VIII. નીતિના પાસાઓનો કોમ્પ્યુનિકેશન

કંપની કોમ્પ્યુનિકેશનના સ્વીકાર્ય મોડ દ્વારા લોન મંજૂર / ઉપલબ્ધ કરતી વખતે ગ્રાહકોને વ્યાજના અસરકારક દરની જાણ કરશે.

વ્યાજ દરનું મોડલ અને ચાર્જનું શેડ્યુલ (જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં) કંપનીની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં આવશે.

આવશે અને હાલના ગ્રાહકો માટેના બેન્ચમાર્ક દર અને ચાર્જીસમાં કોઈપણ ફેરફાર કંપનીની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં આવશે.

#### IX. નીતિની સમીક્ષા/પુનરાવર્તન

જો કોઈપણ સમયે નીતિ અને કોઈપણ નિયમો, નિયમનો, માર્ગદર્શિકા, સૂચના, સ્પષ્ટતાઓ, પરિપત્રો, મુખ્ય પરિપત્રો/ સંબંધિત ઓથોરીટીસ ("નિયમનકારી જોગવાઈઓ") દ્વારા જારી કરાયેલા નિર્દેશો વચ્ચે અર્થઘટન/માહિતીનો સંધર્ષ ભેટો થાય, તો નિયમનકારી જોગવાઈઓનું અર્થઘટન જીતવું. નિયમનકારી જોગવાઈઓમાં કોઈપણ સુધારા(ઓ) અને/અથવા સ્પષ્ટતા(ઓ)ના કિસ્સામાં, નીતિ નિયમનકારી જોગવાઈઓ અનુસાર નિર્દિષ્ટ અસરકારક તારીખથી તે મુજબ સુધારેલ રહેશે

દસ્તાવેજના માલીક

સંબંધિત જીઈસી ના

### સંસ્કરણ નિયંત્રણ

સંસ્કરણ	તારીખ	લેખક	વાણન બદલો
1.0	નવેમ્બર 2023	સંબંધિત જીઈસી ના	નવી નીતિ અપનાવી
2.0	જાન્યુઆરી 2024	સંબંધિત જીઈસી ના	હોમ લોન અને પ્રોપટી સામે લોન માટે નિશ્ચિત વ્યાજ દરની શ્રેણીનો ઉમેરો
3.0	ઓક્ટોબર, 2024	સંબંધિત જીઈસી ના	વાર્ષિક સમીક્ષા- પ્રક્રિયા અપડેટ સાથે અનુરૂપ પુનરાવર્તનો કરવામાં આવે છે
4.0	જાન્યુઆરી 2025	બોર્ડ	એસેટ પ્રાઇસિંગ કમિટી દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ચોક્કસ ઉત્પાદનોના વ્યાજ દર શ્રેણીમાં પ્રક્રિયા અપડેટ અને સુધારાની નોંધ સાથે સુસંગત સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા

આ દસ્તાવેજ કંપનીના આંતરિક ઉપયોગ માટે છે. આ લિંકમાંના કોઈપણ દસ્તાવેજના કોઈપણ ભાગને કોઈપણ સ્વરૂપમાં પુનઃઉત્પાદિત અથવા નકલ કરી શકાશે નહીં, પરિભ્રમણ અથવા કોઈપણ રીતે [ગ્રાફિક, ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા મિકેનિકલ, જેમાં ફોટોકોપી, રેકોર્ડિંગ, ટેપિંગ અથવા માહિતી પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રણાલીનો સમાવેશ થાય છે] કોઈપણ ડિસ્ક, ટેપ, છિક્રિત મીડિયા અથવા પર પુનઃઉત્પાદિત કરી શકાશે નહીં. ટ્રેઝરી વિભાગની પૂર્વ લેખિત પરવાનગી વિના અન્ય માહિતી સંગ્રહ ઉપકરણ વગેરે.

## সুদের হার মডেল

L&T ফাইন্যান্স লিমিটেড (পূর্বে L&T ফাইন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেড ('কোম্পানি') নামে পরিচিত)

## বিষয়বস্তু

I.	প্রস্তাবনা.....	40
II.	উদ্দেশ্য.....	40
III.	বুঁকির গ্রেডেশনের পদ্ধতি.....	40
IV.	মূল্য নির্ধারণ .....	41
V.	সমান মাসিক কিস্তি (ইএমআই) ভিত্তিক ব্যক্তিগত খণের ফ্লোটিং সুদের হার রিসেট.....	46
VI.	ফি এবং চার্জ .....	47
VII.	নীতির মালিকানা .....	47
VIII.	নীতির দিক সংক্রান্ত যোগাযোগ .....	47
IX.	নীতির পর্যালোচনা/রিভিজন .....	47

#### I. প্রস্তাবনা

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) 02 জানুয়ারি, 2009 তারিখের বিজ্ঞপ্তি এবং 26 মার্চ, 2012 তারিখের নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলির জন্য ন্যায্য অনুশীলন কোডের নির্দেশকাণ্ডগুলি এখন আরবিআই মাস্টার নির্দেশনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – 19 অক্টোবর 2023 তারিখের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি – ক্ষেত্র ভিত্তিক রেগুলেশন) নির্দেশিকা, 2023, সময়ে সময়ে আপডেট করা হয়েছে, সমস্ত এনবিএফসি-কে নির্দেশও দিয়েছে:

- ফার্ডের ব্যায়, মার্জিন এবং ঝুঁকি, প্রিমিয়াম ইত্যাদির মতো প্রাসঙ্গিক কারণগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে একটি বোর্ড অনুমোদিত সুদের হারের মডেল ঠিক করবে এবং খণ্ড ও অঞ্চলের জন্য চার্জ করা সুদের হার নির্ধারণ করবে
- খণ্ডগ্রহীতাকে সুদের হারের সাথে ঝুঁকির গ্রেডেশনের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর খণ্ডগ্রহীতাদের সুদের বিভিন্ন হারে চার্জ করার ঘোষিতকতা বোঝান।
- কোম্পানির ওয়েবসাইটে সুদের হার এবং ঝুঁকির গ্রেডেশনের পদ্ধতি রাখুন।

#### II. উদ্দেশ্য

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক বিভাগের জন্য ব্যবহার করা বেঞ্চমার্কের হারে পৌঁছানো এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে নেওয়া চূড়ান্ত হারে পৌঁছানোর জন্য স্প্রেড চার্জ করার নীতি এবং পদ্ধতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া

#### III. ঝুঁকির গ্রেডেশনের পদ্ধতি

বিভিন্ন ব্যবসায়িক বিভাগ এবং এর অধীনে বিভিন্ন ফিলিংগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক ব্যবসায়িক বিভাগ স্প্রেডের সাপেক্ষে সামঞ্জস্য করার পরে খণ্ডের সুদের হার ঠিক হয়।

স্প্রেড গণনা করার জন্য ব্যবসার (সংশ্লিষ্ট ব্যবসার জন্য প্রযোজ্য হিসাবে) বিবেচনা করা বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

- সুদের হারের ঝুঁকি (ফিল্ড বনাম ফ্ল্যাটিং খণ্ড)
- সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক বিভাগে ক্রেডিট এবং ডিফল্টের ঝুঁকি
- অ্যাপ্লিকেশন স্কোরকার্ডের আউটপুট
- অনুরূপ সমজাতীয় ফ্লায়েটদের কর্মক্ষমতার ইতিহাস
- খণ্ডগ্রহীতার প্রোফাইল
- শিল্প বিভাগ
- খণ্ডগ্রহীতার খণ্ড পরিশোধের ট্র্যাক রেকর্ড
- জামানত নিরাপত্তার প্রকৃতি এবং মূল্য
- সুরক্ষিত বনাম অসুরক্ষিত খণ্ড
- সাবভেনশন উপলব্ধ
- খণ্ডের টিকিটের আকার
- ব্যুরো স্কোর
- খণ্ডের মেয়াদ
- লোকেশন ডিলিনকোয়েলি এবং কালেকশন পারফরমেন্স
- গ্রাহকের খণ্ড দায়বৰ্ত্তা (অন্যান্য বিদ্যমান খণ্ড)
- প্রতিযোগীদের প্রস্তাবিত মূল্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিক

একই পণ্য এবং একই সময়কালে বিভিন্ন গ্রাহকের দ্বারা প্রাপ্ত মেয়াদের সুদের হার একই হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটি বিভিন্ন গ্রাহকদের জন্য সমস্ত বিবেচনা বা উপরোক্ত কারণগুলির সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

সুদের হার মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক চক্রবৃক্ষি হিসাবে বার্ষিক হারে হবে।

#### IV. মূল্য নির্ধারণ

মূল্য নির্ধারণ মূলত ঝুঁকি, মেয়াদ এবং প্রচলিত বাজার প্রবণতার একটি ফাংশন। ফাস্টভিডিটিক এক্সপোজারের ক্ষেত্রে, মূল্যের দুটি দিক রয়েছে, অর্থাৎ, বেঞ্চমার্ক এবং স্প্রেড বেঞ্চমার্ক এবং স্প্রেড হল ফান্ড, মার্জিন, রিস্ক প্রিমিয়াম ইত্যাদির ব্যয়ের একটি ফাংশন।

সংস্থার ফিক্সড বা ফ্লোটিং সুদের হারে খণ্ড অফার করার সিদ্ধান্ত, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি অফার করা পণ্যের প্রকৃতি, বাজারের অবস্থা, ফার্ডের উৎস এবং শর্তাবলী, ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে।

কোম্পানি খণ্ডগ্রহীতাকে খণ্ড অনুমোদনের সময় খণ্ডের পরিমাণ এবং সুদের হার এবং কিস্তির মেয়াদ এবং পরিমাণ জানাবে।

এই প্রতিটি পণ্যের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয় ফার্ডের খরচ, ঝুঁকি প্রিমিয়াম, অন্যান্য অপারেটিং খরচ, মার্জিন, ক্রেডিট লস এবং প্রি-ট্যাক্স আরও বিবেচনা করে।

ক্রম নং	ফ্যাক্টর	বর্ণনা
1.	ফার্ডের খরচ	<ul style="list-style-type: none"> <li>কোম্পানি তার খণ্ডদাতাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট এবং/অথবা অনির্দিষ্ট উভয় পদ্ধতিতেই ফার্ড সংগ্রহ করে যা প্রাপ্য খণ্ডের পুলের বিপরীত।</li> <li>ফিক্সড/ফ্লোটিং রেট, মেয়াদ, পরিশোধের ব্যবধান, অগ্রাধিকার খণ্ডের সুবিধা ইত্যাদির মতো পণ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোম্পানির দেওয়া বিভিন্ন পণ্যের জন্য ফার্ডের খরচ পরিবর্তিত হয়।</li> <li>কোম্পানিকে ব্যবসা চালানোর জন্য কিছু ইকুইটির অংশ রাখতে হবে এবং এই ধরনের ইকুইটির খরচ বিবেচনায় নেওয়া হয়।</li> <li>কোম্পানি লিকুইটিটির ঝুঁকি পরিচালনার জন্য লিকুইড ফার্ডে বিনিয়োগের আকারে কিছু লিকুইটিটি বাফার রাখে এবং সেই বিনিয়োগগুলিতেও নেগেটিভ ক্যারিঅন হয়।</li> </ul>
2.	পরিচালনা খরচ	কোম্পানির প্রদত্ত খুচরা পণ্যগুলি হাউস টিমারিএসএ-এর মাধ্যমে সৌর্ষ করা হয় এবং নিজস্ব দল/কালেকশন এজেন্টদের মাধ্যমে কালেকশন করা হয়। তদনুসারে, কোম্পানি এই ভূমিকায় প্রচুর সংখ্যক কর্মচারীর পাশাপাশি কালেকশন এজেন্টদের মাধ্যমে কাজ করে যা পরিচালন ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।
3.	মার্জিন	কোম্পানিটি 22টি রাজ্য, 2টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শাখার বৃহৎ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং বেশিরভাগই নিজস্ব কর্মচারী/কালেকশন এজেন্টদের মাধ্যমে কাজ করে। কোম্পানি তার গ্রাহকদের খণ্ড সেবাপ্রদান উন্নত করার জন্য প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছে ব্যবসার সেরিংয়ের জন্য দলগুলিকে প্রযুক্তি এবং বিশ্লেষণ দ্বারা সমর্থন করা হয়। মার্জিন সেই অনুযায়ী গণনা করা হয়।
4.	ঝুঁকি প্রিমিয়াম	কোম্পানিটি প্রযুক্তি এবং বিশ্লেষণ দ্বারা সমর্থিত অন-গ্রাউন্ড কালেকশন টিমে বিনিয়োগের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি লেভেল কালেকশন করে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। অবশ্য কিছু পণ্য যেমন মাইক্রো লেন কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার ঝুঁকিপ্রবণ হতে পারে, যেমন ডিমনিটাইজেশন, বনা, কোভিড 2019 ইত্যাদি। এই ধরনের ঘটনার ঝুঁকির জন্য প্রিমিয়াম প্রতিটি পণ্যের মূলের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
5.	প্রি-ট্যাক্স আরওএ	সম্পদের উপর বেস রিটার্ন হল কোম্পানির সম্পদের উপর প্রত্যাশিত ন্যূনতম রিটার্ন।

#### i. পাইকারি পণ্যের জন্য:

ফ্লোটিং সুদের হারে খণ্ড স্বচ্ছ বেঞ্চমার্কের সাথে যুক্ত হবে যা L&T ফাইনান্স লিমিটেড ("কোম্পানি") পিএলআর\*, ক্লর্মবার্গ এএএ বা জিওআই সিকিয়ারিটিজ বা এমআইবিওআর বা প্রধান খণ্ডদাতার বেস রেট/এমসিএলআর (কনসোটিয়াম খণ্ডের ক্ষেত্রে) বা অন্য কোনো উপযুক্ত বেঞ্চমার্ক (যেমন, এসবিআই বেস রেট/এমসিএলআর ইত্যাদি) সহ ফার্ডের ব্যয়কে বিস্তৃতভাবে প্রতিফলিত করে।

সুদের ফিক্সড রেটে লেনদেনের ক্ষেত্রে, উপরে আলোচিত ঝুঁকি পদ্ধতির গ্রেডেশন ছাড়াও বর্তমান সুদের হারের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে স্যাংশনের/বিতরণের সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

রিটার্ন অন ইকুইটি, শেয়ারহোল্ডার ভ্যালু অ্যাডেড ইত্যাদির মত ধারণাগুলি মূল্য নির্ধারণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিটি লেনদেনের মূল্য ক্লায়েন্টের সাথে যথাযথ আলোচনার উপর ভিত্তি করে এবং কোম্পানির ক্রেডিট নীতিতে উল্লিখিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের

অনুমোদন সাপেক্ষে হবে।

কোম্পানির ওয়েবসাইটে পিএলআর পাওয়া যায়, এতে যে কোন পরিবর্তন অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ।

**ii. রিটেল লোনের ক্ষেত্রে:**

পণ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোম্পানি তার রিটেল খণ্ডগ্রহীতাদের ফিক্সড এবং ফ্লেচিং উভয় হারে অর্থ ধার দেয়। কোম্পানি নিম্নলিখিত রিটেল পণ্য অফার করে যেমন, কৃষকদের অর্থদান, গ্রামীণ ব্যবসায়িক অর্থদান, ওয়ারহাউস রিসিপ্ট ফাইন্যান্স, টু-হাইলার ফাইন্যান্স, ভোক্তা লোন, হোম লোন এবং সম্পত্তির বিনিয়য়ে লোন এবং তার খণ্ডগ্রহীতাদের অসুরক্ষিত এসএমই খণ্ণ।

ক্রম নং	পণ্য	নির্বেদন	সুদের বার্ষিক হার <sup>1</sup> সাধারণত আমাদের গ্রাহককে চার্জ করা হয় <sup>2</sup>
1.	কৃষকদের অর্থদান	a) কৃষি জমিতে চাষ এবং আয় বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের উদ্ধো ট্রাক্টর, ফসল কাটার যন্ত্র এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ কেনার জন্য কৃষকদের খণ্ণ প্রদান j) ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য কৃষকদের খণ্ণ k) ফসল উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট কৃষি কার্যক্রমের জন্য কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তার জন্য কৃষকদের লোন	বার্ষিক 10% থেকে 19% পর্যন্ত।
2.	ওয়ারহাউস রিসিপ্ট ফাইন্যান্স	ডিস্ট্রেস সেল এড়াতে এবং তাদের ফসলের পণ্যের জন্য ভাল দাম পেতে কৃষকদের ব্যবহৃত ক্ষণ প্রদান। ফসল কাটার মৌসুমে, যখন পণ্যের দাম সর্বনিম্ন থাকে, তখন ভাল মূল্যে কৃষি পণ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবসায়ী এবং প্রসেসরদের কাছে এটি অফার করা হয়, যার ফলে তারা তাদের লাভ সর্বাধিক করতে সক্ষম হয়	বার্ষিক 8% থেকে 15% পর্যন্ত।
3.	টু-হাইলার ফাইন্যান্স	দুই চাকার গাড়ি কেনার জন্য গ্রাহকদের খণ্ণ প্রদান, যা গ্রাহক তার আয় আনতে বা আয় বৃদ্ধি করতে ব্যবহার করেন।	বার্ষিক 8.5% থেকে 22% পর্যন্ত।
4.	গ্রামীণ গ্রুপ লোন এবং মাইক্রোফাইন্যান্স লোন (ক্ষুদ্র খণ্ণ)	a) জেএলজি কাটামোর অধীনে মহিলা খণ্ডগ্রহীতাদের আয় তৈরির কার্যক্রমের জন্য ছেট টিকিট গ্রুপ লোন এবং b) কোম্পানি গ্রামীণ এলাকায় খণ্ডগ্রহীতাদের জন্য অফার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন অন্যান্য লোন প্রদান করে	বার্ষিক 16% থেকে 23.50% পর্যন্ত।

ক্রম নং	পণ্য	নিবেদন	সুদের বার্ষিক হার <sup>1</sup> সাধারণত আমাদের গ্রাহককে চার্জ করা হয় <sup>2</sup>
5.	সম্পত্তির বিনিময়ে নেওয়া মাইক্রো লোন	a) সম্পত্তির বিনিময়ে নেওয়া মাইক্রো লোন এবং b) কোম্পানি গ্রামীণ এলাকায় খণ্ডগ্রহীতাদের জন্য অফার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন অন্যান্য খণ্ড প্রদান করে	প্রতি বছর 14% থেকে 22%
6.	ব্যক্তিগত খণ্ড	গ্রাহকদের ব্যবহারের প্রয়োজনে খণ্ড প্রদান। গ্রাহক বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন, যেমন, অ্রমণ, ভোগ্যপণ্য ক্রয়, চিকিৎসা বিল, শিক্ষা ইত্যাদি। সেই গ্রাহক বর্তমান বা নতুন গ্রাহক হতে পারেন।	বার্ষিক 11% থেকে 24% পর্যন্ত।
7.	হোম লোন	বাড়ি ক্রয়, নির্মাণ, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণের জন্য গ্রাহকদের খণ্ড প্রদান। কোম্পানিটি অন্যান্য ব্যক্তি/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিদ্যমান হোম লোনের গ্রাহকদের তাদের বকেয়া খণ্ডের পরিমাণ আরও ভাল নিয়ম ও শর্তাবলী দিয়ে আমাদের কাছে আনার বিকল্প প্রদান করে।	সুদের ফ্লেটিং রেট L&T ফাইন্যান্স লিমিটেড – এইচএল পিএলআর <sup>2</sup> এর সাথে যুক্ত করা হবে। <u>@ সুদের ফিক্সড রেট:</u> প্রতি বছর 11.5% থেকে 12.25% মনে রাখবেন: অনুগ্রহ করে দেখুন #
8.	সম্পত্তির বিনিময়ে লোন	আবাসিক (স্ব-অধিকৃত, ভাড়া, খালি) এবং বাণিজ্যিক সম্পত্তি বক্তকের বিপরীতে আর্থিক সহায়তার জন্য গ্রাহকদের খণ্ড প্রদান করে।	সুদের ফ্লেটিং রেট L&T ফাইন্যান্স লিমিটেড – এলএপি পিএলআর <sup>2</sup> এর সাথে যুক্ত করা হবে। <u>@ সুদের ফিক্সড রেট:</u>  প্রতি বছর 12.5% থেকে 13.25% মনে রাখবেন: অনুগ্রহ করে দেখুন #
9.	অসুরাঙ্কিত এসএমই খণ্ড	প্রাথমিকভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং একক ব্যক্তিদের জন্য তাদের ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে খণ্ড প্রদান করে	বার্ষিক 11% থেকে 23% পর্যন্ত।
10.	সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স	প্রাথমিকভাবে বিক্রেতা ও ডিলারকে তাদের ব্যবসার প্রয়োজনে অর্থায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে, যারা কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের সাথে যুক্ত	প্রতি বছর 8% থেকে 26%

@ এই নীতির শর্তাবলী অনুযায়ী ফ্লেটিং সুদের হার রিসেট করার সময়।

# ক্রেডিট অবনতির কারণে বিদ্যমান যে কোনো খণ্ডের কাঠামো সহ সুদের হার পরিবর্তন করা হতে পারে (ফ্লেটিং রেটের খণ্ডের জন্য প্রাসঙ্গিক বেঞ্চমার্ক হারের পরিবর্তন নিরিশেষে)

\*মনে রাখবেন:

1. সুদের হারের পরিসীমা একটি সূচক মাত্র এবং চূড়ান্ত হারের ঝুঁকি গ্রেডেশনের ভিত্তিতে আসে। উপরে উল্লেখিত নির্দেশিক সুদের হার একমাত্র কোম্পানির বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনো সময়ে পরিবর্তন হতে পারে।
2. বর্তমানে কোম্পানির পিএলআর কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, এতে যে কোনো পরিবর্তন সম্পদ এবং দায় ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ।
3. পুল পারচেজের মাধ্যমে অর্জিত খণ্ডের ক্ষেত্রে, এই খণ্ডগুলির সুদের হার একটি বাইরের বেঞ্চমার্ক হারের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, যেমন টি-বিল, রেপো রেট, বড় ব্যাঙ্ক বা আধিক প্রতিষ্ঠানের এমসিএলআর/বেঞ্চমার্ক রেট এবং এই খণ্ডগুলোর উৎসের ধরন অনুযায়ী, উল্লেখিত প্রতিটি পণ্যের জন্য উল্লেখিত সীমার মধ্যে সুদের হার না ও থাকতে পারে। আতএব, এই ধরনের খণ্ডের ক্ষেত্রে সুদের হার সংশ্লিষ্ট অনুমোদন পত্রে নির্দিষ্ট বাইরের বেঞ্চমার্কের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হবে।
4. মূল্য নির্ধারণ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ক্লায়েন্টের সাথে যথাযথ আলোচনার (যেখানে প্রযোজ্য) উপর ভিত্তি করে এবং/অথবা কোম্পানি কর্তৃক অনুসরণ করা ক্রেডিট মূল্যায়নের প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে করা হবে।

## V. সমান মাসিক কিস্তি (ইএমআই) ভিত্তিক ব্যক্তিগত খণ্ডের ফ্লোটিং সুদের হার রিসেট

আরবিআই 18 আগস্ট, 2023 তারিখের সার্কুলার নং DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 ("আরবিআই সার্কুলার")-এর মাধ্যমে ইএমআই-ভিত্তিক ব্যক্তিগত খণ্ডের ফ্লোটিং সুদের হার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি নিয়ম জারি করেছে এবং ইএমআই-ভিত্তিক ফ্লোটিং রেটের পার্সোনাল লেনাণ্ডলোর জন্য নিয়ন্ত্রিত সংস্থাণ্ডলোর নীতিগত কাঠামো প্রশংসন করার নির্দেশ দিয়েছে। "ব্যক্তিগত খণ্ড" কথাটি আরবিআই সার্কুলার নং DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18-এ "এক্সিবিআইএল রিটার্নস – ব্যাঙ্কিং পরিসংখ্যানের সমষ্টি" তারিখ 04 জানুয়ারি, 2018-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশাবলী 31 ডিসেম্বর, 2023 সালের মধ্যে বিদ্যমান এবং নতুন খণ্ডের ক্ষেত্রে মথাযথভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে।

ইএমআই ভিত্তিক ফ্লোটিং রেট ব্যক্তিগত খণ্ডের অনুমোদনের সময়, খণ্ডের মেয়াদকালে বাহ্যিক বেঝমার্ক হারের সম্ভাব্য বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে, মেয়াদ বৃদ্ধি এবং/অথবা ইএমআই বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত হেডরুম/মার্জিন পাওয়া যায় কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানি খণ্ডগ্রহীতার খণ্ড পরিশোধের ক্ষমতা বিবেচনা করবে। ইএমআই ভিত্তিক ফ্লোটিং রেট ব্যক্তিগত খণ্ডের ক্ষেত্রে, কোম্পানি নিম্নলিখিত কাঠামো অনুসরণ করবে:

1. অনুমোদনের সময়, কোম্পানি খণ্ডগ্রহীতাকে খণ্ডের বেঝমার্ক সুদের হারের পরিবর্তনের সম্ভাব্য এমন প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানাবে যার ফলে ইএমআই এবং/অথবা মেয়াদ বা উভয়ই পরিবর্তন হতে পারে। পরবর্তীকালে, উপরোক্ত কারণে ইএমআই/মেয়াদ বা উভয়ের কোনো বৃদ্ধি যথাযথ চ্যানেলের মাধ্যমে অবিলম্বে খণ্ডগ্রহীতার কাছে জানানো হবে।
2. সুদের হার রিসেট করার সময়, খণ্ডগ্রহীতাকে খণ্ডের মেয়াদকালে বিদ্যমান ফ্লোটিং রেট থেকে ফিক্সড রেটে একবার পরিবর্তন করার বিকল্প প্রদান করা হবে। খণ্ডের মেয়াদের সময় ফিক্সড থেকে ফ্লোটিং বা ফ্লোটিং থেকে ফিক্সড পরিবর্তন শুধু কোম্পানির নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে করা যেতে পারে।
3. খণ্ডগ্রহীতার কাছে (a) (i) ইএমআই বৃদ্ধি বা (ii) মেয়াদ বৃদ্ধি বা (iii) কোম্পানির অভ্যন্তরীণ মৌলিক অনুযায়ী উভয় বিকল্পের সমন্বয়ের বিকল্প থাকবে এবং (b) খণ্ডের মেয়াদ চলাকলীন যে কোন সময়ে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রিপেইড করার বিকল্প থাকবে।
4. খণ্ড ফ্লোটিং থেকে ফিক্সড রেটে বদলানোর জন্য সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ এবং উপরোক্ত বিকল্পগুলি অনুশীলনের জন্য আনুষঙ্গিক অন্যান্য পরিবেশোচ্চ চার্জ/প্রশাসনিক খরচ অনুমোদন পত্রে প্রকাশ করা হবে এবং কোম্পানির দ্বারা এই ধরনের চার্জ/ খরচ সংশোধনের সময়ও মাঝে মধ্যে প্রকাশ করা হবে।
5. কোম্পানি নিশ্চিত করবে যে ফ্লোটিং রেট খণ্ডের ক্ষেত্রে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে খণ্ড পরিশোধের পরিমাণ খণ্ডের স্থিতি থেকে কমে গিয়ে নেতৃত্বাচক পরিশোধনের যেন রূপ না নেয়।
6. কোম্পানি প্রতিটি ত্রৈমাসিকের শেষে একটি স্টেটমেন্ট যথাযথ চ্যানেলের মাধ্যমে খণ্ডগ্রহীতাদের কাছে শেয়ার/অ্যাক্সেসযোগ্য করবে যাতে এ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা মূলধন ও সুদের পরিমাণ, ইএমআই-এর পরিমাণ, অবশিষ্ট ইএমআই-এর সংখ্যা এবং সম্পূর্ণ খণ্ড মেয়াদের জন্য বার্ষিক সুদের হার/বার্ষিক শতকরা হার (এপিআর) গণনা করা থাকবে।

7. সমান মাসিক কিস্তির ঋণ ছাড়াও, এই নির্দেশাবলী বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক সকল সমান কিস্তি-ভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
8. কোম্পানি সমস্ত বিদ্যমান ঋণগ্রহীদের কাছে একটি যোগাযোগ পাঠাবে, উপযুক্ত চ্যানেলের মাধ্যমে, তাদের কাছে উপলব্ধ বিকল্প সম্পর্কে অবহিত করবে।

## VI. ফি এবং চার্জ

ঋণের উপর সুদ ধার্য করার পাশাপাশি, কোম্পানি প্রযোজ্য ফি এবং চার্জও ধার্য করবে। উপরন্তু, কোম্পানি স্ট্যাম্প ডিউটি, পরিয়েবা কর/জিএসটি এবং অন্যান্য সেস সংগ্রহ করবে যা সময়ে সময়ে প্রযোজ্য হতে পারে। গ্রাহকদের সাথে যথাযথ যোগাযোগের মাধ্যমে সন্তাব্য ভিত্তিতে এই চার্জগুলিতে যে কোনো সংশোধন সহ কার্যকর করা হবে।

প্রযোজ্য চার্জের অনুসূচি (যেখানে প্রয়োজন) কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

## VII. নীতির মালিকানা

সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রধান নির্বাহীরা এই নীতির মালিক হবেন এবং নীতি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন। পরিচালনা পর্ষদ এতদ্বারা কোম্পানির সম্পদ মূল্য নির্ধারণ কর্মসূচিকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এই সুদের হার মডেল নীতি পর্যালোচনা এবং যথাযথ পরিবর্তন করার অনুমতি দিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে মুদ্রা বাজারের পরিস্থিতি এবং/অথবা নিয়ন্ত্রকদের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সুদের হারের যেকোনো পরিবর্তন ইত্যাদি, যাতে বিভিন্ন ঋণ পণ্যের জন্য প্রযোজ্য সুদের হারের উর্ধ্বমুখী/নিম্নমুখী সংশোধন এবং এই ধরনের ঋণ পণ্যের জন্য প্রযোজ্য প্রাসঙ্গিক চার্জ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

## VIII. নীতির দিক সংক্রান্ত যোগাযোগ

কোম্পানি যোগাযোগের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির মাধ্যমে লোন স্যাংশনের/গ্রহণের সময় গ্রাহকদের সুদের কার্যকর হার জানাবে।

সুদের হারের মডেল এবং চার্জের অনুসূচি (যেখানে প্রয়োজন) কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে এবং বিদ্যমান গ্রাহকদের জন্য বেফমার্ক রেট এবং চার্জের যে কোনো পরিবর্তন কোম্পানির ওয়েব সাইটে আপলোড করা হবে।

## IX. নীতির পর্যালোচনা/রিভিজন

যদি কোনও পর্যায়ে নীতি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা কোনও প্রাবিধিক, নিয়ম, নির্দেশিকা, বিজ্ঞপ্তি, স্পষ্টীকরণ, সার্কুলার, মাস্টার সার্কুলার/নির্দেশনার ("নিয়ন্ত্রক বিধান") মধ্যে ব্যাখ্যা/তথ্যের দ্রুত দেখা দেয়, তাহলে নিয়ন্ত্রক বিধানের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পাবে। নিয়ন্ত্রক বিধানগুলিতে কোনো সংশোধন(সমূহ) এবং/অথবা স্পষ্টীকরণ(সমূহ)-এর ক্ষেত্রে, নীতিটি নিয়ন্ত্রক বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট কার্যকর তারিখ থেকে সেই অনুযায়ী সংশোধন করা হবে।

দলিলের মালিক

সংশ্লিষ্ট জিইসি

## সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ

সংস্করণ	তারিখ	লেখক	বর্ণনা পরিবর্তন
1.0	নভেম্বর 2023	সংশ্লিষ্ট জিইসি	নতুন নীতি গৃহীত হয়েছে
2.0	জানুয়ারি 2024	সংশ্লিষ্ট জিইসি	হোম লোন এবং সম্পত্তির বিনিময়ে লোনের জন্য সুদের নির্দিষ্ট হারের পরিসরের সংযোজন
3.0	অক্টোবর, 2024	সংশ্লিষ্ট জিইসি	বার্ষিক পর্যালোচনা- প্রক্রিয়া আপডেটের সাথে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা হয়েছে
4.0	জানুয়ারি 2025	বোর্ড	সম্পদ মূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্ট পণ্যের সুদের হার পরিসরে প্রক্রিয়া আপডেট এবং সংশোধনের নেটিংয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সংশোধনী

এই দলিলটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য। এই লিঙ্কে থাকা কোনও দলিলের কোনও অংশ যে কোনও আকারে পুনরঃপাদন বা অনুলিপি করা, ছাড়ানো বা কোনও উপায়ে [গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং, টেপিং বা তথ্য পুনরুৎসাহ ব্যবস্থা সহ] কোনও ডিস্ক, টেপ, ছিদ্রবহুল মিডিয়া বা অন্যান্য তথ্য স্টোরেজ ডিভাইস, ইত্যাদিতে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনরঃপাদন করা যাবে না।

## ସୁଧ ହାର ମଡେଲ୍

L&T ପାଇନାକୁ ଲିମିଟେଡ୍ (ପୂର୍ବରୁ L&T ପାଇନାକୁ ହୋଲିଂସ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା)  
('କମ୍ପାନୀ')

## ବିଷୟବସ୍ତୁ

I.	ପ୍ରସ୍ତାବନା .....	51
II.	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ .....	51
III.	ବିପଦର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ .....	51
IV.	ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାରଣା .....	52
V.	ସମାନ ମାସିକ କିଣ୍ଟି (ଜ୍ଞାନାଳ) ଆଧାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଣ ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୁଧ ହାରର ପୁନଃସେଇ .....	57
VI.	ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଦେଯ .....	58
VII.	ନାତିର ମାଲିକାନା .....	58
VIII.	ନାତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଯୋଗେ॥ଯୋଗ .....	59
IX	<u>ସମୀକ୍ଷା/ସଂଶୋଧନ</u> .....	59

## I. ମୁଖ୍ୟବିଷୟ

ଉରତୀୟ ରିଜର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବିଆଇ) ଜାନ୍ମଆଗର 02, 2009ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍କ ପାଇନାମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍‌ 26, 2012 ତାରିଖର ଫେଯାର ଅଭ୍ୟାସ କୋଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର ଦିଗରେ - ଉରତୀୟ ରିଜର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆଣ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍କ ପାଇନାମ୍ବିନ୍ଦୁଆଲ୍ କମ୍ପାନୀ -ଫେଲ୍ ବେସ୍ ରେଗ୍ୟୁଲେସନ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2023 ଅନ୍ତେବର 19, 2023ରେ ସମୟ ସମୟରେ ଅପତ୍ତେର ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ଏନବିଏଫ୍ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି:

- ପାର୍ଶ୍ଵିର ମୂଲ୍ୟ, ମାର୍କ୍ଷନ୍ ଏବଂ ବିପଦ, ପ୍ରମିଳମ୍ ଲତ୍ୟାଦି ପ୍ରାସକ୍ତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଗାରକୁ ନେଇ ଏକ ବୋର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ମୋଦିତ ସୁଧ ହାର ମନୋଲ୍ ପ୍ରଶନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ସୁଧ ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ
- ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁଧ ହାର ନେବା ପାଇଁ ବିପଦର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସୁଧ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଵଚନା ଦିଅନ୍ତୁ।
- କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଖେବସାଇଟରେ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ବିପଦର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ।

## II. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆୟାଇଥିବା ଅନ୍ତିମ ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ର ନାଟି ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ନିଷ୍ଠା ନେବା।

## III. ବିପଦର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ:

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ବର୍ଗ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ରଣ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବର୍ଗ ହାରା ବିପ୍ରାର ପାଇଁ ସମାଯୋଜନ ପରେ ଆସିଥାଏ।

ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଥ୍ୟକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ (ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୁଷିତ) ହାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅବେଳା:

- ସୁଧ ହାର ବିପଦ (ଛିର ବନାମ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରଣ)
- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ବିଭାଗରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ ଏବଂ ଡିପଲ୍ ବିପଦ
- ଆବେଦନ ଦ୍ୱାରକାର୍ତ୍ତର ଆଉଚପୁର୍ଣ୍ଣ
- ରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଟିହାସିକ ପ୍ରୋପାଇଲ୍
- ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ପ୍ରୋପାଇଲ୍
- ଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗ
- ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ପରିଶୋଧ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ
- ବନ୍ଧକ ନିରାପଦାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ
- ସୁରକ୍ଷିତ ବନାମ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରଣ
- ଉପବିଭାଗ ଉପଲବ୍ଧ

- ରଣ ର ଚିକେଟ ଆକାର
- ବୁୟରୋ ଦ୍ୱୋର
- ରଣର ଅବଧୂ
- ଅବଲ୍ଲାନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
- ଗ୍ରାହକ ରଣଭାର (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରଣ)
- ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାରକ ସାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ

ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାରା ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଉପାଦ ଏବଂ ଅବଧୂ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ହାର ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ବିଚାର କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

ମାସିକ, ବିମାମାସିକ, ଟ୍ରେମାମାସିକ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ସହିତ ସୁଧ ହାର ବାର୍ଷିକ ହେବ।

#### IV. ମୂଲ୍ୟ

ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୀରଣ ମୂଳତଃ ବିପଦ, ଅବଧୂ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ଧାରାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପାଣି ଭିତିକ ଏହୁପୋକର ବିଷୟରେ, ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଅଛି, ଯଥା, ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଏବଂ ବିପ୍ରାରା। ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରେତ୍ ହେଉଛି ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ, ମାର୍ଜିନ, ରିଷ୍ଟ ପ୍ରମିଳମ ଲତ୍ୟାଦିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ।

ସଂଗ୍ରହ ସାରା ଏକ ଛିର କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୁଧ ହାର ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ଠା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଉପାଦର ପ୍ରକୃତି, ବଜାର ଛିତି, ପାଣିର ଉତ୍ସ ଏବଂ ସର୍ବାବଳୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଲତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ରଣଧାରୀଙ୍କୁ ରଣ ମଞ୍ଚର କରିବା ସମୟରେ ରଣ ପରିମାଣ ଏବଂ ସୁଧ ହାର ସହିତ କିନ୍ତୁ ଅବଧୂ ଏବଂ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥାଏ।

ପାଣି ର ମୂଲ୍ୟ, ବିପଦ ପ୍ରମିଳମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ତ୍ତ, ମାର୍ଜିନ, ବ୍ରେଟିମ କ୍ଷତି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍-ଟିକରସ ଆରତେ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ସବୁ ଉପାଦର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୀରଣ କରାଯାଏ।

ক্র. সংখ্যা	কারণ	বর্ণনা
1.	পার্শ্বির মূল্য	<ul style="list-style-type: none"> <li>কম্পানী এহার রশনদাতামানক্ষে ১০০ উভয় শেষ উপযোগ এবং / কিম্বা অনিদিষ্ট সহিত পার্শ্ব সংজ্ঞাহ করিথাএ যাহা প্রাপ্তি সমূহ বিবৃত্বে হোকথাএ।</li> <li>উপাদৰ প্রকৃতি উপরে নির্ভর করি কম্পানী স্বারা প্রদান করায়াছিলো বিভিন্ন উপাদ পাইঁ পার্শ্বির মূল্য ভিন্ন ভিন্ন হোকথাএ যেপরিকি পিষ্টত / ফ্লুটিং রেই, চেনর, পরিশোধ প্রিকেন্টি, প্রাথমিকতা রশন মুবিধা জ্ঞান্যাদি।</li> <li>ব্যবসায় চলাইবা পাইঁ কম্পানীকু কিছি জিন্দি অংশ রশনবা আবশ্যিক এবং এভলি জিন্দি র মূল্যকু বিচারকু নিআয়াএ।</li> <li>লিক্যুডিটি বিপদকু পরিচালনা করিবা পাইঁ কংপানি তরল পার্শ্বে নিবেশ আকারে কিছি লিক্যুডিটি বপ্তর রশনথাএ এবং যেহি নিবেশ উপরে মধ্য নকারাম্বক প্রভাব বহন করিবাকু পতিথাএ।</li> </ul>
2.	ঘাঞ্চালন ব্যয়	কম্পানী স্বারা প্রদান করায়াছিলো খুচুরা উপাদপুত্রিক হাজৰি টিম / টিএসএ স্বারা উপ করায়াএ এবং এহার নিজস্ব দল / সংগ্রহ এজেন্ট মাধ্যমে মধ্য সংগ্রহ করায়াএ। তদন্তযায়ী, কম্পানী এহার রোলে বহু সংশ্যিক কর্মচারী এবং সংগ্রহ এজেন্টক মাধ্যমে কার্য্য করে যাহা মূল্যঘাঞ্চালন ব্যয়কু যথেষ্ট বৃক্ষি করিথাএ।
3.	মার্জিন	কম্পানী 22টি রাজ্য, 2টি কেন্দ্ৰীয় অঞ্চলে অবস্থিত এহার বিশাল শাখা নেচৰ্জক এবং অধিকাংশ নিজে কর্মচারী/সংগ্রহ এজেন্টক মাধ্যমে কার্য্য করুছি। গ্ৰাহককু রশন প্রদানে উন্নতি আশীৰ্বা পাইঁ কংপানি চেকোলোজিৰে ব্যাপক পুঞ্জনিৰ্বেশ কৰিছি। এহি দলগুড়িক ব্যবসায় উপাদন পাইঁ প্ৰযুক্তি বিদ্যা এবং বিশ্বেষণ স্বারা সমৰ্থত অঞ্চল। তেন্তু যেহি অনুযায়ী মাৰ্জিন গৱননা কৰায়াএ।
4.	রিষ্ট প্ৰিমিয়ম	চেকোলোজি এবং আনালিটিক্স স্বারা সমৰ্থত অন-গ্ৰাহণ্য কলেক্ষন টিমে পুঞ্জনিৰ্বেশ মাধ্যমে কম্পানী ক্ৰমাগত ভাৱে শিক্ষা প্ৰৱৰ সংগ্রহ সহিত যোৱা ভাৱে কার্য্য করুছি। তেবে ক্ষেত্ৰ রশন ভলি কেতেক উপাদ বিমুক্তীকৰণ, বন্যা, কোভিড-2019 জ্ঞান্যাদি ভলি কিছি বিপদ রয়েছে রিষ্ট পাইঁ প্ৰিমিয়ম প্ৰত্যেক উপাদৰ মূল্যে অক্ষৰ্ষুণ হোকথাএ।
5.	প্ৰি-চোক্স আৱেৰ্দণ	সমৰ্পণ উপরে বেস রিচৰ্স হৈছে এহার সমৰ্পণ উপরে কম্পানী আশা কৰুথৰা সৰ্বনিম্ন রিচৰ্স।

i. হোকলে উপাদ পাইঁ:

পৰিবৰ্তননশীল সুধ হাৰ রশনগুଡ়িক স্বীকৃত মানদণ্ড সহিত সংযুক্ত হৈব যাহাকি L&T পাইনাকু হোল্টিৰ লিমিটেড পি.এলআর\*, বুমুৰগ এবং কিম্বা জিওআৱ বিক্যুৰিটি কিম্বা এমআৱিওআৱ কিম্বা লিভি রশনদাতাঙ্ক বেস রেস / এমৰিএলআৱ (কলোর্জেম রশন ক্ষেত্ৰে) কিম্বা অন্যান্য উপযুক্ত মানদণ্ড (যথা, এসবিআৱ বেস হাৰ / এমৰিএলআৱ জ্ঞান্যাদি) সহিত পার্শ্বির মূল্যকু প্ৰতিপক্ষিত কৰিথাএ।

নিৰ্বাচিত সুধ হাৰ কাৰবাৰ পাইঁ উপৰোক্ত আলোচনা অনুযায়ী বিপদ আভিমুখ্যৰ উন্নতিকৰণ ব্যৱহাৰ সামৰ্থ্যক সুধ হাৰ নিৰ্বাচন কৰায়িব।

মূল্য নিৰ্বাচন রে রিচৰ্ষ্ট অন জিন্দি, যোৱাৰহোকুৰ মূল্য সংযোজিত জ্ঞান্যাদি ধাৰণা মধ্য ব্যবহৃত হোকপারে।

প্ৰত্যেক কাৰবাৰ পাইঁ মূল্য অন্যান্য বিষয় সহিত গ্ৰাহকক সহ উপযুক্ত বুঝামণা উপরে আধাৰিত হৈব এবং কম্পানীৰ

କ୍ରେଡିଟ ପଲିସିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମୋଦନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅଧୀନରେ ରହିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଲଆର କମ୍ପାନୀର ଖେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଏଥୁରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେଟ ଲାଏବିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

**ii. ଖୁରୁରା ରଣ ପାଇଁ:**

କମ୍ପାନି ଏହାର ଖୁରୁରା ରଣଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉପାଦର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଉତ୍ତମ ଶିର ଏବଂ ଭାସମାନ ହାରରେ ରଣ ଦେଇଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖୁରୁରା ଉପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥା - କୃଷକ ଫାଇନାନ୍ସ, ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥ, ଗୋଦାମ ରସିଦ ଅର୍ଥ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଫାଇନାନ୍ସ, ଗ୍ରାହକ ରଣ, ଘର ରଣ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିବୁଦ୍ଧରେ ରଣ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏସଏମାଇ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଉପାଦ	ଅପର	ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର <sup>1</sup> ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ <sup>2</sup> ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ
1.	କୃଷକ ଅର୍ଥ	a) କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାକ୍ରର, ହାର୍ଡ୍‌କ୍ରର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କୃଷି ଜମି ଚାଷ ଏବଂ ଜନକମ୍ ଉପାଦନ ପାଇଁ ଉପାଦପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ I) ଫର୍ମ ଉପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ କୃଷି ଜାତ ତ୍ରୁଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରଣ m) ଫର୍ମ ଉପାଦନ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ-କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ରଣ	ବାର୍ଷିକ 10% ରୁ 19%

ক্র. সংখ্যা	ઉપাদ	অপর	বার্ষিক পুঁথি হার <sup>1</sup> পাধারণভোগ আমর গ্রাহককে <sup>2</sup> চার্জ করায়াএ
2.	গোদাম রয়িত অর্থ	অভাবী বিক্রিকু এঢ়ালবা এবং ঘেমানক পসল উপাদৰ উৰম মূল্য হাসল কৰিবা পাইঁ কৃষকমানকু স্বৰ্ত্ত কালীন রশ প্ৰদান কৰিছি। অমাল রত্বৰে, যেতেবেলে দ্ৰব্য মূল্য সৰ্বনিম্ন পৱৰণে থাএ, যেতেবেলে প্ৰতিযোগিতামূলক মূল্যৰে কৃষি জাত দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিবা পাইঁ ব্যবসায়ী এবং প্ৰোগ্ৰামানকু মথ এহা সপ্রসাৰিত কৰায়াএ, যাহা দ্বাৰা ঘেমানে ঘেমানকু লাভকু সৰ্বাধৃক কৰিবাৰে সকল হুঁচি।	বার্ষিক 8% রু 15%
3.	দুৱ চকিআ পাইনান্ত	দুৱটি চকিআ বাহান কীৰিবা পাইঁ গ্রাহককু রশ প্ৰদান কৰিছু যাহাৰ ব্যবহাৰ গ্ৰাহক নিজৰ পিছি জনিত আয় বৰালবা পাইঁ কৰিছি।	বার্ষিক 8.5% রু 22%
4.	গ্ৰামীণ গোষ্ঠী রশ এবং মাইক্ৰো পাইনান্ত রশ	a) মহিলা রশগ্ৰহণীতাঙ্কু আয় পৃষ্ঠিকাৰী কাৰ্য্যকলাপ পাইঁ জেনেলক্ষি তাৰ্থা অধীনৰে এক শুল্ক টিকেচ গোষ্ঠী রশ প্ৰদান কৰায়াএ এবং b) এহি পৰি অন্যান্য রশ যাহাকি কম্পানী গ্ৰামাঞ্চল ক্ষেত্ৰৰে রশগ্ৰহণীতাঙ্ক পাইঁ প্ৰদান কৰিবাকু নিষ্পত্তি নেজপাৰিছি	বার্ষিক 16% রু 23.50%
5.	সপ্তি বিৰোধৰে সুষ্ঠু রশ	a) সপ্তি বিৰুদ্ধৰে সুষ্ঠু রশ প্ৰদান কৰে এবং b) এহি পৰি অন্যান্য রশ যাহাকি কম্পানী গ্ৰামাঞ্চল ক্ষেত্ৰৰে রশগ্ৰহণীতাঙ্ক পাইঁ প্ৰদান কৰিবাকু নিষ্পত্তি নেজপাৰিছি	বার্ষিক 14% রু 22%

6.	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଣ	ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏବା ଗ୍ରାହକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଯୋଗ ଯଥା - . ଯାତ୍ରା, ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା, ମେଡିକାଲ ବିଲ, ଶିକ୍ଷା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ଗ୍ରାହକ ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ହୋଇପାରନ୍ତି ।	ବାର୍ଷିକ 11% ରୁ 24%
7.	ଗୃହ ରଣ	ଗୃହ କ୍ରୟ, ମିର୍ଚାଣ, ଉନ୍ନତି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏବା କମାନୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ / ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥୁବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୃହ ରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ରଣ ରାଶିକୁ ଉନ୍ନତ ସର୍ବାବଳୀ ସହିତ ଆମ ପାଖକୁ ଛାନାନ୍ତର କରିବାର ବିକଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏବା	ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୁଧ ହାର L&T ପାଇନାନ୍ତ୍ ହୋଲିଂ ଲିମିଟେଡ୍ - ଏରେଲ ପିଏଲଆର୍ ୨ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। <u>@ର ଛାଇ ସୁଧରହାର:</u> ବାର୍ଷିକ 11.5% ରୁ 12.25% ଆନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଦୟାକରି # ରେପ୍ର କରନ୍ତୁ
8.	ରଣ ସମ୍ପର୍କ	ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାସ୍ତାନର ବନ୍ଦକ (ସ୍ଵାଂ ଅଧିକୃତ, ଭାତ୍ତିଆ, ଖାଲି) ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ।	ମିଶ୍ରିତ ସୁଧ ହାର L&T ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବ ପାଇନାନ୍ତ୍ ଲିମିଟେଡ୍ -ଏଲେପି ପିଏଲଆର୍ 2.  <u>@ର ଛାଇ ସୁଧରହାର:</u> ପ୍ରତି 12.5% ରୁ 13.25% ପଯ୍ୟେନ୍ ବାର୍ଷିକ ଆନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଦୟାକରି # ରେପ୍ର କରନ୍ତୁ
9.	ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏସଏମଲ ରଣ	ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଵର୍ଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଦେୟାଗ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ	ବାର୍ଷିକ 11% ରୁ 23%
10.	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେନ୍ ପାଇନାନ୍ତ୍	ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଟିଲାର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵର୍ଗ ମିଆଦୀ ଅର୍ଥ ପୋଷଣର ସୁରିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ ଆଙ୍କର ସହିତ ସାମିଲ ଥାଏ	ବାର୍ଷିକ 8% ରୁ 26%

@ ଏହି ନୀତିର ସର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ ଭାସମାନ ସୁଧ ହାର ପୁନଃସେବ କରିବା ସମୟରେ।

# ରଣର କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରଣ ଉପରେ ଥୁବା ସଂରଚନା ସହିତ ସୁଧ ହାର ସଂଶୋଧନ (ଫ୍ଲୋଟିଂ ରଣ ଦର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଦେଅମାର୍କ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହେଲୀ) କରାଯାଇପାରେ

**\*ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ:**

1. ସୁଧ ହାର ପରିସର ଏକ ସୂଚକ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହାର ବିପଦର ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଆଧାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କମ୍ପାନୀର ଏକମାତ୍ର ବିବେଚନା ସାପେକ୍ଷରେ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନ୍ଦର ସୁଧ ହାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି।
2. ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ପିଏଲଆର କମ୍ପାନୀର ଖେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଏଥୁରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେଟ ଲାଏବିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
3. ପୁଲ୍ କ୍ରୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥିବା ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ଏକ ବାହ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ହାର, ଯଥା ଟି-ବିଲ୍, ରେପୋ ରେଟ, ଏମସିଏଲଆର / ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ / ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବେଶ୍ମାର୍କ ହାରକୁ ସୁଚିତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦନ ମୋଡ଼ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦ ପାଇଁ ଏହା ଉପରୋକ୍ତ ସୁଚକ ଭାବରେ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ହାରର ଗତିବିଧି ନିଜ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂୟୁକ୍ତ ବାହ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ
4. ମୂଳ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାଷଟଙ୍କ ସହିତ ଉପୟୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା (ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ) ଏବଂ/କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ହାର ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା କ୍ରେଡ଼ିଟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।

**V. ସମାନ ମାସିକ କିମ୍ତି (ଲେଖନାରୀ) ଆଧାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଣ ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୁଧ ହାରକୁ ପୁନଃସେର କରିବା**

ସମାନ ମାସିକ କିମ୍ତି (ଲେଖନାରୀ) ଆଧାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଣ ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୁଧ ହାର ପୁନଃସେର ଆରବିଆଇ ନିଜର ସର୍କୁଲାର ନମ୍ବର ଟିଓଆଇ.୬୮୩୧୦୦୩/୨୦୨୩-୨୪ ଦିନାଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 18, 2023 ("ଆରବିଆଇ ସର୍କୁଲାର") ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖନାରୀ ଆଧାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଣ ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୁଧ ହାର ପୁନଃସେର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ନିୟମିତ ସଂପାଦନ୍ତ ଲେଖନାରୀ ଆଧାରିତ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଟିଗତ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବାଧ କରିଛି। "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଣ" ଶବ୍ଦଟି ଆରବିଆଇ ସର୍କୁଲାର ନମ୍ବର ଟିବିଆଇ.ନମ୍ବର.ବିପି.ବିସି.୨୨୦୧୦୦/୧୮.୧୩.୧୦୦/୨୦୧୭-୧୮ ରେ "ଏକ୍ସବିଆରଏଲ ରିଟନ୍ - ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହରମୋନାଇଜେସନ୍" ଦିନାଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ 04, 2018 ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

ଏହି ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 31, 2023 ସୁରା ଉପୟୁକ୍ତ ତଥା ନୂତନ ରଣକୁ ବିଶ୍ଵାର କରାଯିବ।

ଲେଖନାରୀ ଆଧାରିତ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଣ ମଞ୍ଚୁର କରିବା ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀ ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପରିଶୋଧ କ୍ଷମତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବ ଯାହା ହାରା ରଣ ଅବଧୁ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ବେଶ୍ମାର୍କ ହାରରେ ସମ୍ବାଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଷିଦ୍ଧିତରେ ଅବଧୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ/ଅଥବା ଲେଖନାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହରମୋନାଇଜେସନ୍" ଦିନାଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ 04, 2018 ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି:

1. ମ ଶୁରୁ 1 ସମୟରେ, ଲେଖନାରୀ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଟେନୋର କିମ୍ବା ଉତ୍ସମ୍ଭବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥିବା ରଣ ଉପରେ ବେ ଚମାର୍କ ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ | ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରେ ଲେଖନାରୀ / ଅବଧୁ କିମ୍ବା ଉତ୍ସମ୍ଭବ ଯେକୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ତୁରନ୍ତ ଉପୟୁକ୍ତ ବ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରଣଦାତାଙ୍କ ରଣାନ୍ତିବା।
1. ସୁଧ ହାର ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ସମୟରେ, ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ରଣର ଅବଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହାରରୁ ଛିର ହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିକଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରଣର ଟେଣ୍ଟର ସମୟରେ ପିନ୍କାତ୍ର ଫ୍ଲୋଟିଂ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟିଂକୁ ଯେକୌଣସି ସୁଲବ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ଵ ବିବେଚନାରେ ହେବ |
2. ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର (a) (i) ଲେଖନାରୀ ରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା (ii) ଟେନୋର ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା (iii) କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ

ଉଭୟ ବିକଳର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ବିବନ୍ଦ ରହିବ; ଏବଂ, (b) ରଣର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଯେକୋଣସି ସମୟରେ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରିପେଡ୍ କରିବାକୁ।

3. ରଣକୁ ଫ୍ଲୋଟିଂରୁ ଛିର ହାରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ବିକଳଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଠୀ ସେବା ଦେଇ / ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ହାରା ଏହିପରି ଚାର୍ଜ / ଖର୍ଚ୍ରପୁନଃବିଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସମୟ ସମୟରେ।
4. କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରେଣ୍ ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦୃଢ଼ି ହେବା ହାରା ନକାରାମ୍ବକ ପରିଶୋଧନ ନ ହେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
5. କମ୍ପାନୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେମାସର ଶୈଶବରେ ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିବରଣୀ ସେଇବାର କରିବେ / ଉପଲକ୍ଷ କରେଇବେ ଯେଉଁଥରେ ଅତି କମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟନ ଏବଂ ସୁଧ, ଲେଖମଆଇ ପରିମାଣ, ବାକି ଥିବା ଲେଖମଆଇ ସମ୍ପଦ୍ୟା ଏବଂ ରଣର ସମ୍ପଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଶତକତା ହାର (ଏପିଆର) ର ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ଗଣନା ରହିବ।
6. ସମାନ ମାସିକ କିମ୍ବି ରଣ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟର ସମଷ୍ଟ ସମାନ କିମ୍ବି ଭିତ୍ତିକ ରଣର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୋଗ ହେବ।
7. କମ୍ପାନୀ ସମଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟମାନ ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ପଠାଇବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲକ୍ଷ ବିକଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କରିବ।

## VI. ଦେଇ ଏବଂ ଶୁଣ

ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କଂପାନି ଲାଗୁ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଳ୍କ ଓ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ସମୟ ସମୟରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଷାପ୍ ଟ୍ର୍ୟୁଟି, ସର୍ଜିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ/GST ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେସ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ସମ୍ବାଦ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ଶୁଳ୍କରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।

କଂପାନିର ଝେବସାଇଟରେ ଚାର୍ଜର ପ୍ରଯୁକ୍ତ୍ୟ ସୂଚୀ (ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ) ଉପଲକ୍ଷ ଅଛି ।

## VII. ନୀତିର ମାଲିକାନା

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନେ ଏହି ନୀତିର ମାଲିକ ହେବେ ଏବଂ ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାହାରା କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପଦି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କମିଟିକୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧ ହାର ମତେଲ ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥରେ ମୁଦ୍ରା ବଜାର ପରିଷିତି ଏବଂ/ଅଥବା ଯେକୋଣସି ନିୟାମକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ସୁଧ ହାରରେ ଯେକୋଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥରେ ବିଭିନ୍ନ ରଣ ଉପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ୍ୟ ସୁଧ ହାରରେ ଉପର/ ନିମ୍ନଗାମୀ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଏପରି ରଣ ଉପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

## VIII. ନୀତିର ଦିଗନ୍ବୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଯୋଗ

କଂପାନି ଅନୁମୋଦନ ସମୟରେ/ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରଣ ପାଇବା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୁଧ ହାର ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟକ କରାଇବ ।

ସୁଧ ହାର ମତେଲ ଏବଂ ଚାର୍ଜର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ) କମ୍ପାନୀର ଝେବସାଇଟରେ ଅପଳୋଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ

ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ମାର୍ଦ୍ଦ ହାର ଏବଂ ଶୁଳ୍କରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଷାନୀର ଖେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ ।

#### IX. ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା / ସଂଶୋଧନ |

ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ନୀତି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କର୍ତ୍ତ୍ତପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବିନିୟମ, ନିୟମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ବିଜ୍ଞାପନ, ସଂକଷ୍ଟୀକରଣ, ପରିପତ୍ର, ମାଷ୍ଟର ପରିପତ୍ର / ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ("ନିୟମକ ପ୍ରାବଧାନ") ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା / ସୁଚନା ଉପରେ ହର୍ଷ ଉପୁଜେ, ତେବେ ନିୟମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାନ୍ୟ ହେବା ନିୟମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ/କିମ୍ବା ସଂକଷ୍ଟୀକରଣ ମାମଲାରେ, ନୀତି ନିୟମକ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖରୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ ହେବ ।

ଦସ୍ତଖତ ମାଲିକ

ସନ୍ଧାନଜନକ ଜିଲ୍ଲାସି

## ସଂକ୍ଷରଣ ନିୟମକ୍ରମ

ସଂକ୍ଷରଣ	ଡାରିଙ୍	ଲେଖକ	ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ
1.0	ନଭେମ୍ବର 2023	ସନ୍ଧାନଜନକ ଜିଲ୍ଲାସି	ନୂତନ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି
2.0	ଜାନୁଆରୀ 2024	ସନ୍ଧାନଜନକ ଜିଲ୍ଲାସି	ଘର ରଣ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ରଣ ପାଇଁ ସୁଧ ହାରର ଯୋଗ
3.0	ଆକ୍ଟୋବର 2024	ସନ୍ଧାନଜନକ ଜିଲ୍ଲାସି	ବାର୍ତ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା- ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଦ୍ୟତନ ସହିତ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକ
4.0	ଜାନୁଆରୀ 2025	ବୋର୍ଡ	ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଭାରଣ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦଗୁଡ଼ିକର ସୁଧ ହାର ପରିସରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଦ୍ୟତନ ଏବଂ ସଂଶୋଧନର ନେଟ୍ରୋ ସହିତ ସଂପାଦିତ ସଂଶୋଧନ।

ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉସିରିଏଟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟେ। କ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଛିନ୍ଦି, ଚେପ, ଛଦ୍ମିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଚନା ଶ୍ଵେତରେ ଉପାଦଗୁଡ଼ିକର ସୁଧ ହାର ପରିସରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଦ୍ୟତନ ଏବଂ ସଂଶୋଧନର ନେଟ୍ରୋ ସହିତ ସଂପାଦିତ ସଂଶୋଧନ।

## সুতৰ হাৰৰ আঁহি

L&T ফাইনেন্স লিমিটেড (পূৰ্বতে L&T ফাইনেন্স হোল্ডিংছ লিমিটেড ('কোম্পানী') বুলি জনা জাত আছিল)

## বিষয়বস্তুসমূহ

I.	প্রস্তাবনা.....	63
II.	উদ্দেশ্য.....	63
III.	বিপদাশংকা গ্রেডেচনৰ বাবে পদ্ধতি.....	63
IV.	মূল্য নির্ধারণ .....	64
V.	সমানুপত্তিক মাহেকীয়া কিস্তি (ইএমআই) ভিত্তিক ব্যক্তিগত ঋণৰ ওপৰত ভাসমান সুতৰ হাৰ পুনৰ নির্ধারণ কৰা .....	69
VI.	মাচুল আৰু জৰিমনাসমূহ.....	70
VII.	নীতিৰ মালিকীষ্টতা .....	70
VIII.	নীতিৰ দিশসমূহৰ যোগাযোগ.....	70
IX.	নীতিৰ পর্যালোচনা/পুনৰীক্ষণ.....	70

## I. প্রস্তাবনা

বিজার্ড বেংক অফ ইণ্ডিয়া (আরবিআই) এ তেওঁলোকৰ 02 জানুৱাৰী, 2009 তাৰিখৰ আৰু 26 মাৰ্চ, 2012 তাৰিখৰ অনা-বেংকিং কোম্পানী ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহৰ ন্যায্য পদ্ধতিৰ সংহিতাসমূহৰ জাননীৰ জৰিয়তে এতিয়া এক মূল নিৰ্দেশনা- বিজার্ড বেংক অফ ইণ্ডিয়া (অনা-বেংকিং কোম্পানী ফাইনেন্স কোম্পানী- স্কেল ভিত্তিক নিয়মাবলী) নিৰ্দেশনাবলী, 2003 তাৰিখ 19 অক্টোবৰ, 2023 ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যি সময়ে সময়ে আপডেট সাপেক্ষ, এন্বিএফচি সমূহলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে:

- ধনৰ খ'বচ, মুনাফা আৰু বিপদাশংকা, প্ৰিমিয়াম আদিৰ দৰে প্রাসংগিক কাৰকসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য বাখি ব'উৰ অনুমোদিত সুতৰ হাৰৰ আৰ্হি স্থাপন কৰা আৰু খণ আৰু তগ্রিম ধনৰ বাবে ল'বলগীয়া সুতৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা
- খণগ্ৰহণকাৰীক সুতৰ হাৰৰ লগতে বিপদৰ গ্ৰেডেচনৰ বাবে পদ্ধতি আৰু বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ খণগ্ৰহণকাৰীৰ বাবে বিভিন্ন সুতৰ হাৰ লোৱাৰ ঘৃত্তিৰ বিষয়ে জনোৱা।
- কোম্পানীসমূহৰ ৱেবছাইটত সুতৰ হাৰ আৰু বিপদৰ গ্ৰেডেচনৰ বাবে পদ্ধতি উপলব্ধ কৰা।

## II. উদ্দেশ্য

গ্ৰাহকৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া বেঁধমাৰ্ক হাৰত উপনীত হোৱা আৰু গ্ৰাহকৰ পৰা লোৱা চূড়ান্ত হাৰত উপনীত হ'বলৈ স্পেছে চাৰ্জিংৰ মীতি আৰু পদ্ধতিৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লোৱা।

## III. বিপদাশংকা গ্ৰেডেচনৰ বাবে পদ্ধতি

বিভিন্ন ব্যৱসায়িক খণ্ড আৰু ইয়াৰ অধীনত বিভিন্ন আঁচনিব বাবে খণ সুতৰ হাৰ সংকল্পিত ব্যৱসায়িক খণ্ডৰ দ্বাৰা স্পেছে বাবে সামঞ্জস্য স্থাপন কৰাৰ পিছত পোৱা যায়।

ব্যৱসায়সমূহে (নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে প্ৰযোজ্য) স্পেছে গণনাৰ বাবে লক্ষ্য কৰা কাৰকসমূহ হাল তলত দিয়া ধৰণৰ:

- সুতৰ হাৰৰ বিপদাশংকা (নিৰ্দিষ্ট বনাম ফ্লাটিং খণ)
- আনুষ্ঠানিক ব্যৱসায়িক খণ্ডত ফেডিট আৰু ডিফল্ট বিকল
- আবেদন স্থাৰ্কাৰ্ডৰ আউটপুট
- একেধৰণৰ সমজাতীয় গ্ৰাহকৰ পূৰণি পাৰদৰ্শিতা
- খণগ্ৰহণকাৰীৰ প্ৰফাইল
- উদ্যোগ খণ্ড
- খণগ্ৰহণকাৰীৰ পুনঃপৰিশোধৰ ট্ৰেক বেকৰ্ট
- জামিন সুৰক্ষাৰ প্ৰকৃতি আৰু মূল
- নিৰাপদ বনাম অসুৰক্ষিত খণ
- ৰাজসাহাৰ্য উপলব্ধ
- খণৰ টিকটৰ আকাৰ
- বুৰো স্থাৱ
- খণৰ ম্যাদ
- স্থানৰ অপৰাধ আৰু সংগ্ৰহৰ পাৰদৰ্শিতা
- গ্ৰাহকৰ খণ (অন্য বৰ্তমানৰ খণ)
- প্ৰতিযোগিতা আৰু অন্যান্য প্রাসংগিক কাৰকে আগবঢ়োৱা মূল্য নিৰ্ধাৰণ

একে সময়ছোৱাত বিভিন্ন গ্ৰাহকে লাভ কৰা একেটা সামগ্ৰী আৰু ম্যাদৰ সুতৰ হাৰ একে হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ওপৰৰ সকলোৰোৰ বা ওপৰৰ কাৰকসমূহৰ সংমিশ্ৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ বাবে ই ভিন্ন হ'ব পাৰে।

সুতৰ হাৰ বাৰ্ষিক হাৰ হ'ব, য'ত মাহেকীয়া, দ্বি-মাহেকীয়া, প্ৰিমাসিক, অৰ্ধবাৰ্ষিক বা বাৰ্ষিক চক্ৰবৃদ্ধি থাকিব।

## IV. মূল্য নিৰ্ধাৰণ

মূল্য নিৰ্ধাৰণ মূলতঃ বিপদাশংকা, ম্যাদ আৰু প্ৰচলিত বজাৰৰ ধাৰাটোৱা ফলন। পুঁজিভিত্তিক এক্সপ'জাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ দুটা উপাদান আছে,

যেনে, বেঞ্চমার্ক আবু স্প্রেড। বেঞ্চমার্ক আবু স্প্রেড হৈছে ধনৰ খৰচ, মুনাফা, বিপদাশংকা প্ৰিমিয়াম আদিৰ ফলন।

সংস্থাটোৱে নিৰ্দিষ্ট বা ফ্লটিং সুতৰ হাৰৰ খণ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে প্ৰদান কৰা সামগ্ৰীৰ প্ৰকৃতি, বজাৰৰ অৱস্থা, ধনৰ উৎস আবু চৰ্তাৱলী, গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব।

কোম্পানীয়ে খণগ্ৰহণকাৰীক, খণ অনুমোদনৰ সময়ত খণৰ পৰিমাণ আবু সুতৰ হাৰৰ লগতে কিন্তিৰ ম্যাদ আবু পৰিমাণৰ বিষয়ে অৱগত কৰে।

এই প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণত ধনৰ খৰচ, বিপদাশংকা প্ৰিমিয়াম, অন্যান্য পৰিচালনা খৰচ, মুনাফা, ক্রেডিট লোকচান আবু কৰ পূৰ্বৰ আৰআ' এ বিবেচনা কৰি পোৱা ঘায়।

ক্ৰমিক নং	কাৰক	বৰ্ণনা
1.	ধনৰ খৰচ	<ul style="list-style-type: none"> <li>কোম্পানীয়ে ইয়াৰ খণদাতাৰ পৰা শেষ ব্যৱহাৰ নিৰ্দিষ্ট আবু/বা অম্পট দুয়োটোৱে সৈতে ধন সংগ্ৰহ কৰে যিটো গ্ৰহণযোগ্যতাৰ পুলৰ বিপৰীত।</li> <li>কোম্পানীয়ে আগবঢ়োৱা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ বাবে পুঁজিৰ খৰচ পণ্যৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভিন্ন হয় যেনে নিৰ্দিষ্ট/পৰিৱৰ্তনীয় হাৰ, ম্যাদ, পুঁচপৰিশোধৰ সঘনতা, অগ্ৰাধিকাৰ খণৰ লাভালাভ ইত্যাদি।</li> <li>কোম্পানীয়ে ব্যৱসায় চলাবলৈ কিছু ইকুইটিৰ অংশও বাখিব লাগিব আবু এনে ইকুইটিৰ খৰচৰ কথা বিবেচনা কৰা হয়।</li> <li>কোম্পানীয়ে লিকুইডিটি বিপদাশংকা পৰিচালনা কৰিবলৈ লিকুইডি ফাণ্টত বিনিয়োগৰ বৃগত কিছু লিকুইডিটি বাকাৰো বাখে আবু সেই বিনিয়োগসমূহৰ ওপৰতো খণাগাকে কেবিয়ান বহন কৰিবলগীয়া হয়।</li> </ul>
2.	অপাৰেটিং খৰচ	কোম্পানীয়ে আগবঢ়োৱা খুচৰা সামগ্ৰীসমূহ ইন হাউচ দলসমূহ/ডিএছএ-ৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় আবু সংগ্ৰহসমূহোৱা নিজৰ দল/সংগ্ৰহ এজেন্টৰ জৰিয়তে কৰা হয়। সেই অনুসৰি কোম্পানীয়ে ইয়াৰ ৰোলত থকা বৃহৎ সংখ্যক কৰ্মচাৰীৰ লগতে সংগ্ৰহকাৰী এজেন্টৰ জৰিয়তে কাম কৰে যিয়ে পৰিচালনাৰ খৰচ ঘৰেষ্ট বৃদ্ধি কৰে।
3.	মাৰ্জিন	কোম্পানীটোৱে 22খন ৰাজ্য, 2 খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অৱস্থিত শাখাসমূহৰ বৃহৎ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে আবু বেছিভাগেই নিজৰ কৰ্মচাৰী/সংগ্ৰহ এজেন্টৰ জৰিয়তে কাম কৰে। কোম্পানীয়ে গ্ৰাহকসকলক খণ সেৱা প্ৰদানৰ উন্নতিৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক বিনিয়োগ কৰিছে। ব্যৱসায়ৰ উৎসৰ বাবে দলসমূহক প্ৰযুক্তি আবু বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা সুদৃঢ়ভাৱে সমৰ্থিত। সেয়েহে সেই অনুসৰি মাৰ্জিন গণনা কৰা হয়।
4.	বিক্ষ প্ৰিমিয়াম	কোম্পানীটোৱে প্ৰযুক্তি আবু বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা সুদৃঢ়ভাৱে সমৰ্থিত অন-গ্রাউণ্ড সংগ্ৰহ দলত বিনিয়োগৰ জৰিয়তে উদ্যোগৰ স্তৰৰ সংগ্ৰহৰ সমপৰ্যায়ত ধাৰাবাহিকভাৱে কাম কৰি আহিছো কিন্তু মাইক্ৰো লোৱৰ দৰে কিছুমান সামগ্ৰী কিছুমান বিশেষ ইভেন্টে বিক্ষৰ সম্মুখীন হ'ব পাৰে যেনে বিমুদ্রাকৰণ, বানাপানী, ক'ভিড 2019 আদি। এনে পৰিষ্ঠিতনা বিপদাশংকাৰ বাবে প্ৰিমিয়াম প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণত অন্তৰ্ভুক্ত হয়।
5.	প্ৰি-টেক্স আৰআ'	সম্পত্তিৰ ওপৰত ভিত্তি বিটাৰ্গ হৈছে কোম্পানীয়ে নিজৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত আশা কৰা নূন্যতম বিটাৰ্গ।

#### i. পাইকাৰী সামগ্ৰীৰ বাবে:

ফ্লটিং সুতৰ হাৰৰ খণসমূহ স্বচ্ছ মানদণ্ডৰ সৈতে জড়িত হ'ব যিয়ে L&T ফাইনেন্স লিমিটেড ("কোম্পানী") পিএলআৰ\*, ক্ৰমবাৰ্গ এএও বা জিআ'আই ছিকিউটিভিজ বা এমআইবিআ'আৰ-ব বা মুখ্য খণদাতাৰ ভিত্তি হাৰ/এমচিএলআৰ (কনচটিয়াম খণৰ ক্ষেত্ৰত) বা আন যিকোনো ধনকে ধৰি উপযুক্ত বেঞ্চমার্ক (যেনে, এছবিআই ভিত্তি হাৰ/এমচিএলআৰ আদি) পুঁজিৰ খৰচক ব্যাপকভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে।

নিৰ্দিষ্ট সুতৰ হাৰৰ লেনদেনৰ বাবে ওপৰত আলোচনা কৰা ধৰণে বিক্ষৰ গ্ৰেডেচন পদ্ধতিৰ উপৰিও বৰ্তমানৰ সুতৰ হাৰৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আলোচনাৰ সময়ত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰভিত্তিক ভিত্তিত সুতৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব।

মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিটাৰ্গ অন ইকুইটি, শ্ৰেণীবৰ্হোন্তাৰ ভেন্যু এডেড আদি ধাৰণাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

প্ৰতিটো লেনদেনৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে গ্ৰাহকৰ সৈতে যথাযথ আলোচনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব আবু কোম্পানীটোৱে খণ নীতিত

উল্লেখ করা অনুমোদন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অধীনত হ'ব।

পিএলআর কোম্পানীটির রেবছাইটেট উপলক্ষ, একেটাতে যিকোনো পরির্বর্তন সম্পত্তি দায়বদ্ধতা ব্যরহাপনা সমিতির অনুমোদনের অধীনত।

**ii. খুচৰা ঋণৰ বাবে:**

কোম্পানী এ নিজৰ খুচৰা ঋণ লোৱাসকলক পণ্যৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্দিষ্ট আৰু ফ্ৰাণ্টিং হাৰ দুয়োটাতে ধন ঋণ দিয়ো। কোম্পানীয়ে নিম্নোক্ত খুচৰা সামগ্ৰী হেনে, কৃষক ফাইনেন্স, গ্ৰাম্য ব্যৱসায় ফাইনেন্স, গুদাম বচিদ ফাইনেন্স, দুচকীয়া ফাইনেন্স, গ্ৰাহক ঋণ, গৃহ ঋণ আৰু সম্পত্তিৰ বিপৰীতে ঋণ আৰু অসুৰক্ষিত এচএমই ঋণ প্ৰদান কৰে।

ক্ৰমিক নং	সামগ্ৰী	প্ৰদান কৰা	বাৰ্ষিক সুতৰ হাৰ <sup>1</sup> সাধাৰণতে আমাৰ গ্ৰাহকৰ <sup>2</sup> পৰা লোৱা
1.	কৃষক ফাইনেন্স	a) ট্ৰেষ্টৰ, হার্ডেণ্টাৰ আৰু অন্যান্য কৃষি সঁজুলি ক্ৰয়ৰ বাবে কৃষকক ঋণ প্ৰদান কৰা, যিটো কৃষিভূমি খেতি কৰা আৰু আয় সৃষ্টিৰ বাবে উৎপাদিত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াৰ দিশত ব্যৱহাৰ কৰা হয়  n) শস্য উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা কৃষি সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে কৃষকক ঋণ  o) শস্য উৎপাদন আৰু আনুষঙ্গিক-কৃষি কাৰ্যকলাপৰ বাবে কাৰ্যকৰী মূলধনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে কৃষকসকলক ঋণ	বছৰি 10% ৰ পৰা 19% লৈকে।
2.	ৱেৰহাউচ ৰচিদ ফাইনেন্স	কৃষকসকলক দুৰ্দশাগত্ব বিক্ৰীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ শস্যৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উন্নত মূল্য উপলক্ষ কৰিবলৈ হ্ৰস্বম্যাদী ঋণ প্ৰদান কৰো। ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱসায়ী আৰু প্ৰক্ৰিয়া কৰা সকলক প্ৰতিযোগিতামূলক মূল্যত কৃষি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হয়, চপোৱাৰ বতৰত, যেতিয়া সামগ্ৰীৰ মূল্য সৰ্বনিম্ন হয়, যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ লাভজনকতা সৰ্বাধিক কৰিব পাৰে	বছৰি 8% ৰ পৰা 15% লৈকে।
3.	দুচকীয়া ফাইনেন্স	গ্ৰাহকসকলক দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ঋণ প্ৰদান কৰিব যিবোৰ গ্ৰাহকে তেওঁৰ/তেওঁৰে উপাৰ্জনৰ উৎপাদনত উপস্থিত থাকিবলৈ বা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে।	বছৰি 8.5% ৰ পৰা 22% লৈকে।
4.	গ্ৰাম্য গোটৰ ঋণ আৰু ক্ষুদ্ৰ বিতীয় ঋণ	a) উপাৰ্জন সৃষ্টিৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে মহিলা ঋণ লওঁতাসকলক জেএলজি গাঁথনিৰ অধীনত সুৰু টিকট গোটৰ ঋণ প্ৰদান কৰে আৰু b) এনে অন্য ঋণ যিহেতু কোম্পানীয়ে গ্ৰাম্য অঞ্চলত ঋণ লওঁতাসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লাব পাৰে	বছৰি 16% ৰ পৰা 23.50% লৈকে।

ক্রমিক নং	সামগ্রী	প্রদান করা	বার্ষিক সুতৰ হাৰ <sup>1</sup> সাধাৰণতে আমাৰ গ্রাহকৰ <sup>2</sup> পৰা লোৱা
5.	সম্পত্তিৰ বিপৰীতে মাইক্রো খণ্ড	a) সম্পত্তিৰ বিপৰীতে মাইক্রো খণ্ড আৰু b) কোম্পানীয়ে গ্রাম্য অঞ্চলৰ খণ্ডগ্রহণকাৰীৰ বাবে আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা অন্যান্য খণ্ড প্রদান কৰে	বছৰি 14% ৰ পৰা 22% লৈকে
6.	ব্যক্তিগত খণ্ড	গ্রাহকক তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে খণ্ড প্রদান কৰে। গ্রাহকে বিভিন্ন শেষ ব্যৱহাৰৰ দিশত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ভ্ৰমণ, গ্রাহকৰ দীৰ্ঘম্যাদী সামগ্ৰী ক্ৰয়, চিকিৎসাৰ বিল, শিক্ষা আদি। গ্রাহকজন বৰ্তমানৰ বা নতুন গ্রাহক হ'ব পাৰে।	বছৰি 11% ৰ পৰা 24% লৈকে।
7.	গৃহ খণ্ড	গৃহ ক্ৰয়, নিৰ্মাণ, উন্মতি আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে গ্রাহকক খণ্ড প্রদান কৰে। কোম্পানীয়ে অন্য বেংক/বিতীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে বৰ্তমানৰ গৃহ খণ্ড গ্রাহকসকলক তেওঁলোকৰ বাকী থকা খণ্ডৰ পৰিমাণ উন্নত চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাবলীৰ সৈতে আমালৈ সলনি কৰাৰ বিকল্পত প্রদান কৰে।	সুতৰ ফ্লাটিং হাৰ L&T ফাইনেন্স লিমিটেড – এইচএল পিএলআৰ <sup>2</sup> ৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। <u>@@ সুতৰ নিৰ্দিষ্ট হাৰ:</u> বছৰি 11.5% ৰ পৰা 12.25% লৈকে  টোকা: অনুগ্রহ কৰি # চাওক
8.	সম্পত্তিৰ বিপৰীতে খণ্ড	আৱাসিক (স্ব-অধিকৃত, ভাড়া, খালী) আৰু বাণিজ্যিক সম্পত্তি বৰ্কীৰ বিপৰীতে বিতীয় সহায়ৰ বাবে গ্রাহকসকলক খণ্ড প্রদান কৰে।	সুতৰ ফ্লাটিং হাৰ L&T ফাইনেন্স লিমিটেড – এলএপি পিএলআৰ <sup>2</sup> ৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। <u>@@ সুতৰ নিৰ্দিষ্ট হাৰ:</u> বছৰি 12.5% ৰ পৰা 13.25% লৈকে টোকা: অনুগ্রহ কৰি # চাওক
9.	অসুৰক্ষিত এচএমই খণ্ড	ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহক তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে পুঁজি যোগান ধৰাৰ বাবে খণ্ড প্রদান কৰে	বছৰি 11% ৰ পৰা 23% লৈকে।
10.	যোগান শৃংখল বিতৰণ	মূলতঃ বিক্ৰেতা আৰু ডিলাৰসকলক হ্ৰস্বম্যাদী বিতীয় সুবিধা প্রদান কৰে, যিসকল কৰ্পৰেট একৰৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰে	বছৰি 8% ৰ পৰা 26% লৈকে

@ এই নীতিৰ চৰ্ত অনুসৰি ফ্লাটিং সুতৰ হাৰ বিছেট কৰাৰ সময়ত।

# যিকোনো মজুত থকা খণ্ডৰ সুতৰ হাৰ সহ ইয়াৰ গাঁথনিক খণ্ডৰ অৱনতিৰ (ফ্লাটিং বেট খণ্ডৰ বাবে প্রাসঙ্গিক বেঞ্চমাৰ্কৰ হাৰৰ পৰিৱৰ্তন নিৰ্বিশেষে)  
কাৰণে সংশোধন কৰা হ'ব পাৰে

#### \*টোকা:

- সুতৰ হাৰৰ পৰিসৰ এটা সূচক আৰু চূড়ান্ত হাৰ বিকল গ্ৰেডেচনৰ ভিত্তিত পোৱা যায়। ওপৰত জনোৱাৰ দৰে সূচক সুতৰ হাৰ যিকোনো সময়তে সলনি  
হ'ব পাৰে, কোম্পানীৰ একমাত্ৰ বিবেচনাৰ অধীনত।

2. বর্তমান কোম্পানী পিএলআর কোম্পানীটোর রেবচাইট উপলক্ষ, একেটাতে যিকোনো পরিরক্তন সম্পত্তি দায়বদ্ধতা ব্যবস্থাপনা সমিতির অনুমোদনৰ অধীনত।
3. পুল ক্রয়ৰ জৰিয়তে লাভ কৰা খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এই খণ্ডৰ সুতৰ হাৰ বাহ্যিক বেঞ্চমাৰ্ক হাৰ অৰ্থাৎ টি-বিল, বেপো হাৰ, এমচিএলআৰ/ব্ৰহ্ম বেংক/বিতীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বেঞ্চমাৰ্ক হাৰৰ সৈতে উল্লেখ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰিসৱৰ ভিতৰত নহ'বও পাৰে ওপৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে নিজ নিজ পণ্যৰ বাবে ইয়াৰ উৎপত্তিৰ ধৰণ দিয়া হৈছে। সেয়েহে এনে খণ্ডৰ বাবে তেওঁলোকৰ সুতৰ হাৰৰ গতিৰিধি তেওঁলোকৰ নিজ নিজ অনুমোদন পত্ৰত উল্লেখ কৰা সংযুক্ত বাহ্যিক বেঞ্চমাৰ্কৰ পৰিৱৰ্তন অনুসৰি হ'ব।
4. মূল্য নিৰ্ধাৰণটো অন্যান্য বিষয়ৰ সৈতে গ্ৰাহকৰ সৈতে উপযুক্ত শীমাংসা (যাত প্ৰযোজ্য হয়) আৰু/বা কোম্পানীৰ দ্বাৰা অনুসৰণ কৰা ক্রেডিট মূল্যাঙ্কন মাপকাটিৰ ওপৰত আধাৰিত হাৰ।

V. সমানুপত্তিক মাহেকীয়া কিণ্টি (ইএমআই) ভিত্তিক ব্যক্তিগত ঋণের ওপরত ভাসমান সুতৰ হাব পুনৰ নির্ধারণ কৰা

আৰবিআই তেওঁলোকৰ অধিসূচনা নং DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 তাৰিখ 18, আগষ্ট, 2023 ("আৰবিআই-ৰ অধিসূচনা") ইএমআই ভিত্তিক ব্যক্তিগত ঋণের ফ্লাটিং সুতৰ হাব পুনৰ নির্ধারণ সম্পর্কে এটা নিয়ম নির্ধারণ কৰিছে আৰু প্ৰয়োজনীয়তা ইএমআই ভিত্তিক ফ্লাটিং বেট ব্যক্তিগত ঋণে ক্ষেত্ৰত নীতিগত কাঠামো নিৰ্ধারণ কৰিবলৈ নিয়ন্ত্ৰিত সন্তাসমূহো। 2018 চনৰ 04 জানুৱাৰীৰ "এৰবিআইএল ৰিটাৰ্গ - বেংকিং পৰিসংখ্যাৰ সমষ্টি"ৰ ওপৰত আৰবিআই-ৰ বিজ্ঞপ্তি নং DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 ত "ব্যক্তিগত ঋণ" শব্দটোৰ সংজ্ঞা দিয়া হৈছে।

এই শাখাত সামৰি লোৱা নিৰ্দেশনাসমূহ 2023 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত মজুত থকা আৰু লগতে উপযুক্তভাৱে নতুন ঋণলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ'ব।

ইএমআই ভিত্তিক ফ্লাটিং বেট ব্যক্তিগত ঋণ অনুমোদনৰ সময়ত কোম্পানীয়ে ঋণ লোৱাসকলৰ পুনঃপৰিশোধ ক্ষমতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য বাখিব লাগিব যাতে সন্তাৰ্য বৃদ্ধিৰ পৰিস্থিতিত ম্যাদৰ দীঘনীয়া আৰু/বা ইএমআই বৃদ্ধিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত হেডৰুম/ মাৰ্জিন উপলক্ষ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব পাৰি ঋণৰ ম্যাদৰ সময়ত বাহ্যিক বেঞ্চমাৰ্ক হাবতা ইএমআই ভিত্তিক ফ্লাটিং বেট ব্যক্তিগত ঋণে ক্ষেত্ৰত কোম্পানীয়ে তলত দিয়া কাঠামো অনুসৰণ কৰিব লাগিব:

8. অনুমোদনৰ সময়ত কোম্পানীয়ে ঋণগ্ৰহণকাৰীসকলক ঋণৰ ওপৰত বেঞ্চমাৰ্ক সুতৰ হাবৰ পৰিৱৰ্তনৰ সন্তাৰ্য প্ৰভাৱৰ বিষয়ে স্পষ্টভাৱে যোগাযোগ কৰিব লাগিব যাব ফলত ইএমআই আৰু/বা ম্যাদৰ বা দুয়োটাৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব। তাৰ পিছত ওপৰৰ কথাখনিৰিৰ বাবে ইএমআই/ম্যাদ'ৰ বা দুয়োটাৰে যিকোনো বৃদ্ধিৰ বাবে উপযুক্ত মাধ্যমেৰে ঋণগ্ৰহণকাৰীক তৎক্ষণাত জনোৱা হ'ব।
9. সুতৰ হাব পুনৰ নিৰ্ধারণ কৰাৰ সময়ত ঋণগ্ৰহণকাৰীক ঋণৰ কাৰ্য্যকালত বৰ্তমানৰ ফ্লাটিং হাবৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হাবলৈ এবাৰ সলনি কৰাৰ বিকল্প প্ৰদান কৰা হ'ব। ঋণৰ ম্যাদৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট পৰা ফ্লাটিংলৈ বা ফ্লাটিংৰ পৰা নিৰ্দিষ্টলৈ পৰৱৰ্তী যিকোনো পৰিৱৰ্তন কোম্পানীটোৱা একমাৰে বিবেচনাধীন হ'ব।
10. ঋণগ্ৰহণকাৰীৰ হাতত (a) (i) ইএমআই বৃদ্ধি বা (ii) ম্যাদ বৃদ্ধি বা (iii) কোম্পানীটোৱা আভ্যন্তৰীণ নীতি অনুসৰি দুয়োটা বিকল্পৰ সংমিশ্ৰণৰ বিকল্প থাকিব; আৰু, (b) ঋণৰ সময়সীমাৰ যিকোনো সময়তে আংশিকভাৱে বা সম্পূৰ্ণভূপে আগতীয়কে পৰিশোধ কৰা।
11. ঋণ ফ্লাটিংৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হাবলৈ সলনি কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰযোজ্য চাৰ্জ আৰু ওপৰৰ বিকল্পসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত অন্য যিকোনো সেৱা চাৰ্জ/প্ৰশাসনিক খৰচ অনুমোদন পত্ৰত আৰু কোম্পানীয়ে এনে চাৰ্জ/খৰচ পুনৰীক্ষণ কৰাৰ সময়তো প্ৰকাশ কৰিব লাগিব মাজে মাজে।
12. কোম্পানীয়ে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে ফ্লাটিং হাব ঋণৰ ক্ষেত্ৰত ম্যাদ বৃদ্ধিৰ ফলত ঋণাত্মক ক্ষয়সাধন নহয়।
13. কোম্পানীয়ে প্ৰতিটো ত্ৰৈমাসিকৰ শেষত এটা বিবৃতি উপযুক্ত মাধ্যমেৰে ঋণগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে ভাগ-ভতৰা / সুলভ কৰি তুলিব যিয়ে নূন্যতমভাৱে আজিলোকে আদায় কৰা মূলধন আৰু সুত, ইএমআই ৰ ধনৰাশি, বাৰ্ষী থকা ইএমআই ৰ সংখ্যা আৰু বাৰ্ষিক সুতৰ হাব গণনা কৰিব লাগিব / ঋণৰ সমগ্ৰ ম্যাদৰ বাবে বাৰ্ষিক শতাংশ হাব (এপিআৰ)।

14. সমানুপ্রিক মাহেকীয়া কিস্তির খণ্ডে উপরিও এই নির্দেশনাসমূহ বিভিন্ন সময়কালীন সকলো সমান কিস্তিভিত্তিক খণ্ডে ক্ষেত্রতো প্রযোজ্য হ'ব।
15. কোম্পানীয়ে বর্তমানে সকলো খণ্ডগ্রহণকারীলৈ, উপযুক্ত মাধ্যমে জরিয়তে, তেওঁলোকের বাবে উপলব্ধ বিকল্পসমূহের বিষয়ে অবগত করি এটা যোগাযোগ প্রেরণ করিব লাগিব।

#### VI. মাচুল আৰু জৰিমনাসমূহ

খণ্ডে সুত লোৱাৰ উপরিও কোম্পানীয়ে প্রযোজ্য অনুসৰি মাচুল আৰু জৰিমনাসমূহো আৰোপ কৰিব। ইয়াৰ উপরিও কোম্পানীয়ে সময়ে সময়ে প্রযোজ্য হ'ব পৰাকৈ টাঙ্ক ডুটি, চাৰ্টিচ টেক্স / জিএছটি আৰু অন্যান্য চেছও সংগ্ৰহ কৰিব। এই চাৰ্জৰ যিকোনো পুনৰীক্ষণ গ্ৰাহকৰ সৈতে উপযুক্ত যোগাযোগৰ সৈতে সন্তাৱ্য ভিত্তিত কাৰ্য্যকৰী কৰা হ'ব।

প্রযোজ্য মাচুলৰ সময়সূচী (য'ত প্ৰয়োজন হয়) কোম্পানীটোৰ বেবছাইটত উপলব্ধ।

#### VII. নীতিৰ মালিকীষ্ঠত্ব

মুখ্য কাৰ্য্যবাহীসকল ইই নীতিৰ মালিক হ'ব আৰু নীতিৰ বৃপ্তায়ণৰ বাবে দায়বদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা কোম্পানীটোৰ সম্পত্তিৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ সমিতিক অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে সুতৰ হাৰৰ পৰিসৰৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনকে ধৰি উপযুক্ত পৰিৱৰ্তন আদিৰ ভিত্তিত মুদ্ৰা বজাৰৰ পৰিস্থিতি আৰু/বা যিকোনো নিয়ন্ত্ৰকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত কতৃত প্ৰদান কৰে যিয়ে বিভিন্ন খণ্ড সামগ্ৰীৰ বাবে প্রযোজ্য সুতৰ হাৰৰ উধমুহী / তলালৈ পুনৰীক্ষণ আৰু এনে খণ্ড সামগ্ৰীৰ বাবে প্রযোজ্য প্ৰাসংগিক চাৰ্জসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে।

#### VIII. নীতিৰ দিশসমূহৰ যোগাযোগ

কোম্পানীয়ে গ্ৰহণযোগ্য যোগাযোগৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে অনুমোদন / খণ্ডৰ সুবিধা লোৱাৰ সময়ত গ্ৰাহকসকলক সুতৰ কাৰ্য্যকৰী হাৰৰ বিষয়ে যোগাযোগ কৰিব।

সুতৰ হাৰৰ আৰ্হ আৰু মাচুলৰ সময়সূচী (য'ত প্রয়োজন হয়) কোম্পানীটোৰ বেবছাইটত আপলোড কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমানৰ গ্ৰাহকৰ বাবে বেঞ্চমাৰ্ক হাৰ আৰু চাৰ্জৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তন কোম্পানীটোৰ বেবছাইটত আপলোড কৰা হ'ব।

#### IX. নীতিৰ পৰ্যালোচনা/পুনৰীক্ষণ

যদি কোনো সময়ত নীতি আৰু সংশ্লিষ্ট কত্ৰিপক্ষই জাৰি কৰা কোনো নিয়ম, নিয়ম, নির্দেশনা, অধিসূচনা, স্পষ্টীকৰণ, বিজ্ঞপ্তি, মাইচৰ চক্ৰান্তমূলক/নির্দেশনা ("নিয়ন্ত্ৰণমূলক বিধান")ৰ মাজত ব্যাখ্যা / তথ্যৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়, তেন্তে নিয়ন্ত্ৰণমূলক বিধানসমূহৰ ব্যাখ্যা হ'ব প্ৰধান। নিয়ামক ব্যৱহাৰসমূহৰ যিকোনো সংশোধন(বোৰ) আৰু/বা স্পষ্টীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত, নীতিটো নিয়ামক ব্যৱহাৰ অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত কাৰ্য্যকৰী তাৰিখৰ পৰা সেই অনুসৰি সংশোধন কৰা হ'ব।

নথিপত্র মালিক	নিজ নিজ জিইচি-ব
---------------	-----------------

### সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ

সংস্করণ	তারিখ	লিখক	বর্ণনা সলনি করক
1.0	নবেম্বর 2023	নিজ নিজ জিইচি-ব	নতুন নীতি গ্রহণ
2.0	জানুয়ারী 2024	নিজ নিজ জিইচি-ব	গৃহ খণ্ড আবু সম্পত্তির বিপরীতে খণ্ড বাবে নির্দিষ্ট সুতৰ হাবৰ পরিসর সংযোজন
3.0	অক্টোবর 2024	নিজ নিজ জিইচি-ব	বার্ষিক পর্যালোচনা- প্রক্রিয়া আপডেট সৈতে সংগতি বাখি কৰা পুনৰীক্ষণ
4.0	জানুয়ারী 2025	ব'র্ড	প্রক্রিয়া আপডেট আবু সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ সমিতিৰ অনুমোদন অনুসৰি নির্দিষ্ট সামগ্ৰীৰ সুতৰ হাবৰ পরিসরত পুনৰীক্ষণৰ লক্ষ্য কৰা।

এই নথিখন কোম্পানীৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যৱহাৰৰ বাবে। এই লিঙ্কৰ কোনো নথিপত্রৰ কোনো অংশ প্ৰচাৰিত বা কোনো উপায়েৰে [গ্ৰাফিক, ইলেক্ট্ৰনিক বা যান্ত্ৰিক, ফটোকপি, ৰেকৰ্ডিং, টেপিং বা তথ্য উদ্ধাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি] কোনো ডিস্ক, টেপ, ছিদ্ৰযুক্ত মাধ্যম বা কোষাগাৰ বিভাগৰ পূৰ্বৰ লিখিত অনুমতি আবহনে অন্য তথ্য সংৰক্ষণ ডিভাইচ আদিত কোনো ধৰণৰ পুনৰ প্ৰকাশ বা প্ৰতিলিপি কৰিব নোৱাৰিব।

## പലിശ നിരക്ക് മോഡൽ

L&T ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (മുൻ L&T ഫിനാൻസ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ്  
എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ('കമ്പനി')

## ഉള്ളടക്കം

I.	ആരമുവം .....	74
II.	ലക്ഷ്യം .....	74
III.	വിവിധതരം അപകടസാധ്യതകൾ തരംതിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സമീപനം.....	74
IV.	വിലനിർണ്ണയം .....	75
V.	തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണകൾ (ഇഎംഎൽ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്ക്കാളുടെ ഷ്ടോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കൽ .....	79
VI.	ഹീസും നിരക്കുകളും.....	81
VII.	നയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം.....	81
VIII.	നയത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ആശയവിനിമയം ചെയ്യൽ .....	81
<b>IX</b>	<b>അവലോകനം/പുനർപ്പരിശോധന</b> .....	<b>81</b>

## I. ആമുഖം

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഎഫ്) 2009 ജനുവരി 02-ലെ വിജ്ഞാപനവും ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികൾക്കായുള്ള 2012 മാർച്ച് 26-ലെ ഫോറെസ്റ്റ് പ്രാക്ഷീസന്സ് കോഡ് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാറ്റൽ യായിക്കൊണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് - 2023 ഒക്ടോബർ 19-ലെ കാലാകാലങ്ങളിൽ അപ്പേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനക്രിയ കമ്പനി-സ്കൈയിൽ അടിസ്ഥാന ഗ്രാഫേഷൻ) നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ എൻബി.എഫി.ക്ലോട്ടോടു ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്:

- ഹണ്ഡുകളുടെ വില, മാർജിൻ, റിസ്റ്റ്, പ്രീമിയം തുടങ്ങിയ പ്രസക്തമായ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ബോർഡ് അംഗീകൃത പലിശ നിരക്ക് മോഡൽ സ്ഥാപിക്കുകയും വാഴ്കൾക്കും അധിവാർഡിസുകൾക്കും ഇംടാക്കേണ്ട പലിശ നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- അപകടസാധ്യതയുടെ ശ്രദ്ധയുമുഖ്യമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വാഴ്ക്കാരിൽ നിന്ന് വൃത്തയും പലിശ നിരക്കുകൾ ഇംടാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം വൃക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുക.
- കമ്പനികളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പലിശ നിരക്കുകളും അപകടസാധ്യതകളുടെ ശ്രദ്ധയുമുള്ള സമീപനവും ലഭ്യമാക്കുക.

## II. ലക്ഷ്യം

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉപദോക്തൃ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബെഞ്ച്‌മാർക്ക് നിരക്കുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും ഉപദോക്താകളിൽ നിന്ന് ഇംടാക്കുന്ന അതിമ നിരക്കുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ചാർജ്ജിംഗ് സ്റ്റേപ്പുകളുടെ തത്പര്യാർഹം സമീപനവും തീരുമാനിക്കാനും

## III. വിവിധതരം അപകടസാധ്യതകളോടുള്ള സമീപനം

വിവിധ ബിസിനസ്സ് സെഗ്മെന്റുകൾക്കും അതിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്കീമുകൾക്കുമായുള്ള ലോണുകളുടെ പലിശനിരക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് വിഭാഗം സ്റ്റേപ്പുകൾക്കായി ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

സ്റ്റേപ്പുകൾ കണക്കാക്കുന്നതിന് ബിസിനസ്സുകൾ (അതിൽ ബിസിനസ്സിന് ബന്ധകമായത്) കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

- പലിശ നിരക്ക് റിസ്റ്റ് (പ്രിക്സ് വേഴ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലോൺ)
- ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് വിഭാഗത്തിലെ കെട്ടിറ്റും ഡിഫോൾട്ട് റിസ്റ്റ്
- ആളീക്കേഷൻ സ്കോർക്കാർഡിന് ഒരുപുട്ട്
- സമാന ഗണത്തിൽപ്പെട്ട കൂടിയിന്റുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം
- വായ്പാക്കാരന്റെ പൊതുപെയൽ
- വൃവസായ വിഭാഗം
- വായ്പാക്കാരന്റെ തിരിച്ചടവ് ട്രാക്സ് രേഖാർഡ്

- കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സ്വഭാവവും മുല്യവും
- സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വായ്യും
- സബ്വൈൻഷൻ ലഭ്യമാണ്
- വായ്യുടെ ടിക്കറ്റ് വലുപ്പം
- ബുദ്ധി സ്കോർ
- വായ്യ കാലാവധി
- ലോക്കേഷൻ അപരാധവും ശേവരണ പ്രകടനവും
- ഉപദോക്താവിന്റെ കടബാധ്യത (നിലവിലുള്ള മറ്റ് വായ്ക്കൾ)
- മത്സരവും മറ്റ് പ്രസക്തമായ ഘടകങ്ങളും വാധാനു ചെയ്യുന്ന വിലനിർണ്ണയം

വ്യത്യസ്ത ഉപദോക്താക്കൾ ഒരേ കാലയളവിൽ ഒരേ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ടെന്റിനുമുള്ള പലിശനിരക്ക് ഒന്നായിരിക്കണമെന്നില്ല. മേൽപ്പറത്ത് ഘടകങ്ങളുടെയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ചിലതോ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഉപദോക്താക്കൾക്ക് ഈത് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

പലിശ നിരക്ക് പ്രതിമാസ, ദിവസാം, ദിവസമാം, അർദ്ധ വാർഷിക, അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക കോബണ്ടിംഗ് എന്നിവ സഹിതമുള്ള വാർഷിക നിരക്കുകളായിരിക്കും.

#### IV. വിലനിർണ്ണയം

വിലനിർണ്ണയം പ്രധാനമായും അപകടസാധ്യത, കാലയളവ്, നിലവിലുള്ള വിപണി ടെൻഡർ എന്നിവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഫണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എക്സ്പോഷറിനെ സംബന്ധിച്ചിടതേതാളം, വിലനിർണ്ണയത്തിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അതായത് ബെഞ്ച്‌മാർക്കും സ്വീപ്പേഡും. ഫണ്ടുകളുടെ വില, മാർജിന്, റിസ്ക് പീമിയം മുതലായവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ബെഞ്ച്‌മാർക്കും സ്വീപ്പേഡും.

മറ്റു പലതിന്റെയും കുടത്തിൽ ഓഫീസ് ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സ്വഭാവം, വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ, ഉറവിടങ്ങൾ, ഫണ്ടുകളുടെ നിബന്ധനകൾ, കൂട്ടിന്റെ ആവശ്യകതകൾ തുടങ്ങിയവയെ ആശയിച്ചായിരിക്കും സ്ഥിരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്കിൽ വായ്യ നൽകാനുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ തീരുമാനം.

വായ്യ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്തെ ലോൺ തുകയും പലിശ നിരക്കും കാലാവധിയും ഇൻസ്റ്റാർഫെമ്പിന്റെ തുകയും കമ്പനി വായ്യയെടുക്കുന്നയാളെ അറിയിക്കുന്നു.

ഫണ്ടുകളുടെ വില, റിസ്ക് പീമിയം, മറ്റ് പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ, മാർജിന്, ക്രെഡിറ്റ് നിഃഖാലിക്കൽ, പ്രൈ-ടാക്സ് ആൽ ഓ എ എന്നിവ കമ്പനിയെല്ലാത്താണ് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഓരോന്നിന്റെയും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

ക്ര മ ന പ ര	ഘടകം	വിവരണം

1.	<b>പ്രണ്ടുകളുടെ ചെലവ്</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>കമ്പനി അതിന്റെ കടം കൊടുക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടും കുടാതെ/അലേക്സിൽ വ്യക്തമാക്കാതെയും സ്പീകാരുമായവയ്ക്കെതിരെ ഫ്രെംസ് സ്പരൂപിക്കുന്നു.</li> <li>ഫിക്സഡ്/ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക്, കാലയളവ്, തിരിച്ചടവ് ആവൃത്തി, മുൻഗണനാ വായ്പാടുകളും മുതലായവ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സ്പാവത്തെ ആശയിച്ച് കമ്പനി വാധാനും ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫ്രെംസ് വില വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.</li> <li>ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് കമ്പനി കുറച്ച് ഇക്പിറ്റി ഭാഗവും നൽകേണ്ടതുണ്ട്, അത്തരം ഇക്പിറ്റിയുടെ വില കണക്കിലെടുക്കുന്നതാണ്.</li> <li>ലിക്പിയിറ്റി റിസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായും ആ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ഗെഡ്രീവ് ക്യാറിഓൺ ക്രമീകരിക്കാനുമായി ലിക്പിയ്സ് ഫ്രണ്ടുകളിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ കമ്പനി ചില ലിക്പിയിറ്റി ബഹർ സൂക്ഷിക്കുന്നു.</li> </ul>
2.	<b>നടത്തിപ്പ് ചിലവ്</b>	കമ്പനി വാധാനും ചെയ്യുന്ന റീട്ടയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ സ്പന്നം ടീമുകൾ/ഡിഫസ്റ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്, കുടാതെ അതിന്റെ സ്പന്നം ടീമുകൾ/കളക്ഷണൾ ഏജന്റുമാർ വഴിയും ശേഖരണങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച്, കമ്പനി അതിന്റെ രോജുകളിൽ ധാരാളം ജീവനക്കാരിലൂടെയും ശേഖരണ ഏജന്റുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഈ പ്രവർത്തന ചെലവ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
3.	<b>മാർജിനുകൾ</b>	22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 2 കേരള ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാവകളുടെ വലിയ ശൃംഖലയിലൂടെയും കുടുതലും സ്പന്നം ജീവനക്കാർ/കളക്ഷണൾ ഏജന്റുമാർ വഴിയുമാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉപദോക്താക്കൾക്ക് വായ്പാടു സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കമ്പനി സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വ്യാപകമായി നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് സേഭസിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും അനലിറ്റിക്ക്‌സും ടീമുകളെ നന്നായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ, മാർജിനുകൾ അതിനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു.
4.	<b>റിസ്റ്റ് പ്രൈമിയം</b>	ടെക്നോളജിയും അനലിറ്റിക്ക്‌സും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഓൺ-ഗ്രൗണ്ട് കളക്ഷണൾ ടീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ശേഖരണങ്ങളുടെ വ്യവസായ തലങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി കമ്പനി തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മെഡ്കോ ലോണുകൾ പോലുള്ള ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ, ബൈള്ലിപ്പുകൾ, കോവിഡ് 2019 തുടങ്ങിയ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് വിധേയമായേക്കാം. അത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൈമിയം ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയെല്ലാം

		വിലനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടും.
5.	<b>നികുതിക്ക് മുന്നോട്ടോളം ആർക്കേഡ്</b>	ആസ്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള അടിസ്ഥാന വരുമാനമാണ് കമ്പനി അതിന്റെ ആസ്ഥികളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറത്തു വരുമാനം.

i. **മൊത്തവ്യാപാര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ:**

L&T ഫിനാൻസ് ഹോശ്യിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ("കമ്പനി") പിഎൽആർ\*, ബുംബെർഗ് എ എ എ അബ്ലൂഷിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ അബ്ലൂഷിൽ എംഫൈബിഓആർ അബ്ലൂഷിൽ പ്രധാന കട നൽകുന്നയാളുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക്/എംസി/എൽആർ (കൺസോർഷ്യൂത്തിന് കട കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ) അബ്ലൂഷിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ മാനദണ്ഡം (ഉദാ, എസ്ബിഎ) അടിസ്ഥാന നിരക്ക്/എംസി/എൽആർ മുതലായവ) വിശാലമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സുതാര്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി ഷോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് ലോണുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കും.

സ്ഥിരമായ പലിശ നിരക്ക് ഇടപാടിന്, മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസ്സ് സമീപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പുറമെ നിലവിലെ പലിശ നിരക്ക് സാഹചര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനുമതി/വിതരണ സമയത്ത് ഓരോ കേസ്-ടു-കേസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കും.

റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്പിറ്റി, ഷൈയർഹോശ്യർ വാല്യു ആധിക്യം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളും വിലനിർണ്ണയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

ഓരോ ഇടപാടിന്റെന്നെല്ലാം വിലനിർണ്ണയം മറ്റു പലതിന്റെയും കൂടുതലിൽ കൂടിയിന്നുമായുള്ള കൃത്യമായ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് കമ്പനിയുടെ കെട്ടിട് പോളിസിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അപൂർവ്വിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായിരിക്കും.

കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിലവിലെ പി.എൽ.ആർ ലഭ്യമാണ്, അതിലെ ഏത് മാറ്റവും അസറ്റ് ലയബിലറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമാണ്.

ii. **റീട്ടയിൽ ലോണുകൾ:**

കമ്പനി അതിന്റെ റീട്ടയിൽ വാഴ്ക്കാർക്ക് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഫിക്സ്ഡ്, ഷോട്ടിംഗ് നിരക്കുകളിൽ പണം കട കൊടുക്കുന്നു. ഫാർമർ ഫിനാൻസ്, റൂറൽ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ്, വൈയർഹൗസ് റസീത് ഫിനാൻസ്, ടു-വീലർ ഫിനാൻസ്, കൺസ്യൂമർ ലോണുകൾ, ഹോം ലോണുകൾ, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലുള്ള ലോണുകൾ, അൺസൈക്യൂറിഡ് SME ലോണുകൾ എന്നിങ്ങനെ വാഴ്ക്കാർക്കുന്നവർക്ക് കമ്പനി റീട്ടയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

കുമ ന്നപ ർ	ഉൽപ്പന്നം	ബാഹ്യരിംഗ്	വാർഷിക പലിശ് നിരക്ക് <sup>1</sup> സാധാരണയായി ഞങ്ങളുടെ ഉപയോകതാവിൽ നിന്ന് ഇട്ടാക്കുന്നു <sup>3</sup>
1.	ഫാർമർ ഫിനാൻസ്	a) കർഷകർക്ക് കൃഷിഭൂമയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ട്രാക്കറ്റുകൾ, കൊയ്ത്തു യന്ത്രങ്ങൾ, മറ്റ് കാർഷിക്കോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ വായ്പ് നൽകുക b) വിള ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് കർഷകർക്ക് വായ്പ് c) വിള ഉൽപാദനത്തിനും അനുബന്ധ-കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രവർത്തന മുലയന് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കർഷകർക്ക് വായ്പ്	പ്രതിവർഷം 10 % മുതൽ 19 % വരെ.
2.	വെയർഹൗ സ് റസീർ ഫിനാൻസ്	ധൂതിപിടിച്ച് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അവരുടെ വിളകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില ലഭ്യമാക്കാനും കർഷകർക്ക് ഹോസ്പിറ്റുകൾ വായ്ക്കൾ നൽകുന്നു. വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത്, ചരക് വില ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കുന്നേം, മാർക്കറ്റ് വിലയ്ക്ക് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വ്യാപാരികൾക്കും പോസ്റ്റർമാർക്കും ഇത് നൽകുന്നതാണ്. അതുവഴി അവരുടെ ലാഭക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവരെ പ്രാജ്ഞരാക്കുന്നു	പ്രതിവർഷം 8 % മുതൽ 15 % വരെ.

ക്രമ നമ്പർ	ഉൽപ്പന്നം	ഓഫറിംഗ്	വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് <sup>1</sup> സാധാരണയായി തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഇടക്കുന്നു <sup>2</sup>
3.	ടു-വീലർ ഫിനാൻസ്	വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനോ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടി ഉപഭോക്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുചട്ടകൾ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ നൽകുക.	പ്രതിവർഷം 8.5 % മുതൽ 22 % വരെ.
4.	ഗ്രാമീണ ശുപ്പ് വായ്ക്കളും മെക്കാഫി നാൻസ് വായ്ക്കളും	a) വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്റ്റീക്കൾക്ക് JLG റല്ലിയകൾ കീഴിലുള്ള ചെറിയ ടിക്കറ്റ് ശുപ്പ് ലോണുകളും b) ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വായ്ക്കാർക്കായി കമ്പനി തീരുമാനിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റ് വായ്ക്കളും നൽകുന്നു	പ്രതിവർഷം 16 % മുതൽ 23.50 % വരെ.
5.	വസ്തുവിനേ ലുള്ള മെക്കാ ലോൺ	എ) വസ്തുവിനേലുള്ള മെക്കാ ലോണും ബി) ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വായ്ക്കാർക്ക് നൽകാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റ് വായ്ക്കളും നൽകുന്നു	പ്രതിവർഷം 14% മുതൽ 22% വരെ
6.	പേഴ്സൺ ലോൺ	ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉപഭോഗ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വായ്പ നൽകുന്നു. യാതൊക്കാൻ, ഉപഭോക്തൃ സാധനങ്ങൾ, വാദ്ധാർ, മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്താവിന് നിക്ഷേപിക്കാം. ഉപഭോക്താവ് നിലവിലുള്ളതോ പുതിയതോ അയ ഉപഭോക്താവായിരിക്കാം.	പ്രതിവർഷം 11 % മുതൽ 24 % വരെ.

ക്രമ നമ്പർ	ഉൽപ്പന്നം	ഓഫറിംഗ്	വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് <sup>1</sup> സാധാരണയായി തെങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഇടക്കുന്നു <sup>3</sup>
7.	ബേൻ ലോണുകൾ	വീട് വാങ്ങൽ, നിർമ്മാണം, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, വിപുലീകരണം എന്നിവയ്ക്കായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നു. മറ്റ് ബാങ്കുകൾ / ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിലവിലുള്ള ഭവനവായും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കൂടിയീകരിക്കുന്നതു ലോൺ തുക തെങ്ങളിലേക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുന്നുള്ള ഓഫീഷനും കമ്പനി നൽകുന്നു.	ഐംട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് L&T ഫിനാൻസ് ഹോശിയിംഗ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു - എച്ച് എൽ പിഎൽആർ2.  @ സ്ഥിര പലിശ നിരക്ക്: പ്രതിവർഷം 11.5% മുതൽ 12.25% വരെ  കുറിപ്പ്: ദയവായി # റഹർ ചെയ്യുക
8.	സ്വത്തിന് പകരമുള്ള ലോൺ	താമസയോഗ്യമായ സ്വത്തുകളും (സ്വയം താമസിക്കുന്നവ, വാടകകൾ നൽകിയാണ, ഒഴിത്തുകൂടിക്കുന്നവ) വാണിജ്യ യോഗ്യമായ സ്വത്തുകളും ഇട വെച്ച്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി ലോൺ നൽകുന്നു.	ഐംട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് L&T ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു - എൽഎപി പിഎൽആർ2.  @ സ്ഥിര പലിശ നിരക്ക്: 12.5% മുതൽ 13.25% വരെ പ്രതിവർഷം കുറിപ്പ്: ദയവായി # റഹർ ചെയ്യുക
9.	അബ്സൈ കൂപ്പർഡിംഗ് SME ലോൺ	പ്രധാനമായും ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ ബിനിനിന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി വായ്പ നൽകുന്നു	പ്രതിവർഷം 11 % മുതൽ 23 % വരെ.
10.	സബ്സൈ ചെയിൻ ഫിനാൻസ്	പ്രധാനമായും കോർപ്പറേറ്റ് ആക്രമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വെഞ്ചർമാർക്കും ഡീലർമാർക്കും അവരുടെ ബിനിന്നല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം നൽകാൻ പ്രസ്താവിക്കാല ധനസഹായ സൗകര്യം നൽകുന്നു	പ്രതിവർഷം 8% മുതൽ 26% വരെ

@ ഈ നയത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഐംട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് പുനഃസംജ്ഞാക്കുന്ന സമയത്ത്.

# കെടിയിറ്റ ശേഷിയിലെ തകർച്ച നിമിത്തം നിലവിലുള്ള ഏതു വായ്യുടെയും

ഐടന ഉൾപ്പെടയുള്ള പലിശ നിരക്ക് പരിജ്ഞരിച്ചേക്കാം (ഫോട്ടോംഗ് രേഖാ ലോണുകളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം നിരക്കിലെ മാറ്റം പരിശീലനിക്കാതെ തന്നെ)

#### \*കുറിപ്പ്:

1. പലിശനിരക്ക് പരിധി ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്, അപകടസാധ്യതയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അന്തിമ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ മാത്രം വിവേചനാധികാരത്തിന് വിധേയമായി, മുകളിൽ പറയ്തിരിക്കുന്ന സൂചനാ പലിശ നിരക്ക് ഏത് സമയത്തും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.
2. കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിലവിലെ പിഎൽആർ ലഭ്യമാണ്, അതിലെ ഏത് മാറ്റവും അസ്ത്ര ലയബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥിരീകരിക്കലിന് വിധേയമാണ്.
3. പുൾ പർച്ചേസ് വഴി നേടിയ വായ്ക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ വായ്ക്കളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഒരു ബാഹ്യ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരക്ക്, അതായത് T-ബില്ലുകൾ, റിപ്പോ നിരക്ക്, എംസിഎൽആർ / വലിയ ബാങ്കുകളുടെ / ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരക്കുകൾ എന്നിവയെ പരാമർശിച്ചുള്ളതായിരുന്നേക്കാം, അവ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവയുടെ ഓരിജിനേഷൻ മോഡ് പ്രകാരമുള്ള പരിധിക്കുള്ളിൽ ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല. അതിനാൽ അത്തരം വായ്ക്കളുടെ പലിശ നിരക്ക് അവയുടെ അതാർ അനുമതി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ലിക്ക് എക്സ്പ്ലാൻൽ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും.
4. വിലാനിർണ്ണയം, കൂയന്നുമായുള്ള കൃത്യമായ ചർച്ചകളെ (ബാധകമാകുന്നിടത്ത്) അടിസ്ഥാനമാക്കിയും/ കമ്പനി പിന്തുടരുന്ന ക്രക്കിട്ട് നിർണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ആവും.

#### V. തുല്യമായ (പ്രതിമാസ തവണകൾ (ഇഎംഎ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്ക്കളുടെ ഫോട്ടോംഗ് പലിശ നിരക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കൽ

ആർബിഎ അതിന്റെ സർക്കുലർ നമ്പർ  
 ഡിഇആർ.എംസി.എസ്.ആർഎസി..32/01.01.003/2023-24 ആഗസ്റ്റ് 18, 2023 ("ആർബിഎ സർക്കുലർ") പ്രകാരം ഇഎംഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്ക്കളുടെ ഫോട്ടോംഗ് പലിശ നിരക്ക് പുനഃസജ്ജമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇഎംഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോംഗ് രേറ്റിലുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്ക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങൾ നയപരമായ ഒരു ചട്ടക്കുട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2018 ജനുവരി 04-ലെ "എക്സ്പ്ലാൻൽ റിട്ടേഞ്ച് - ഹാർമോണേസേഷൻ ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് സ്കാറ്റിന്റീക്സ്" എന്ന ആർബിഎ സർക്കുലർ നമ്പർ ഡിബിആർ.നഗ്‌പർ.ബി.പി.ബി.സി..99/08.13.100/2017-18 എന്നതിൽ "വ്യക്തിഗത വായ്ക്കൾ" എന്ന പദം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിലവിലുള്ളതും 31 ഡിസംബർ 2023-ാഠയുള്ള പുതിയതുമായ വായ്ക്കളിലേക്കും വ്യപിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇഫോൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് രേറ്റ് വ്യക്തിഗത വായ്ക്കൾ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത്, വായ്യുടെ കാലയളവിലെ ബാഹ്യ ബൈഞ്ച്‌മാർക്ക് നിരക്കിൽ വർധന സാധ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ, കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനും കുടാതെ/അബ്ലേഷ്യകിൽ ഇഫോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മതിയായ ഹൈറ്റു/മാർജിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വായ്യെടുക്കുന്നവരുടെ തിരിച്ചടവ് ശേഷി കമ്പനി കണക്കിലെടുക്കും. ഇഫോൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് രേറ്റ് വ്യക്തിഗത വായ്ക്കലെ സംബന്ധിച്ച്, ഇനിപ്പറയുന്ന ടട്ടക്കുട്ട് കമ്പനി പിന്തുടരും:

1. വായ്യ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇഫോൺ വർദ്ധിയിലെ കുടാതെ/അബ്ലേഷ്യകിൽ കാലയളവിലെ അബ്ലേഷ്യകിൽ രണ്ടിലെയും മാറ്റങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുന്ന ലോണിന്റെ ബൈഞ്ച്‌മാർക്ക് പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റത്തിന്റെ സാധ്യത സംബന്ധിച്ച് കമ്പനി കടം വാങ്ങുന്ന ആളുമായി വ്യക്തമായ ആശയവിനിമയം നടത്തും. തുടർന്ന്, മേൽപ്പറഞ്ഞവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഫോണും/ കാലയളവ് അബ്ലേഷ്യകിൽ ഇവ രണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നത് ഉചിതമായ മാർഗങ്ങളിലുടെ ഉടൻ തന്നെ വായ്ക്കാരനെ അറിയിക്കും.
2. പലിശ നിരക്കുകൾ പുനഃസംജ്ഞാക്കുന്ന സമയത്ത്, വായ്യുടെ കാലാവധിയിൽ നിലവിലുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്കിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നുള്ള ഓപ്പഷൻ വായ്ക്കാരൻ നൽകും. ലോണിന്റെ കാലയളവിനിടയിൽ ഫിക്സ് എന്നതിൽ നിന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് അബ്ലേഷ്യകിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്നതിൽ നിന്ന് ഫിക്സ് ആയി മാറുന്നത് കമ്പനിയുടെ മാത്രം വിവേചനാധികാരത്തിലായിരിക്കും.
3. വായ്പ്പാക്കാരൻ (a) (i) ഇഫോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ (ii) കാലയളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ അബ്ലേഷ്യകിൽ (iii) കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഓപ്പഷനുകളും ഒരുമിച്ച് ഏടുക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും; കുടാതെ, (ബി) ലോണിന്റെ കാലയളവിലെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഭാഗികമായോ പുർണ്ണമായോ മുൻകൂർ അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്പഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും.
4. ഫ്ലോട്ടിംഗിൽ നിന്ന് ഫിക്സ് രേറ്റിലേക്ക് ലോണുകൾ മാറ്റുന്നതിന് ബാധകമായ ഏല്ലാ ചാർജ്ജുകളും മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഓപ്പഷനുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരെങ്കിലും സേവന നിരക്കുകൾ/അഡ്വിസറിനിന്നുണ്ടാവേം ചിലവുകൾ എന്നിവയും അനുമതി കരത്തിലും കമ്പനി കാലാകാലങ്ങളിൽ അത്തരം ചാർജ്ജുകൾ/ചെലവുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന സമയത്തും വെളിപ്പെടുത്തും.
5. ഫ്ലോട്ടിംഗ് രേറ്റ് ലോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാലാവധി നീട്ടുന്നത് നെറ്റീവ് അമേരിക്കൻഡ്രോഡ് കലാശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കമ്പനി ഉറപ്പാക്കും.
6. ഏറ്റവും കുറത്തത് ഓരോ തെത്തമാസത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ നാളത്തുവരെ വീബ്ലെഡുത്ത മുതലും പലിശയും, ഇഫോൺ തുക, ഇഫോൺകളുടെ ഏല്ലാം, വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് / ലോണിന്റെ മുഴുവൻ കാലയളവിനുമുള്ള വാർഷിക ശതമാന നിരക്ക് (APR) എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ട്‌മെന്റ് കമ്പനി

വായ്യെടുക്കുന്നവരുമായി ഉചിതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പജിറ്റൺ / അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.

7. തുല്യമായ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാർമെന്റ് ലോണുകൾക്ക് പുറമെ, വ്യത്യസ്ത ആനുകാലികങ്ങളിലെ എല്ലാ തുല്യ തവണകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്ക്കൾക്കും യോജിച്ച മാറ്റങ്ങളോടെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാകും.
8. നിലവിലുള്ള എല്ലാ വായ്പാക്കാർക്കും ഉചിതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് ലഭ്യമായ ഓപ്പനുകൾ അറിയിച്ച് കൊണ്ട് കമ്പനി ഒരു ആശയവിനിമയം അയയ്ക്കും.

## VI. ഫീസും ചാർജ്ജുകളും

വായ്ക്കൾക്ക് പലിശ ഇടക്കകുന്നതിനു പുറമെ, കമ്പനി ബാധകമായ ഫീസും ചാർജ്ജുകളും ഇടക്കകും. കൂടാതെ, കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാധകമായെക്കാവുന്ന സ്ഥാന ഡ്രോട്ടി, സേവന നികുതി / ജിഫ്രേസ്സി, മറ്റ് സേവന് എന്നിവയും കമ്പനി ശേഖരിക്കും. ഈ നിരക്കുകളിലെ ഏത് പരിഷ്കരണവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യമായ ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരാന്നിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കും.

കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈസ്റ്റിൽ ബാധകമായ ചാർജ്ജുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ (ആവശ്യമുള്ളിടത്തില്ലാം) ലഭ്യമാണ്.

## VII. നയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ആയിരിക്കും ഈ നയത്തിന്റെ ഉടമകൾ. കൂടാതെ, നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും അവർക്കാവും. കമ്പനിയുടെ ആളീ വിലനിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയെ, കമ്പനിയുടെ ആളീ വിലനിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിക്ക്, പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും, മണി മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യത്തെയും/അഭ്യർഥിക്കിൽ വിവിധ വായ്യാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ പലിശ നിരക്കുകളിലെ വർദ്ധനവ്/താഴ്ന്ന പരിജ്ഞരണവും അത്തരം വായ്യാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ പ്രസക്തമായ ചാർജ്ജുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗണ്യമായ ആവശ്യകതകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, അംഗീകാരം നൽകുന്നു.

## VIII. നയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റുടെ ആശയവിനിമയം

സ്പീകാര്യമായ ആശയവിനിമയ റീതിയിലൂടെ ലോൺ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് / ലഭ്യമാക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി ഫലപ്രദമായ പലിശ നിരക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കും.

പലിശ നിരക്ക് ഫോഡലും ചാർജ്ജുകളുടെ പട്ടികയും (ആവശ്യമുള്ളിടത്ത്) കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈസ്റ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ബെഞ്ച്മാർക്ക് നിരക്കുകളിലും ചാർജ്ജുകളിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കിൽ

കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

#### IX. നയത്തിന്റെ അവലോകനം/റിപ്പോർട്ട്

എത്തക്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നയവും എത്തക്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, അറിയിപ്പുകൾ, വ്യക്തതകൾ, സർക്കുലറുകൾ, മാസ്റ്റർ സർക്കുലറുകൾ/ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ("ഗൈലേറ്ററി പ്രോവിഷൻസ്") എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ വ്യാവ്യാനത്തിന്റെ / വിവരങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടായാൽ, ഗൈലേറ്ററി വ്യവസ്ഥകളുടെ വ്യാവ്യാനം നിലനിൽക്കും. ഗൈലേറ്ററി വ്യവസ്ഥകളിൽ എത്തക്കിലും ഭേദഗതി(കൾ) കൂടാതെ/അംബ്ലേക്ഷിൽ വ്യക്തമാക്കൽ(ലുകൾ) ഉണ്ടായാൽ, ഗൈലേറ്ററി വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാബല്യ തീയതി മുതൽ നയം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടതായി നിലകൊള്ളും.

ಯೋಕ್ಕುಮೆನ್‌

വ്യാപക

പതിപ്പ് നിയന്ത്രണം

പതിപ്പ്	തീയതി	രഹ്യത്വം	വിവരങ്ങൾ മാറ്റുക
1.0	നവംബർ 2023	ബന്ധപ്പെട്ട ജിള്ലസിക്സ്	പുതിയ നയം സ്വീകരിച്ചു
2.0	2024 ജനുവരി	ബന്ധപ്പെട്ട ജിള്ലസിക്സ്	ഭവനവായ്യേൽക്കും വസ്തുവിനേമലുള്ള വായ്യേൽക്കും ഉള്ള സ്ഥിരമായ പലിശമിരക്ക് റേഖ കൂടിച്ചേർക്കൽ
3.0	കെട്ടോബൻ, 2024	ബന്ധപ്പെട്ട ജിള്ലസിക്സ്	വാർഷിക അവലോകനം- പ്രോസസ് അപ്പേഡ്രീന് അനുസ്പദമായി നടപ്പാക്കിയ ദേശത്തികൾ
4.0	2025 ജനുവരി	ബോർഡ്	പലിശ നിരക്ക് ശ്രദ്ധിയിലെ പ്രോസസ് അപ്പേഡ്രീനും പരിപ്പിരണ കൂറിപ്പിനും അനുസ്പദമായി നടപ്പിലാക്കിയ ബോർഡ് പരിപ്പാരങ്ങൾ.

ഈ ഡോക്യുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥാങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ ലികിലെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെയും ഒരു ഭാഗവും ഒരു രൂപത്തിലും പുനർന്നിർമ്മിക്കുകയോ പകർത്തുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ, ടൊണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുൻകൂർ രേഖാമുളമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പുതിയ സംഭരണ ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവയിലേക്ക് പകർത്താനോ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ [ഫോട്ടോകോപ്പി, റേക്കോർഡിംഗ്, ടെയ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടുകൾ] സംബന്ധിച്ച് ഉൾപ്പെടയുള്ള ശാമ്പിക്, ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ] പരത്താനോ പാടില്ല.

## ಬಡ್ಡ ದರ ಮಾದರಿ

L&T ಫ್ಯಾನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹಿಂದೆ L&T ಫ್ಯಾನಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ('ಕಂಪನಿ')

## ವಿಷಯಗಳು

IX.	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.....	85
X.	ಉದ್ದೇಶ.....	85
XI.	ಅಪಾಯದ ದರ್ಜೆಯ ವಿಧಾನ .....	85
XII.	ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ.....	86
XIII.	ಸಮಾನವಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು (ಕೊಂಬ) ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಯಕ್ಕಿರುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆನ ಚರ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿ .....	91
XIV.	ಫೀಸುಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು .....	92
XV.	ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ .....	93
XVI.	ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಂಶಗಳು ಸಂಪರ್ಕ .....	93
<u>IX</u>	<u>ವಿಮರ್ಶ/ಪರಿಷ್ಕರಣ</u> .....	<u>93</u>

## I. ಮುನ್ಮಡಿ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಜನವರಿ 02, 2009 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 26, 2012 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್-ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಯುತ ಅಭಾವನ ತತ್ವಗಳ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾಸ್ಪರ್ ಡ್ಯೂರ್ಕ್ಸ್‌ನ - ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್-ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ - ಸ್ಟೇಲ್ ಆಥಾರಿಟಿ ನಿಬಂಧನೆ) ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, 2023 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2023 ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ:

- ನಿರ್ದಿಯ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರ್ಚ್‌ನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆಕಾದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು.
- ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಅಪಾಯದ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.
- ಕಂಪನಿಗಳ ವೆಚ್ಚಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು.

## II. ಉದ್ದೇಶ

ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿರುವ ಮಾನದಂಡದ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ ಅಂತಿಮ ದರಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಚಾರ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು

## III. ಅಪಾಯದ ದರ್ಜೆಯ ವಿಧಾನ

ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಖಾರ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಹಾರಗಳು (ಆಯಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ) ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

- ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಅಪಾಯ (ಸ್ಪ್ರೆಡ್ vs ಪ್ಲೇಟ್‌ಫೋರ್ಮ ಸಾಲ)
- ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಅಪಾಯ
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲೋರ್‌ಕಾಡ್‌ನ ಜೊಟ್‌ಪ್ರೆಟ್
- ಒಂದೇ ತರಹದ ಏಕರೂಪದ ಗ್ರಾಹಕರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
- ಸಾಲಗಾರರ ವಿವರ
- ಉದ್ದೇಶದ ವಿಭಾಗ

- ಸಾಲಗಾರರ ಮರುಪಾವತಿಯ ಟಾಕ್‌ಸ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್
- ಮೇಲಾಧಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣ
- ಸುರಕ್ಷಿತ Vs ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲ
- ಲಭ್ಯಲಿರುವ ಸಹಾಯಧನ
- ಸಾಲದ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾತ್ರ
- ಬ್ಯಾರೋ ಸ್ನೋರ್
- ಸಾಲದ ಅವಧಿ
- ಸ್ಟೋದ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
- ಗ್ರಾಹಕರ ಖೂಣಭಾರ (ಇತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಳು)
- ಸ್ವಧೀ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳೀಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಬೆಲೆ

ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಟೆನರ್‌ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪರಿಗಣನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಮಾಸಿಕ, ದ್ವೈಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರೆ-ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

#### IV. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆ

ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಪಾಯ, ಟೆನರ್ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಮುಖತೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫಂಡ್-ಆಧಾರಿತ ಒದ್ದುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಫಂಡ್‌ಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರ್ಜಿನ್, ಅಪಾಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಿರ ಅಥವಾ ಪ್ಲೌಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರ್ದಾರವು, ನೀಡಲಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ಪರ್ಧಾಪ್ರಯೋಧ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಫಂಡ್‌ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳು, ಕ್ಲೇಂಟ್‌ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಕಂತುಗಳ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಂಡ್‌ಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಅಪಾಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮಾರ್ಜಿನ್, ಕೆಡಿಟ್ ನಿಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ-ತೆರಿಗೆ ROA ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅಂಶ	ವಿವರಣೆ
1.	ಘಂಡಾಗಳು ವೆಚ್ಚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಅಹ್ನ ಸ್ವೀಕಾರಾಹ್ನಗಳ ವಿರುದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗೃಹಿಸುತ್ತದೆ.</li> <li>ಸ್ವೀರ/ಪ್ರೇಲ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದರ, ಅವಧಿ, ಮರುವಾವತಿ ಆವರ್ತನ, ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇತ್ತಾದಿಗಳಿಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ಪರ್ಧಾಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಘಂಡಾನ ವೆಚ್ಚವು ಬಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</li> <li>ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೆಲವು ಈಕ್ಷಿಟಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಈಕ್ಷಿಟಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</li> <li>ಕಂಪನಿಯು ಲಿಕ್ಷಿಡಿಟಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಲಿಕ್ಷಿಡಿಟಿ ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಷಿಡ್ ಘಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರಿಆನ್ ಅನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</li> </ul>
2.	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ	ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ತಂಡಗಳು/ಡಿಲಾಸ್‌ಎ ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದರ ಸ್ವಂತ ತಂಡಗಳು/ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಳು ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹೇ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ರೋಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹಳೆಸುತ್ತದೆ.
3.	ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳು	ಕಂಪನಿಯು 22 ರಾಜ್ಯಗಳು, 2 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಾಖೆಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು/ಸಂಗ್ರಹ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞನಿದಿಲ್ಲಿ ವಾಯವೆಕೆವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಯಾರದ ಸೋಸೆಂಟಿಗಾಗಾಗಿ ತಂಡಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಷಣಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

4.	<b>ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಂ</b>	ತಂತ್ರಜ್ಞನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುವ ಆನ್-ಗ್ರೋಡ್ ಸಂಗ್ರಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಉದ್ಯಮ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೇಕೋ ಸಾಲಗಳಿಂತಹ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೋಟು ಅವಾನ್ಯೋಕರಣ, ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಕೋಲಿಡ್ 2019 ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂತಹ ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ ಅವಾಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಈವೆಂಟ್ ಅವಾಯದ ಪ್ರೀವಿಯಂ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5.	<b>ಪ್ರೋವೆ-ತೆರಿಗೆ ಆರ್ ಓ ಎ</b>	ಸ್ಪ್ರೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆನ ಮೂಲ ಆದಾಯವು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ.

#### i. ಸಗಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ:

ಚರ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು L&T ಫ್ರೆನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ("ಕಂಪನಿ") ಹೆಲ್ಪೋಆರ್ \*, ಬ್ಲಾಕ್‌ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಲೆಲ್ ಅಥವಾ ಜಿಇಎಸ್‌ಕ್ಯಾರ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಎಂಬಬಿಬಾರ್ ಅಥವಾ ಲೀಡ್ ಸಾಲದಾತರ ಮೂಲ ದರ / ಎಂಸಿಎಲ್‌ಆರ್ (ಒಕ್ಕೂಟ ಸಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೂಕ್ತ ಮಾನದಂಡ (ಉದಾ. ಎಸ್‌ಎ ಮೂಲ ದರ / ಎಂಸಿಎಲ್‌ಆರ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ, ಮೇಲೆ ಚಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಅವಾಯದ ದರ್ಜೆಯ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ/ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಿಟನ್ ಆನ್ ಈಶ್ವರ್, ಶೇರ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌ರ್ ವ್ಯಾಲೂ ಆಡೆಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಲು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಬೆಲೆಯು ಕ್ಲೋಂಟ್‌ನೊಂದಿಗನ ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಕೆತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಪಾರ್ಥಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪೋಆರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹಾಳೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

#### ii. ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ:

ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್‌ಫರ್ಮ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ರ್ಯಾತ್ ಹಣಕಾಸು, ಗ್ರಾಹಿಣ ವ್ಯವಹಾರ ಹಣಕಾಸು, ಗೋದಾಮು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಹಣಕಾಸು, ದ್ವಿಚಕ್ಕ ವಾಹನ ಹಣಕಾಸು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಸಾಲಗಳು, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು

ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ SME ಸಾಲಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಉತ್ಪನ್ನ	ನೀಡುವುದು	<sup>1</sup> ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ <sup>3</sup> ವಾಟಿಕ ಬದ್ಲಿ ದರ
1.	ರ್ಯಾತ್ ಹಣಕಾಸು	<p>ಎ) ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಟ್ರಾಕ್ಸ್‌ರ್‌ಗ್ರಾಫ್‌, ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.</p> <p>ಇ) ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕೃಷಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಖರೀದಿಗೆ ರ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ</p> <p>ಈ) ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ-ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ</p>	ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ರಿಂದ 19%.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉತ್ಪನ್ನ	ನೀಡುವುದು	<sup>1</sup> ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದ್ದಿಷ್ಟ ಬದ್ದು ದರ
2.	ಗೋದಾಮಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಹಣಕಾಸು	ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈತರ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾವದ್ದಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಾಲಿನ ಖಮುವಿನಲ್ಲಿ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡೆಮೆ ಇರುವಾಗ, ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಟುಹಾಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಸ್ವಧಾರತ್ತುಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಷಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಂಗೃಹಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾರಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8% ರಿಂದ 15%.
3.	ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಣಕಾಸು	ಗ್ರಾಹಕರು ಅವನ/ಅವಳ ಆದಾಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಮನವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಿಸಲು ಬಳಸುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.	ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.5% ರಿಂದ 22%.
4.	ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುಂಪು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಶಿರುಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಗಳು	a) ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಜೀಲ್‌ಎಜ್‌ಬಿ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ಗುಂಪು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು b) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ದ್ವರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ	ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16% ರಿಂದ 23.50%.
5.	ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಸೊಳ್ಳು ಸಾಲ	ಎ) ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ದ ಸೊಳ್ಳು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಿ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ದ್ವರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ	ವರ್ಷಕ್ಕೆ 14% ರಿಂದ 22%.

6.	ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ	ಗಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಬಳಕೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಅಂತಿಮ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರಬಹುದು.	ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11% ರಿಂದ 24%.
7.	ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು	ಮನಗಳ ಖರೀದಿ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಇತರ ಬ್ರಾಂಕ್ಸ್‌ಗಳು/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಾಕಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ದುಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.	ಚರ ಬಡ್ಡ ದರವನ್ನು L&T ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಹೆಚ್‌ಎಲ್ ಪಿಲಾಪಾರ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.  <u>ಅ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡ ದರ:</u> ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11.5% ರಿಂದ 12.25%.
8.	ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆನ ಸಾಲ	ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಸತಿ (ಸ್ವಯಂ ವಾಸ, ಭಾಡಿಗೆ, ಖಾಲಿ) ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಡಮಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.	ಚರ ಬಡ್ಡದರವನ್ನು L&T ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಲ್ ಪಿಲಾಪಾರ್ <sup>2</sup> ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.  <u>ಅ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡ ದರ:</u> ಖಾರ್ಫೆಕ್ 12.5% ರಿಂದ 13.25% ಸೂಚನೆ: ದಯವಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ#
9.	ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಸ್‌ ಎಂ ಇ ಸಾಲ	ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಧ್ಯಮಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ	ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11%ರಿಂದ 23%.

10.	ಪೂರ್ವಕ ಸರಪಳಿ ಹಣಕಾಸು	ಕಾರ್ಪೊಲೋಟ್ ಆಂಕರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪಾರದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಲ್ಲಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ	<u>ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8% ರಿಂದ 26%.</u>
-----	---------------------	--	------------------------------

- @ ಈ ಪಾಲೀಸಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೋಟೆಂಗ್ ಬಡ್ಡ ದರವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
- # ಸಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡದರವನ್ನು ಅದರ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರ್ಕಡಿಸಬಹುದು (ಜೇರ ದರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನದಂಡ ದರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ).

#### \*ಸೂಚನೆ:

1. ಬಡ್ಡ ದರದ ಶ್ರೇಣಿಯು ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ದರವು ಅಪಾಯದ ದಜ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸೂಚಕ ಬಡ್ಡ ದರವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚೆಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
3. ಪೂರ್ವ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಫ್ಟ್‌ನೇವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡದರವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಮಾನದಂಡದ ದರ, ಟಿ-ಬಿಲ್‌ಗಳು, ರೆಪೋ ದರ, ಎಂಸಿಎಲ್‌ಆರ್ / ಡೊಡ್ಡ ಬಾಂಕಾಗಳು / ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನದಂಡ ದರಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ವಾಟಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿರದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬಡ್ಡದರದ ಚಲನೆಯು ಆಯಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾಹ್ಯ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ
4. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕೆಡೆ) ಸರಿಯಾದ ಮಾತ್ರಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಡೆಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಿಯತಾಂಕಗಳು.

#### V. ಸಮಾನವಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ (ಈಂಬ) ಆಧಾರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೋಟೆಂಗ್ ಬಡ್ಡ ದರವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿ

ಆರ್ ಬಿ ಇ ಅದರ ಸುತ್ತೋಲೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಓ ಆರ್. ಎಂ ಸಿ ಎಸ್. ಆರ್ ಇ ಸಿ.32/01.01.003/2023-24 ದಿನಾಂಕದ ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2023 ("ಆರ್ ಬಿ ಇ ಸುತ್ತೋಲೇ") ಪ್ರಕಾರ ಈಂಬ ಆಧಾರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೆಂಗ್ ಬಡ್ಡದರವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಈಂಬ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೆಂಗ್ ದರದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಿತ ಫೆಟ್‌ಕಗಳು ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಜನವರಿ 04, 2018 ದಿನಾಂಕದ " ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್. ರಿಟ್‌ನ್‌ - ಬಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆ" ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಇ ಸುತ್ತೋಲೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಬಿ ಆರ್. ನಂ. ಬಿ ಹಿ. ಬಿ

ಸಿ.99/08.13.100/2017-18 ರಲ್ಲಿ ವಾಯವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು

31, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರೋಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ.

ಈಎಂಬ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲೌಟಿಂಗ್ ದರದ ವ್ಯಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಮಾನದಂಡದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೆನ್ಯಾವೇಶದಲ್ಲಿ, ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಈಎಂಬ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಡ್‌ರೋಮ್ / ಮಾರ್ಚ್‌ನ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಎಂಬ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲೌಟಿಂಗ್ ದರದ ವ್ಯಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ:

1. ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈಎಂಬ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಲದ ಮೇಲೆನ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ತರುವಾಯ, ಮೇಲೆನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಎಂಬ/ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೌಟಿಂಗ್ ದರದಿಂದ ಸ್ವಿರ ದರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ದುಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿರದಿಂದ ಪ್ಲೌಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೌಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಿರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
3. ಸಾಲಗಾರರು (a) (i) ಈಎಂಬ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ (ii) ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಥವಾ (iii) ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವ; ಮತ್ತು, (b) ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವವಾವತಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ದುಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
4. ಪ್ಲೌಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಿರ ದರಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲೆನ ಆಯ್ದುಗಳ ಅನುಷಾಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳು/ವೆಚ್ಚಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು.
5. ಪ್ಲೌಟಿಂಗ್ ದರದ ಸಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಖೂಣಾತ್ಮಕ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
6. ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಾನಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ / ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ, EMI ಮೌತ್ತ, ಉಳಿದಿರುವ EMI ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಾಷ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿದರ / ಸಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ವಾಷ್ಟೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ (APR) ವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ.

7. ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಸಾಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾನ ಕಂತು ಆಧಾರಿತ ಸಾಲಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
8. ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯಲಿರುವ ಆಯ್ದುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

## VI. ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು

ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಾಂಪ್ಯ ಡೋಟೆ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ / GST ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗೃಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಅಗತ್ಯಲಿರುವಲ್ಲಿ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

## VII. ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ

ಆಯಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕರು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ / ಕೆಳಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾದರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

## VIII. ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಂಶಗಳ ಸಂವಹನ

ಸ್ವೀಕಾರಾಹಂ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ / ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಕಂಪನಿಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡ ದರವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೀಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡ ದರದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು (ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಾಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡದ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಾಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

#### IX. ಪಾಲಿಸಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ/ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು, ಸುತ್ತೂರ್ಲೇಗಳು, ಮಾಸ್ಕ್ರೂ ಸುತ್ತೂರ್ಲೇಗಳು / ನಿದೇಶನಗಳ ನಡುವೆ ವಾಖ್ಯಾನ / ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದರೆ ("ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು"), ಆಗ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ವಾಖ್ಯಾನವು ಮೇಲುಗೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುವಡಿ(ಗಳು) ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ(ಗಳು) ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಡಿಸಿದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನೀತಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿದ್ದುವಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಂಟ್	ಆಯಾ ಜಿಇಸಿ ಗಳು
---------------	---------------

## ಆವೃತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಆವೃತ್ತಿ	ದಿನಾಂಕ	ಲೇಖಕ	ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿವರ
1.0	ನವೆಂಬರ್ 2023	ಆಯಾ ಜಿಇಸಿ ಗಳು	ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ
2.0	ಜನವರಿ 2024	ಆಯಾ ಜಿಇಸಿ ಗಳು	ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು
3.0	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024	ಆಯಾ ಜಿಇಸಿ ಗಳು	ವಾಷಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆ- ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ
4.0	ಜನವರಿ 2025	ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ	ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಖಾತ್ರಪ್ರಯೋಜನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಟೀಪ್‌ಎಂ‌ಎಂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಡಾಕ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಖಚಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ  
ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು  
ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ವಾದಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ನಕಲು ಮಾಡಬಾರದು, ಪ್ರಸಾರ  
ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ [ಗ್ರಾಫಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್,  
ಫೋಟೋಕಾಫಿ ಮಾಡುವುದು, ರೆಕಾಡಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ  
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ] ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟ್, ಟೆಲ್‌, ಪರ್ಸನಲೇಟ್‌ ಮಾರ್ಫ್‌ಮು ಅಥವಾ ಇತರ  
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ವಾದಿಸಬಾರದು.

## ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਾਡਲ

L&T ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪਹਿਲਾਂ L&T ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)  
(ਕੰਪਨੀ)

## ਸਮੱਗਰੀ

I.	ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ.....	97
II.	ਉਦੇਸ਼ .....	97
III.	ਜੋਖਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ .....	97
IV.	ਕੀਮਤ .....	98
V.	ਸਮਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸਤਾਂ (ਈਐਮਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਲੇਨ 'ਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ..	101
VI.	ਛੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ .....	102
VII.	ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ .....	103
VIII.	ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ .....	103
IX.	<u>ਸਮੀਖਿਆ/ਸੋਧ.....</u>	<u>103</u>

## I. ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦਾ ਮਿਤੀ 02 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 26 ਮਾਰਚ, 2012 ਦਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੇਕਸ਼ਨ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਕੰਪਨੀ-ਸਕੇਲ ਅਧਾਰਤ ਰੈਗਲੀਊਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਰਦੇਸ਼, 2023 ਮਿਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

- ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੌਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ।

## II. ਉਦੇਸ਼

ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਚਮਾਰਕ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪ੍ਰੈਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ।

## III. ਜੋਖਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ:

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਪ੍ਰੈਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

- ਵਿਆਜ ਦਰ ਜੋਖਮ (ਸਥਿਰ ਬਨਾਮ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲੋਨ)
- ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਫੋਲਟ ਜੋਖਮ
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੇਰਕਾਰਡ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ
- ਸਮਾਨ ਸਮਰੂਪ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
- ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਫਾਈਲ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੰਡ
- ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ
- ਕੋਲੇਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ
- ਸਬਵੈਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
- ਲੋਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
- ਬਿਊਰੋ ਸਕੇਰ
- ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ
- ਸਥਾਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

- ਗਾਹਕ ਦਾ ਲੇਨ (ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਨ)
  - ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਭੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਮਾਸਿਕ, ਦੌ-ਮਾਸਿਕ, ਤਿਮਾਹੀ, ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

#### IV. ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਰਜਿਨ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲੇਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਲੇਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੇਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਾਰਜਿਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਕਸ ROA ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੜੀ ਨੰਬਰ	ਕਾਰਕ	ਵੇਰਵਾ
1.	ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।</li> <li>• ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਕਸਡ/ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ, ਟੈਨਰ, ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਲੇਨ ਲਾਭ ਆਦਿ।</li> <li>• ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।</li> <li>• ਕੰਪਨੀ ਤਰਲਤਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਲਤਾ ਬਦਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੈਰੀਓਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।</li> </ul>
2.	ਉਪਰੋਕਟਿੰਗ ਲਾਗਤ	ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਟੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮਾਂ/ ਡੀਐਸਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ/ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਢੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

3.	ਮਾਰਜਿਨ	ਕੰਪਨੀ 22 ਰਾਜਾਂ, 2 ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4.	ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ	ਕੰਪਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਆਨ-ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਬੈਂਦੀ, ਹੜ੍ਹ, ਕੋਵਿਡ 2019 ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾ ਜੋਖਮ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5.	ਪ੍ਰੀ-ਟੈਕਸ ਆਰ.ਓ.ਏ.	ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਪਸੀ ਹੈ।

i. ਬੇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ:

ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ L&T ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ("ਕੰਪਨੀ") ਪੀਐਲਆਰ\*, ਬਲੂਮਬਰਗ ਏਏਏ ਜਾਂ ਜੀਓਆਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਐਮਆਈਬੀਓਇਆਰ ਜਾਂ ਲੀਡ ਰਿਟਾਈਵ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦਰ/ਐਮਸੀਐਲਆਰ (ਸੰਸਥਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਸਬੀਆਈ ਬੇਸ ਰੇਟ/ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਆਦਿ) ਸਮੇਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਖਮ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਸੇਅਰਹੋਲਡਰ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਂਡਿਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਆਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ii. ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਲਈ:

ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਰੂਰਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਟੂ-ਵੀਲਰ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਸ.ਐਮ.ਏ. ਲੋਨ ਨਾਮਕ ਰਿਟੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੜੀ ਨੰ.	ਉਤਪਾਦ	ਓਕ੍ਰਿੰਗ	ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ <sup>1</sup> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ <sup>2</sup>
1.	ਕਿਸਾਨ ਫਾਈਨਾਂਸ	ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ a) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਜ ਦੀ ਫੇਆ-ਛੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ t) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ u) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ-ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ-ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ	10 % ਤੋਂ 19 % ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
2.	ਵੇਅਰਚਾਊਸ ਰਸੀਦ ਵਿੱਤ	ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਥੇਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 8 % ਤੋਂ 15 % ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣੈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।	8 % ਤੋਂ 15 % ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
3.	ਦੇ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਫਾਈਨਾਂਸ	ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।	8.5 % ਤੋਂ 22 % ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
4.	ਪੇਂਡੂ ਸਮੂਹ (ਗਰੁੱਪ) ਲੋਨ ਅਤੇ ਲਘੂ-ਵਿੱਤ (ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ) ਲੋਨ	ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ a) ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖੈਲਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਟਿਕਟ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ। b) ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ	16 % ਤੋਂ 23.50 % ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
5.	ਸੰਪੱਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ (ਲਘੂ) ਲੋਨ	ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ a) ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੋਨ ਅਤੇ b) ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ	14 % ਤੋਂ 22 % ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
6.	ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ	ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਗਾਹਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਗਾਹਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।	11 % ਤੋਂ 24 % ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।

7.	ਹੋਮ ਲੋਨ	ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਉਸਾਰੀ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ/ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।	ਵਿਆਜ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਨੂੰ L&T ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ - ਐਚਐਲ ਪੀਐਲਆਰ <sup>2</sup> ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। @ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਥਿਰ ਦਰ: 11.5% ਤੋਂ 12.25% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ। ਨੋਟ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ # ਵੇਖੋ
8.	ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਲੋਨ	ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ, ਖਾਲੀ) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।	ਵਿਆਜ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਨੂੰ L&T ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ - ਐਲਏਪੀ ਪੀਐਲਆਰ <sup>2</sup> ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। @ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਥਿਰ ਦਰ: 12.5% ਤੋਂ 13.25% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ। ਨੋਟ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ # ਵੇਖੋ
9.	ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ SME ਲੋਨ	ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।	11 % ਤੋਂ 23 % ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
10.	ਵਸਤੂ ਆਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤ	ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜ ਲਈ ਢੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।	8% ਤੋਂ 26% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।

@ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ।

# ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ (ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਲੋਨਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

#### \*ਨੋਟ:

1. ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਦਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੀਐਲਆਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਂਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
3. ਪੂਲ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਜਿਵੇਂ, ਟੀ-ਬਿਲ, ਰੈਪੇ ਦਰ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ / ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਸੀਐਲਆਰ/ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪੱਤੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲਿੰਕਡ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਗੱਲਬਾਤ (ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

#### V. ਸਮਾਨ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਈਐਮਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ 'ਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਡੀਓਆਰ.ਐਮਸੀਐਸ.ਆਰਈਸੀ.32/01.01.003/2023-24 ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ,

2023 ("ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕੂਲਰ") ਦੁਆਰਾ ਈਐਮਆਈ ਅਧਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ 'ਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ ਅਧਾਰਤ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। "ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 04 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਦੇ "ਐਕਸਬੀਆਰਐਲ ਰਿਟਰਨ - ਬੈਕਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ" ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਡੀਬੀਆਰ ਨੰ. ਬੀਪੀ.ਬੀਸੀ.99/08.13.100/2017-18 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੋਨ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਈਐਮਆਈ ਅਧਾਰਤ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਬੈਚਮਾਰਕ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈਂਡਰੂਮ/ਮਾਰਜਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਈਐਮਆਈ ਅਧਾਰਤ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

1. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਲੋਨ 'ਤੇ ਬੈਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਐਮਆਈ/ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਉਚਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਸਡ ਤੋਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ (a) (i) ਈਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ (ii) ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ (iii) ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ; ਅਤੇ, (b) ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਲੋਨ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ/ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਮੇਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
6. ਕੰਪਨੀ ਹੋਰੇਕ ਤਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਉਚਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਅਰ/ਪਰੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਮੂਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਿਆਜ, ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਰਕਮ, ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਈਐਮਆਈ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ/ ਲੋਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ (ਏਪੀਆਰ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇਗੀ।
7. ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
8. ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਚਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਤੇਜੇਰੀ।

## VI. ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ

ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ,

ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ਼ / ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈੱਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

#### VII. ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ

ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੀਮਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ/ਹੇਠਾਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

#### VIII. ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ

ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੇਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ / ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਵੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਚਮਾਰਕ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

#### IX. ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ/ਸੋਧ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ("ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ") ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਸਰਕੂਲਰ, ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਖਿਆ/ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ(ਧਾਰਾ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ(ਧਾਰਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਸਬੰਧਤ ਜੀਈਸੀ

### ਸੰਸਕਰਣ ਕੰਟਰੋਲ

ਸੰਸਕਰਣ	ਮਿਤੀ	ਲੇਖਕ	ਵੇਰਵੇ ਬਦਲੇ
1.0	ਨਵੰਬਰ 2023	ਸਬੰਧਤ ਜੀਈਸੀ	ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ
2.0	ਜਨਵਰੀ 2024	ਸਬੰਧਤ ਜੀਈਸੀ	ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਵਾਧਾ
3.0	ਅਕਤੂਬਰ 2024	ਸਬੰਧਤ ਜੀਈਸੀ	ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
4.0	ਜਨਵਰੀ 2025	ਬੋਰਡ	ਸੰਪੱਤੀ ਕੀਮਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ [ਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਟੇਪਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ] ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਕ, ਟੇਪ, ਪਰਫੋਰੇਟਿਡ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

## வட்டி விகிதம் மாதிரி

L&T ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (முன்பு L&T ஃபைனான்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் என அறியப்பட்டது) (கம்பெனி)

## உள்ளடக்கங்கள்

I.	முன்னுரை .....	107
II.	குறிக்கோள் .....	107
III.	ஆபத்தை தரப்படுத்துவதற்கான அனுகுமுறை .....	107
IV.	விலை நிர்ணயம் .....	108
V.	சமப்படுத்திய மாதாந்திர தவணைகள் (என்மஜி) அடிப்படையிலான தனிநபர் கடன்களில் மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தை மீட்டமைத்தல் .....	110
VI.	சேவைக்கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் .....	114
VII.	பாலிசியின் உரிமை உடைமை .....	116
VIII.	பாலிசியின் அம்சங்கள் பற்றிய தகவல்தொடர்பு.....	116
IX.	<u>மதிப்பாய்வு/கிருத்தம் .....</u>	<u>117</u>

## I. முன்னுரை

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஜி) ஜெவரி 02, 2009 தேதியிட்ட அறிவிப்பு மற்றும் மார்ச் 26, 2012 தேதியிட்ட வங்கி சாராத நிதி நிறுவனங்களுக்கான நியாயமான நடைமுறைக் குறியீடு குறித்த வழிகாட்டுதல்கள், அவை இப்போது முதன்மை வழிகாட்டுதலாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் ரிசர்வ் வங்கியின் (வங்கி சாராத நிதி நிறுவனங்கள் - அளவு அடிப்படையில் கட்டுப்பாடுகள்) 2023 ஆம் ஆண்டின் வழிகாட்டுதலாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் அவை அக்டோபர் 19, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும் அவ்வப்போது அவற்றில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும், அனைத்து என்பிஎஸ்பசி-களுக்கும் பின்வருமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது:

- நிதிச் செலவு, மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க், பிரீமியம் போன்ற தொடர்புடைய காரணிகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்களுக்கு வசூலிக்கப்படும் வட்டி விகிதத்தை நிர்ணயம் செய்து, போர்டினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வட்டி விகித மாதிரியை அமைக்கவும்
- பல்வேறு வகையான கடன் வாங்குபவர்களிடம் வெவ்வேறு வட்டி விகிதங்களை வசூலிப்பதற்கான ஆபத்து மற்றும் பகுத்தறிவுக்கான அனுகுமுறையுடன் வட்டி விகிதத்தை கடன் வாங்குபவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.
- நிறுவனங்களின் இணையதளத்தில் வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் ஆபத்துகளின் தரவரிசைக்கான அனுகுமுறையை கிடைக்கச் செய்யுங்கள்.

## II. குறிக்கோள்

வெவ்வேறு வகை வாடிக்கையாளர் பிரிவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பெஞ்சமார்க் விகிதங்களை வரையறுப்பதற்கும், வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் இறுதிக் கட்டணங்களுக்கு வருவதற்கான சார்ஜிங் ஸ்பரெட்களின் கொள்கைகள் மற்றும் அனுகுமுறையை முடிவு செய்வதற்கும்

## III. ஆபத்தை வகைப்படுத்துவதற்கான அனுகுமுறை

பல்வேறு வணிகப் பிரிவுகளுக்கான கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள பல்வேறு திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் தொடர்புடைய வணிகப் பிரிவின் ஸ்பரெட்டிற்குச் சரிசெய்த பிறகு கணக்கிடப்படும்.

ஸ்பரெட்களைக் கணக்கிடுவதற்கு வணிகங்களால் (அந்தந்த வணிகத்திற்குப் பொருந்தும்) கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் காரணிகள் பின்வருமாறு:

- வட்டி விகித ஆபத்து (நிலையான மற்றும் மிதக்கும் கடன்)
- தொடர்புடைய வணிக பிரிவில் கடன் மற்றும் இயல்புநிலை ஆபத்து
- விண்ணப்ப மதிப்பெண் அட்டையின் வெளியீடு
- ஒத்த ஓரேவிதமான வாடிக்கையாளர்களின் வரலாற்று செயல்திறன்
- கடன் வாங்கியவரின் சுயவிவரம்
- தொழில் பிரிவு
- கடன் வாங்கியவரின் திருப்பிச் செலுத்தும் பதிவு

- இணை பாதுகாப்பின் தன்மை மற்றும் மதிப்பு
- அடமானம் மற்றும் அடமானம் இல்லாத கடன்
- மானியம் கிடைக்கும்
- கடனுக்கான டிக்கெட் அளவு
- பீரோ மதிப்பெண்
- கடன் காலவரையறை
- இருப்பிடக் குற்றம் மற்றும் சேகரிப்பு செயல்திறன்
- வாடிக்கையாளர் கடன் (தற்போதுள்ள மற்ற கடன்கள்)
- போட்டியாளர்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய காரணிகளால் வழங்கப்படும் விலை நிர்ணயம்

வெவ்வேறு வாடிக்கையாளர்களால் ஒரே காலத்தில் பெறப்பட்ட ஒரே தயாரிப்பு மற்றும் தவணைக்காலத்திற்கான வட்டி விகிதம் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டியதில்லை. மேலே உள்ள காரணிகளின் கலவை அல்லது அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு வெவ்வேறு வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது மாறுபடலாம்.

வட்டி விகிதமானது மாதாந்திர, மாதமிருமுறை, காலாண்டு, அரையாண்டு அல்லது வருடாந்திர கூட்டுத்தொகையுடன் வருடாந்திர விகிதங்களாக இருக்கும்.

#### I. விலை நிர்ணயம்

விலை நிர்ணயம் என்பது ஆபத்து, தவணைக்காலம் மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள சந்தைப் போக்கு ஆகியவற்றின் செயல்பாடாகும். நிதி அடிப்படையிலான வெளிப்பாட்டைப் பொறுத்தவரை, விலை நிர்ணயம் இரண்டு கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது, பெஞ்சமார்க் மற்றும் ஸ்ப்ரெட். பெஞ்சமார்க் மற்றும் ஸ்ப்ரெட் ஆனது நிதிகளின் விலை, மார்ஜின், ஆபத்து பிரீமியம் போன்றவற்றின் செயல்பாடாகும்.

நிலையான அல்லது மிதக்கும் வட்டி விகிதக் கடனை வழங்குவதற்கான நிறுவனத்தின் முடிவு, வழங்கப்படும் பொருளின் தன்மை, சந்தை நிலைமைகள், நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் நிதி விதிமுறைகள், வாடிக்கையாளர் தேவை போன்றவற்றைப் பொறுத்து இருக்கும்.

நிறுவனம் கடன் வாங்குபவருக்கு, கடன் தொகை மற்றும் வட்டி விகிதம் ஆகியவற்றை கடன் வழங்க அனுமதியளிக்கும் போது, தவணையின் காலம் மற்றும் தவணை தொகையுடன் தெரிவிக்கிறது.

இந்த ஒவ்வொரு தயாரிப்புக்கான விலையானது, நிதிகளின் விலை, ஆபத்து பிரீமியம், பிற இயக்கச் செலவுகள், மார்ஜின், கடன் இழப்புகள் மற்றும் வரிக்கு முந்தைய ஆர்ஷீ ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.

வரி ணை எண்	காரணி	விளக்கம்
1.	நிதி செலவு	<ul style="list-style-type: none"> <li>பெறத்தக்க கூட்டுத் தொகையிலிருந்து அதன் குறிப்பிடப்பட்ட மற்றும்/அல்லது குறிப்பிடப்படாத இறுதிப் பயன்பாட்டை பொறுத்து நிறுவனம் அதன் கடனளிப்பவர்களிடமிருந்து நிதி திரட்டுகிறது.</li> <li>நிலையான/மிதக்கும் விகிதம், தவணைக்காலம், திருப்பிச் செலுத்தும் இடைவெளி, முன்னுரிமை கடன் சலுகைகள் போன்ற தயாரிப்புகளின் தன்மையைப் பொறுத்து நிறுவனம் வழங்கும் பல்வேறு தயாரிப்புகளுக்கான நிதியின் விலை மாறுபடும்.</li> <li>வணிகத்தை நடத்துவதற்கு நிறுவனம் சில ஈக்விட்டி பகுதியையும் வைக்க வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய ஈக்விட்டியின் விலை கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறது.</li> <li>நிறுவனம் பணப்புழக்க அபாயத்தை நிர்வகிக்க திரவ நிதிகளில் முதலீடுகளின் வடிவத்தில் சில பணப்புழக்க இடையகத்தை வைத்திருக்கிறது மற்றும் அந்த முதலீடுகளிலும் எதிர்மறையான சுமையைச் சுமக்க வேண்டும்.</li> </ul>
2.	இயக்க செலவு	நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் சில்லறை தயாரிப்புகள் உள்ள குழுக்கள்/டிஎஸ்எகளால் பெறப்படுகின்றன மற்றும் வசூல்கள் அதன் சொந்த குழுக்கள்/வசூல் முகவர்கள் மூலமாகவும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அதன்படி, நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்கள் மற்றும் வசூல் முகவர்கள் மூலம் செயல்படுகிறது, இது இயக்கச் செலவுகளை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
3.	மார்ஜின்கள்	நிறுவனம் 22 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்களில் தன் சொந்த ஊழியர்கள்/வசூல் முகவர்களைக் கொண்ட அதன் பெரிய கிளை நெட்டவொர்க் மூலம் செயல்படுகிறது. நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன் சேவையை மேம்படுத்துவதற்காக தொழில்நுட்பத்தில் பரவலாக முதலீடு செய்துள்ளது. வணிகத்தின் ஆதாரத்திற்கான தொழில்நுட்பம் மற்றும் பகுப்பாய்வுகளால் குழுக்கள் நன்கு ஆதரிக்கப்படுகின்றன. எனவே மார்ஜின்கள் அதன்படி கணக்கிடப்படுகின்றன.
4.	ஆபத்து பிரீமியம்	தொழில்நுட்பம் மற்றும் பகுப்பாய்வினால் ஆதரிக்கப்படும் செயலிலுள்ள வசூல் குழுக்கள் முதலீடுகள் மூலம், தொழில்துறை அளவிலான வசூலுக்கு இணையாக நிறுவனம் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், மைக்ரோ கடன்கள் போன்ற சில தயாரிப்புகள் பணமதிப்பிழப்பு, வெள்ளம், கோவிட் 2019 போன்ற சில நிகழ்வு அபாயங்களுக்கு ஆளாகலாம். அத்தகைய நிகழ்வு அபாயத்திற்கான பிரீமியம் ஒவ்வொரு பொருளின் விலையிலும் சேர்க்கப்படும்.

5.	<b>வரிக்கு முந்தைய ஆர்ஷன்</b>	சொத்துகளின் அடிப்படை வருமானம் என்பது நிறுவனம் தனது சொத்துக்களில் எதிர்பார்க்கும் குறைந்தபட்ச வருமானமாகும்.
----	---------------------------------------	--

### I. மொத்த வியாபார தயாரிப்புகளுக்கு:

மிதக்கும் வட்டி விகிதக் கடன்கள், L&T ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் பிளதூர்\*, ப்ரைம் பெர்க் AAA அல்லது ஜிஇஜ் செக்யூரிட்டிகள் அல்லது எம்ஜிபிஇஆர் அல்லது முன்னணி கடன் வழங்குபவரின் அடிப்படை விகிதம்/எம்சிஎல்ஆர்(கூட்டமைப்புக் கடன் வழங்கினால்) அல்லது வேறு ஏதேனும் நிதிச் செலவுகளை பரந்த அளவில் பிரதிபலிக்கும் வெளிப்படையான பொருத்தமான பெஞ்சமார்க் (உதாரணமாக, எஸ்பிஜ் அடிப்படை விகிதம்/எம்சிஎல்ஆர்போன்றவை) வரையறைகளுடன் இணைக்கப்படும்.

நிலையான வட்டி விகித பரிவர்த்தனைக்கு, மேலே விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து அனுகுமுறையின் தரத்திற்கு கூடுதலாக தற்போதைய வட்டி விகித சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் அனுமதி/விநியோகத்தின் போது ஒவ்வொரு நிகழ்வின் அடிப்படையில் வட்டி விகிதம் தீர்மானிக்கப்படும்.

ஈக்விட்டி மீதான வருமானம், சேர்க்கப்பட்ட பங்குதாரர் மதிப்பு போன்ற கருத்துகளும் விலையை நிர்ணயிப்பதில் பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் விலை நிர்ணயம் வாடிக்கையாளருடன் உரிய பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் மற்றும் நிறுவனத்தின் கடன் கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அங்கீகரிக்கும் அதிகாரியின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டது.

தற்போது பிளதூர் நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் கிடைக்கிறது, அதில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால், அது சொத்து பொறுப்பு மேலாண்மைக் குழுவின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டது.

### II. சில்லறை வியாபார கடன்களுக்கு:

எல்டிஃப் அதன் சில்லறை கடன் வாங்குபவர்களுக்கு உற்பத்தியின் தன்மையைப் பொறுத்து நிலையான மற்றும் மிதக்கும் வட்டி விகிதங்களில் பணத்தைக் கடனாக வழங்குகிறது. நிறுவனம் பின்வரும் சில்லறை தயாரிப்புகளான விவசாய நிதி, கிராமப்புற வணிக நிதி, கிடங்கு ரசீது நிதி, இரு சக்கர வாகன நிதி, நுகர்வோர் கடன்கள், வீட்டுக் கடன்கள் மற்றும் சொத்து மீதான கடன் மற்றும் அடமானமற்ற எஸ்எம் கடன்களை அதன் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு வழங்குகிறது.

வரி சை எண்.	தயாரிப்பு	வழங்குதல்	வருடாந்திர வட்டி விகிதம் <sup>1</sup> பொதுவாக எங்கள் வாடிக்கையாளரிடம் வசூலிக்கப்படுகிறது <sup>3</sup>
1.	விவசாய நிதி	a) விவசாய நிலங்களை உழைவதற்கும், வருமானம் ஈட்டுவதற்கு விளைபொருட்களை எடுத்துச் செல்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் டிராக்டர்கள், அறுவடை இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற விவசாய கருவிகளை வாங்குவதற்கு விவசாயிகளுக்கு கடன் v) பயிர் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் விவசாய பொருட்களை வாங்க விவசாயிகளுக்கு கடன் w) பயிர் உற்பத்தி மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கான செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவைகளுக்காக விவசாயிகளுக்கு கடன்	ஆண்டுக்கு 10% முதல் 19% வரை
2.	கிடங்கு ரசீது நிதி	விவசாயிகளுக்கு நெருக்கடியான விற்பனையைத் தவிர்க்கவும், அவர்களின் பயிர் விளைபொருட்களுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கவும் குறுகிய கால கடன்களை வழங்கிறது. அறுவடைக் காலத்தில், பொருட்களின் விலைகள் மிகக் குறைவாக இருக்கும் போது, விவசாயப் பொருட்களைப் போட்டி விலையில் வாங்குவதற்கு வணிகர்கள் மற்றும் செயலிகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டு, அதன் மூலம் அவர்களின் லாபத்தை	ஆண்டுக்கு 8 % முதல் 15 % வரை அதிகரிக்க முடியும்.
3.	இரு சக்கர வாகன நிதி	வாடிக்கையாளர் தனது வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கு அல்லது அதிகரிக்க பயன்படுத்தும் இரு சக்கர வாகனங்களை வாங்குவதற்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு	ஆண்டுக்கு 8.5 % முதல் 22 % வரை.

வரி சை எண்.	தயாரிப்பு	வழங்குதல்	வருடாந்திர வட்டி விகிதம் <sup>1</sup> பொதுவாக எங்கள் வாடிக்கையாளரிடம் வசூலிக்கப்படுகிறது <sup>3</sup>
		கடன்களை வழங்கவும்.	
4.	கிராமப்புறக் குழுக் கடன்கள் மற்றும் சிறு நிதிக் கடன்கள்	a) வருமானம் நட்டும் நடவடிக்கைகளுக்காக பெண் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு ஜெனல்ஜி கட்டமைப்பின் கீழ் சிறிய டிக்கெட் குழு கடன்களை வழங்குகிறது மற்றும் b) கிராமப்புறங்களில் உள்ள கடன் வாங்குபவர்களுக்கு கம்பெனி வழங்க முடிவு செய்யும் இது போன்ற பிற கடன்கள்	ஆண்டுக்கு 16 % முதல் 23.50 % வரை அதிகரிக்க முடியும்.
5.	சொத்து மீதான மைக்ரோ கடன்	a) சொத்து மீதான மைக்ரோ கடன் மற்றும் b) கிராமப்புறங்களில் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு கம்பெனி வழங்க முடிவு செய்யும் பிற கடன்கள் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது	ஆண்டுக்கு 14% முதல் 22% வரை
6.	தனிநபர் கடன்	வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் நுகர்வுத் தேவைகளுக்காக கடன்களை வழங்குகிறது. வாடிக்கையாளர் பலவேறு இறுதிப் பயன்பாடுகளுக்கு முதலீடு செய்யலாம். பயணம், நுகர்வோர் பொருட்கள் வாங்குதல், மருத்துவ கட்டணங்கள், கல்வி போன்றவற்றிற்கு. வாடிக்கையாளர் ஏற்கனவே உள்ளவராக அல்லது புதிய வாடிக்கையாளராக இருக்கலாம்.	ஆண்டுக்கு 11 % முதல் 24 % வரை.

வரி சை எண்.	தயாரிப்பு	வழங்குதல்	வந்டாந்திர வட்டி விகிதம் <sup>1</sup> பொதுவாக எங்கள் வாடிக்கையாளரிடம் வசூலிக்கப்படுகிறது <sup>3</sup>
7.	வீட்டுக் கடன்கள்	வாடிக்கையாளர்களுக்கு வீடுகளை வாங்க, கட்ட, மேம்படுத்த மற்றும் சீரமைக்க கடன்களை வழங்குகிறது. மற்ற வங்கிகள்/நிதி நிறுவனங்களில் ஏற்கனவே உள்ள வீட்டுக் கடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் நிலுவையில் உள்ள கடன் தொகையை எங்களிடம் மாற்றுவதற்கான விருப்பத்தையும் நிறுவனம் வழங்குகிறது.	மிதக்கும் வட்டி விகிதம் L&T ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் உடன் இணைக்கப்படும் - எச்எல் பிஎல் ஆர்2.  @ நிலையான வட்டி விகிதம்: ஆண்டுக்கு 11.5% முதல் 12.25% வரை குறிப்பு: தயவுசெய்து பார்க்கவும் #
8.	சொத்து மீதான கடன்	குடியிருப்பு (சுயமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட, வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட, காலியாக உள்ள) மற்றும் வணிக சொத்துக்களை அடமானம் வைத்து நிதி உதவி பெற வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன்களை வழங்குகிறது.	மிதக்கும் வட்டி விகிதம் L&T ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் உடன் இணைக்கப்படும் - எச்எல் பிஎல் ஆர்2.  @ நிலையான வட்டி விகிதம்: ஆண்டுக்கு 12.5% முதல் 13.25% வரை குறிப்பு: தயவுசெய்து பார்க்கவும் #
9.	அடமானமற்ற எஸ்எம்ஸ் கடன்	சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு பிரதானமாக அவர்களின் வணிகத் தேவைக்கு நிதியளிக்க கடன் வழங்குகிறது	ஆண்டுக்கு 11% முதல் 23% வரை
10.	சப்ளை செயின் ஃபைனான்ஸ்	கார்ப்பரேட் ஆங்கர்களுடன் தொடர்புடைய விற்பனையாளர்கள் மற்றும் டைர்க்களுக்கு அவர்களின் வணிகத் தேவைக்கு நிதியளிப்பதற்காக குறுகிய கால நிதி வசதியை வழங்குகிறது.	ஆண்டுக்கு 8% முதல் 26% வரை

@ இந்தக் கொள்கையின் விதிமுறைகளின்படி மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தை மீட்டமைக்கும் போது.

# கிரெடிட் சரிவு காரணமாக, தற்போதுள்ள ஏதேனும் கடன்களின் கட்டமைப்பை

உள்ளடக்கிய வட்டி விகிதம் மாற்றியமைக்கப்படலாம் (மிதக்கும் விகிதக் கடன்களுக்கான தொடர்புடைய பெஞ்சமார்க் விகிதத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தைப் பொருட்படுத்தாமல்)

#### \*குறிப்பு:

1. வட்டி விகித வரம்பு ஒரு குறிகாட்டியாகும் மற்றும் இறுதி விகிதம் ஆபத்து வரைமுறையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. L&T ஃபைனான்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் முழு விருப்பத்திற்கு உட்பட்டு, மேலே தெரிவிக்கப்பட்ட வட்டி விகிதம் எந்த நேரத்திலும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது.
2. நிறுவனத்தின் தற்போதைய பிள்ளைர் இணையதளத்தில் கிடைக்கிறது, அதில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால், அது சொத்து பொறுப்பு மேலாண்மைக் குழுவின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டது.
3. பூல் பர்ச்சேஸ் மூலம் பெறப்பட்ட கடன்களின் விஷயத்தில், இந்தக் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் வெளிப்புற பெஞ்சமார்க் விகிதமான டிபில்கள், ரெப்போ ரேட், பெரிய வங்கிகள்/நிதி நிறுவனங்களின் எம்சிஎல்ஆர்/ பெஞ்சமார்க் விகிதங்கள் ஆகியவற்றை சுட்டிக்காட்டலாம், மற்றும் மற்றும் அந்தந்த தயாரிப்புகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் அவற்றின் தோற்ற பயன்முறையைக் கொடுக்கும் வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே அத்தகைய கடன்களுக்கான வட்டி விகித நகர்வு அந்தந்த ஒப்புதல் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இணைக்கப்பட்ட வெளிப்புற பெஞ்சமார்க்கில் உள்ள மாற்றங்களின்படி இருக்கும்.
4. விலை நிர்ணயம், வாடிக்கையாளருடன் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்) உரிய பேச்சுவார்த்தை மற்றும்/அல்லது நிறுவனம் பின்பற்றும் கடன் மதிப்பீட்டு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் இருக்கும்.

#### V. சமமான மாதாந்திர தவணைகள் (ஈஎம்ஐ) அடிப்படையிலான தனிநபர் கடன்களில் மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தை மீட்டமைத்தல்

ஆர்பிஜ அதன் சுற்றறிக்கை எண். DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 தேதியிட்ட ஆகஸ்ட் 18, 2023 ("ஆர்பிஜ சுற்றறிக்கை") ஈஎம்ஐ அடிப்படையிலான தனிநபர் கடன்களுக்கான மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தை ஈஎம்ஐ அடிப்படையிலான மிதக்கும் விகித தனிநபர் கடன்கள் தொடர்பான கொள்கை கட்டமைப்பை வகுக்க ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மீட்டமைப்பது தொடர்பான விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. ஐனவரி 04, 2018 தேதியிட்ட "XBRL ரிட்டர்ன்ஸ் - ஹார்மோனிசேஷன் ஆஃப் பேங்கிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்" என்ற ரிசர்வ் வங்கியின் சுற்றறிக்கை எண். DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 இல் "தனிநபர் கடன்கள்" என்ற சொல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கள், தற்போதுள்ள மற்றும் புதிய கடன்களுக்கு டிசம்பர் 31, 2023 -க்குள் பொருந்தும் வகையில் நீட்டிக்கப்படும்.

ஈஎம்ஐ அடிப்படையிலான மிதக்கும் விகித தனிநபர் கடன்களை அனுமதிக்கும் போது, சாத்தியமான அதிகரிப்பின் சூழ்நிலையில், தவணை நீட்டிப்பு

மற்றும்/அல்லது ஈஎம்ஜி அதிகரிப்பதற்கு போதுமான ஹெட்னம்/மார்ஜிள் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, கடனின் தவணைக்காலத்தின் போது வெளிப்புற பெஞ்சமார்க் விகிதத்தில் கடன் வாங்குபவர்களின் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனை நிறுவனம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும். ஈஎம்ஜி அடிப்படையிலான மிதக்கும் விகித தனிநபர் கடன்களைப் பொறுத்தவரை, பின்வரும் கட்டமைப்பை நிறுவனம் பின்பற்ற வேண்டும்:

1. அனுமதியின் போது, ஈஎம்ஜி மற்றும்/அல்லது தவணைக்காலம் அல்லது இரண்டிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் கடனுக்கான பெஞ்சமார்க் வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் சாத்தியமான தாக்கம் குறித்து கடன் வாங்குபவர்களுக்கு நிறுவனம் தெளிவாகத் தெரிவிக்கும். பின்னர், மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில் ஈஎம்ஜி/ தவணைக்காலம் அல்லது இரண்டிலும் ஏதேனும் அதிகரிப்பு இருந்தால், அதற்கான வழிகள் மூலம் கடன் வாங்குபவருக்கு உடனடியாகத் தெரிவிக்கப்படும்.
2. வட்டி விகிதங்களை மீட்டமைக்கும் நேரத்தில், கடனுக்கான காலத்தின் போது, ஏற்கனவே இருக்கும் மிதக்கும் விகிதத்தில் இருந்து ஒருமுறை நிலையான விகிதத்திற்கு மாறுவதற்கான விருப்பம் கடன் வாங்குபவருக்கு வழங்கப்படும். கடனின் தவணை காலத்தின் போது நிலையான விகிதத்திலிருந்து மிதக்கும் விகிதத்திற்கு அல்லது மிதக்கும் விகிதத்திலிருந்து நிலையான விகிதத்திற்கு மாற்றுவது நிறுவனத்தின் சொந்த விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது.
3. கடன் வாங்குபவருக்கு (a) (i) ஈஎம்ஜி-இல் அதிகரிப்பது அல்லது (ii) தவணைக்காலத்தை நீட்டிப்பது அல்லது (iii) நிறுவனத்தின் உள் கொள்கைகளின்படி இரண்டு விருப்பங்களின் கலவையை கொண்ட ஒரு விருப்பம் இருக்கும்; மற்றும், (b) கடனின் தவணைக்காலத்தின் போது எந்த நேரத்திலும், பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ முன்கூட்டியே செலுத்துவது..
4. கடன்களை மிதக்கும் விகிதத்திலிருந்து நிலையான விகிதத்திற்கு மாற்றுவதற்கான அனைத்து பொருந்தக்கூடிய கட்டணங்கள் மற்றும் மேலே உள்ள விருப்பங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு இடைப்பட்ட ஏதேனும் சேவைக் கட்டணங்கள் / நிர்வாகச் செலவுகள் ஆகியவை ஒப்புதல் கடிதத்தில் வெளியிடப்படும் மற்றும் அத்தகைய கட்டணங்கள் / செலவுகளை நிறுவனம் அவ்வப்போது திருத்தும்..
5. மிதக்கும் விகிதக் கடன் எனும்போது கடனுக்கான தவணைக்காலத்தை நீட்டிப்பது எதிர்மறை கடன் தீர்வை விளைவிக்காது என்பதை கம்பெனி உறுதி செய்யும்.
6. நிறுவனம், ஓவ்வொரு காலாண்டின் முடிவிலும், குறைந்தபட்சம், இன்றுவரை பெறப்பட்ட அசல் மற்றும் வட்டி, ஈஎம்ஜி தொகை, எஞ்சியிருக்கும் ஈஎம்ஜி-களின் எண்ணிக்கை மற்றும் கடனின் முழு தவணைக்காலத்திற்கான

வருடாந்திர வட்டி விகிதம் / வருடாந்திர சதவீத விகிதம் (எபிஆர்) ஆகியவற்றைக் கணக்கிடும் இந்த அறிக்கையை, பொருத்தமான வழிகள் மூலம், கடன் வாங்குபவர்களுக்குப் பகிர்ந்துகொள்ளும்/ அனுகும்படி செய்யும்.

7. சமப்படுத்தப்பட்ட மாதாந்திர தவணை கடன்களைத் தவிர, வெவ்வேறு காலகட்டங்களின் அனைத்து சமமான தவணை அடிப்படையிலான கடன்களுக்கும் இந்த அறிவுறுத்தல்கள் பொருந்தும்.
8. நிறுவனம், தற்போதுள்ள அனைத்து கடன் வாங்குபவர்களுக்கும், பொருத்தமான வழிகள் மூலம், அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் விருப்பத் தெரிவுகளைத் தெரிவிக்கும்.

## VI. கட்டணங்கள்

கடன்களுக்கான வட்டிக்கு கூடுதலாக, நிறுவனம் பொருந்தும் கட்டணங்களை விதிக்கும். கூடுதலாக, நிறுவனம் அவ்வப்போது பொருந்தும் முத்திரை வரி, சேவை வரி / ஜிஎஸ்டி மற்றும் பிற செஸ் கட்டணங்கள் ஆகியவற்றையும் வசூலிக்கும். இந்தக் கட்டணங்களில் எந்தத் திருத்தமும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உரிய தகவல்தொடர்புடன் வருங்கால அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்படும்.

பொருந்தக்கூடிய கட்டண அட்டவணை (தேவையான இடங்களில்) நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் கிடைக்கும்.

## VII. மதிப்பாய்வு/திருத்தம்

அந்தந்த தலைமை நிர்வாகிகள் இந்த பாலிசியின் உரிமையாளராக இருப்பார்கள் மற்றும் பாலிசியைச் செயல்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பாவார்கள். இயக்குநர்கள் குழுஇந்த வட்டி விகித மாதிரிக் கொள்கையை மதிப்பாய்வு செய்து, பணச் சந்தை சூழ்நிலை மற்றும்/அல்லது பல்வேறு கடன் தயாரிப்புகளுக்குப் பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதங்களில் மேல்நோக்கி / கீழ்நோக்கி திருத்தம் மற்றும் அத்தகைய கடன் தயாரிப்புகளுக்குப் பொருந்தக்கூடிய தொடர்புடைய கட்டணங்களை உள்ளடக்கிய எந்தவொரு ஒழுங்குமுறை தேவையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு பொருத்தமான மாற்றங்களைச் செய்ய இதன் மூலம் நிறுவனத்தின் சொத்து விலை நிர்ணயக் குழுவிற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கிறது.

## VIII. பாலிசி அம்சங்களின் தகவல்தொடர்பு

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகவல்தொடர்பு முறையின் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒப்புதல் / கடனைப் பெறும் நேரத்தில் பயனுள்ள வட்டி விகிதத்தை நிறுவனம் தெரிவிக்கும்.

வட்டி விகித மாதிரி மற்றும் கட்டண அட்டவணை (தேவையான இடங்களில்) ஆகியவை நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்படும் மற்றும் தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கான பெஞ்சமார்க் விகிதங்கள் மற்றும்

கட்டணங்களில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால் நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்படும்.

#### IX. கொள்கையின் மதிப்பாய்வு/திருத்தம்

கொள்கை மற்றும் ஏதேனும் விதிமுறைகள், விதிகள், வழிகாட்டுதல்கள், அறிவிப்புகள், தெளிவுபடுத்தல்கள், சுற்றறிக்கைகள், முதன்மை சுற்றறிக்கைகள் / சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளால் ("இழுங்குமுறை விதிகள்") வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களுக்கு இடையே எந்த நேரத்திலும் விளக்கம் / தகவல் முரண்பாடுகள் எழுந்தால், ஒழுங்குமுறை விதிகளின் விளக்கமே மேலோங்கும். ஒழுங்குமுறை விதிகளில் ஏதேனும் திருத்தம்(கள்) மற்றும்/அல்லது தெளிவுபடுத்தல்(கள்) ஏற்படும் நிகழ்வில், ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி குறிப்பிடப்பட்ட பாலிசி நடைமுறைக்கு வரும் தேதியிலிருந்து பாலிசியானது திருத்தப்படும்.

ஆவண

அந்தந்த

## பதிப்பு கட்டுப்பாடு

பதிப்பு	தேதி	நூலாசிரி யர்	விளக்கம் மாற்றப்பட்ட தேதி
1.0	நவம்பர் 2023	அந்தந்த ஜிஆசிகள்	புதிய பாலிசி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது
2.0	ஐங்குரி 2024	அந்தந்த ஜிஆசிகள்	வீட்டுக் கடன்கள் மற்றும் சொத்து மீதான கடனுக்கான நிலையான வட்டி விகிதத்தைச் சேர்த்தல்
3.0	2024 அக்டோபர்	அந்தந்த ஜிஆசிகள்	வருடாந்திர மதிப்பாய்வு-செயல்முறை புதுப்பிப்புக்கு ஏற்ப மேற்கொள்ளப்படும் திருத்தங்கள்
4.0	ஐங்குரி 2025	போர்டு	சொத்து விலை நிர்ணயக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட தயாரிப்புகளின் வட்டி விகித வரம்பில் திருத்தம் குறித்த செயல்முறை புதுப்பிப்பு மற்றும் குறிப்புக்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள்.

இந்த ஆவணம் நிறுவனத்தின் உள் பயன்பாட்டிற்கானது. இந்த இணைப்பில் உள்ள எந்த ஆவணத்தின் எந்தப் பகுதியையும் எந்த வடிவத்திலும், வெளியிடப்பட்ட அல்லது எந்த வகையிலும் [கிராஃபிக், எலக்ட்ரானிக் அல்லது மெக்கானிக்கல், புகைப்பட நகல், பதிவு செய்தல், டேப்பிங் அல்லது தகவல் மீட்டெட்டுப்பு அமைப்புகள் உட்பட] எந்தவொரு டிஸ்க், டேப், துளையிடப்பட்ட ஊடகம் அல்லது மற்ற தகவல் சேமிப்பக சாதனம் போன்றவற்றில் கருஹுலத் திணைக்களத்தின் முன் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி மறுஉருவாக்கம் செய்யக்கூடாது.

## వద్ది రేటు నమూనా

L&T ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (గతంలో L&T ఫైనాన్స్ పేశాల్టీంగ్స్ లిమిటెడ్ అని  
పిలిచేవారు) (కంపనీ)

## విషయ సూచిక

I.	పీటిక.....	121
II.	లక్ష్యం .....	121
III.	రిస్కు ష్టాయి శ్రేణీకరణకు సంబంధించిన విధానం .....	121
IV.	ధర నిర్ద్ధయించడం.....	122
V.	సమానమైన నెలవారీ వాయిదాల (ఇపంప) ఆధారిత వ్యక్తిగత రుణాలపై ఫోటోపింగ్ వధ్యీ రేటు రీసెట్ చేయడం .....	126
VI.	రుసుములు మరియు ఛార్జీలు.....	127
VII.	పాలనీ యాజమాన్యం .....	127
VIII.	విధానం యొక్క అంశాల గురించి ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు .....	127
<u>IX</u>	<u>రిహ్యూ/రివిజన్</u> .....	<u>127</u>

## I. పీటిక

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) జనవరి 02, 2009 నాటి నోటిఫికేషన్ మరియు మార్చి 26, 2012 నాటి నాన్-బ్యాంకింగ్ పైనాన్ కంపెనీల కోసం న్యాయమైన అభ్యాసాల కోట్లు మార్గదర్శకాలు, కాలానుగుణంగా అక్షోబర్ 19.2023 నాడు నవీకరించబడినట్లుగా, ఆర్బిఐ మాస్టర్ డ్రెరెక్షన్ - రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (నాన్-బ్యాంకింగ్ పైనాన్సియల్ కంపెనీ - స్కూల్ బెస్ట్ రెగ్యులేషన్) డ్రెరెక్షన్ లో చేరుబడి, దాని ద్వారా అన్ని ఎన్బిఐఫ్సిలను ఇలా ఆదేశించింది:

- నిధుల ఖర్చు, మార్కెట్ మరియు రిస్కు, ప్రీమియం మొదలైన సంబంధిత అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, రుణాలు మరియు ఆడ్వోన్సుల కోసం వసూలు చేయాలిన వధీ రేటును నిర్ణయించడానికి బోర్డు అమోదించిన వధీ రేటు నమూనాను ఏర్పాటు చేయండి
- వివిధ వర్గాల రుణగ్రహీతలకు వివిధ వధీ రేట్లు వసూలు చేయడానికి రిస్కు మరియు హేతుబద్ధత యొక్క శ్రేణీకరణ విధానంతో పాటు వధీ రేటును రుణగ్రహీతకు తెలియజేయండి.
- కంపెనీల వెబ్‌సైట్లో వధీ రేట్లు మరియు రిస్కుల స్థాయికి సంబంధించిన శ్రేణీకరణ విధానాన్ని అందుబాటులో ఉంచండి.

## II. లక్ష్యం

వివిధ కేటగిరీ కష్టమర్ సెగ్యంట్ల కోసం ఉపయోగించాలిన ప్రమాణ రేట్లను చేరుకోవడానికి మరియు కష్టమర్ల నుండి వసూలు చేసే తుది రేట్ల వర్గకు రావడానికి ఛార్టీంగ్ సైంటికల సూత్రాలు మరియు విధానాన్ని నిర్ణయించడం

## III. రిస్కు స్థాయి శ్రేణీకరణకు సంబంధించిన విధానం

వివిధ వ్యాపార విభాగాల కోసం రుణాల వధీ రేటు మరియు వాటి కింద ఉన్న వివిధ పథకాలు సంబంధిత వ్యాపార విభాగం ద్వారా సైంటిక సర్వుబాటు చేసిన తర్వాత నిర్ణయించబడతాయి.

సైంటిలను లెక్కించడానికి వ్యాపారాలు (సంబంధిత వ్యాపారానికి వర్తించే విధంగా) పరిగణనలోకి తీసుకున్న అంశాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

- వధీ రేటు రిస్కు (స్థిర వర్గెన్ ప్లాటింగ్ రుణం)
- సంబంధిత వ్యాపార విభాగంలో క్రెడిట్ మరియు డిఫాల్ట్ రిస్కు
- అప్లికేషన్ స్కూర్స్ కార్డ్ యొక్క ఫలితం
- సారూప్య సజ్ఞాతీయ క్లయింట్ల చారిత్రక పనితీరు
- రుణగ్రహీత యొక్క వివరాలు
- పరిశ్రమ విభాగం
- రుణగ్రహీత యొక్క తిరిగి చెల్లింపు ట్రాక్ రికార్డ్
- కొల్హాటర్ల సెక్యూరిటీ యొక్క స్వ్యభావం మరియు విలువ
- సెక్యూరిటీ కలిగిన వర్గెన్ సెక్యూరిటీ లేని రుణం
- డబ్బు మంజూరు అందుబాటులో ఉంది
- రుణం యొక్క టెక్నికల పరిమాణం
- బ్యాంక్ స్కూర్స్
- రుణం యొక్క కాలపరిమితి
- స్థానం అపరాధం మరియు సేకరణ పనితీరు
- కష్టమర్ రుణభారం (జప్పటికే ఉన్న ఇతర రుణాలు)
- పోటీ మరియు ఇతర సంబంధిత కారకాలు అందించే ధర

వేర్యేరు కష్టమర్లు ఒకే సమయంలో పొందే ఒకే ఉత్పత్తి మరియు అవధికి వధ్య రేటు ఒకేలా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. పైన పేర్కొన్న అంశాలన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదా వాటి కలయికపై ఆధారపడి వివిధ కష్టమర్లకు ఇది భిన్నంగా ఉండవచ్చు.

వధ్య రేటు వార్డిక రేట్లుగా ఉంటాయి, నెలవారీ, దైవమాసిక, త్రిమాసిక, అర్ధ-వార్డిక లేదా వార్డిక సమేళనంగా ఉండవచ్చు.

#### IV. ధర నిర్దయించడం

ధర అనేది రిస్కు, నిషివి మరియు ప్రస్తుత మార్కెట్ ధోరణి యొక్క విధి. నిధుల-ఆధారిత ఎక్స్పోజర్ విషయానికిస్తే, ధరలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి, అవి ప్రమాణం మరియు స్టేట్. ప్రమాణం మరియు స్టేట్ అనేది నిధుల ఖర్చు, మార్కెట్, రిస్కు ప్రీమియం మొదలైన వాటి యొక్క విధి.

సంప్రదా ద్వారా స్థిరమైన లేదా ఫ్లోటింగ్ వధ్య రేటు రుణాన్ని అందించే నిర్దయం, అందించే ఉత్పత్తి యొక్క స్వభావం, మార్కెట్ పరిస్థితులు, మూలాలు మరియు నిధుల నిబంధనలు, క్లయింట్ అవసరాలు మొదలైన వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

కంపెనీ రుణగ్రహితకు, రుణం మంజూరుచేసే సమయంలో రుణం మొత్తం మరియు వధ్య రేటుతో పాటు వాయిదా యొక్క వ్యవధి మరియు మొత్తం గురించి తెలియజేస్తుంది.

నిధుల ధర, రిస్కు ప్రీమియం, ఇతర నిర్వహణ ఖర్చులు, మార్కెట్, క్రెడిట్ నష్టాలు మరియు ప్రీ-టాక్స్ డిస్కాషన్ ROA ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రతి ఒక్క ఉత్పత్తులకు ధర నిర్దయించబడుతుంది.

క్రమ సం ఖా	కారకం	వివరణ
1.	నిధుల ధర	<ul style="list-style-type: none"> <li>కంపెనీ తన రుణదాతల నుండి నిధులను సేకరిస్తుంది, ఇది స్వీకరించదగిన సమూహానికి ప్రతిగా పేర్కొన్న మరియు/లేదా పేర్కొనబడని తుది వినియోగం అనే రెండింటితో ఉంటుంది.</li> <li>స్థిరమైన/ఫ్లోటింగ్ రేట్, వ్యవధి, తిరిగి చెల్లించే తరచుదనం, ప్రాధాన్య రుణ ప్రయోజనాలు మొదలైన ఉత్పత్తి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి కంపెనీ అందించే విభిన్న ఉత్పత్తులకు నిధుల ధర మారుతుంది.</li> <li>వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడానికి కంపెనీ కొంత ఈక్విటీ భాగాన్ని కూడా ఉంచాలి మరియు అటువంటి ఈక్విటీ ఖర్చు పరిగణనలోకి తీసుకోబడుతుంది.</li> <li>లిక్విడిటీ రిస్కుని నిర్వహించడానికి కంపెనీ లిక్విడిటీ నిధులలోకి పెట్టుబడుల రూపంలో కొంత లిక్విడిటీ ఒఫర్సు కూడా ఉంచుతుంది మరియు ఆ పెట్టుబడులపై కూడా ప్రతికూల భారాన్ని భరించవలసి ఉంటుంది.</li> </ul>
2.	నిర్వహణ ఖర్చు	కంపెనీ అందించే రిస్టోర్ ఉత్పత్తులు హాస్టల్ టీమ్లు/డిఎస్‌ఎల ద్వారా సేకరించబడతాయి మరియు సేకరణలు దాని స్వంత బృందాలు/కలెక్షన్ ఏజెంట్ ద్వారా కూడా చేపట్టబడతాయి. దీని ప్రకారం, కంపెనీ తన రోల్స్‌లో పెట్ట సంబ్యోల్ ఉద్యోగులతో పాటు నిర్వహణ ఖర్చులను గణనీయంగా పెంచే కలెక్షన్ ఏజెంట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది.

3.	<b>మార్కీసు</b>	కంపెనీ 22 రాజ్యాలు, 2 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో ఉన్న దాని పెద్ద నెట్‌వర్క్ శాఖల ద్వారా మరియు ఎక్స్‌వగా దాని స్వంత ఉద్యోగులు/కలెక్షన్ ఏజెంట్ల ద్వారా పనిచేస్తుంది. కంపెనీ తన వినియోగదారులకు రుణ సేవలను మెరుగుపరచడానికి సాంకేతికతలో విస్తృతంగా పెట్టుబడి పెట్టింది. వ్యాపారాన్ని పొందడానికి సాంకేతికత మరియు విశ్లేషణల ద్వారా బృందాలు సమర్థంగా మధ్యతు ఇస్తాయి. అందువల్ల మార్కీసు తదనుగుణంగా లెక్కించబడతాయి.
4.	<b>రిస్క్ ప్రీమియం</b>	సాంకేతికత మరియు విశ్లేషణల మధ్యతుతో ఫోనిక సేకరణ జట్టులపై పెట్టుబడులు పెట్టిందం ద్వారా కంపెనీ కలెక్షన్ పరిశ్రమ స్థాయిలతో ధీటుగా పనిచేస్తోంది. అయినప్పటికీ, సూక్షం రుణాలు వంటి కొన్ని ఉత్పత్తులు డీమోనిష్యుజెపన్, వరదలు, కోవిడ్ 2019 మొదలైన కొన్ని సంఘటన ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అటువంటి సంఘటన ప్రమాదం కోసం ప్రీమియం ప్రతి ఉత్పత్తి ధరలో చేర్చబడుతుంది.
5.	<b>ప్రీ-టాక్స్ ఆర్టిఫిచిల్స్</b>	ఆస్తులపై బేస్ రిటర్న్ అనేది కంపెనీ తన ఆస్తులపై ఆశించే కనీస రాబడి.

i. **హెచ్‌ఎల్‌సేల్ ఉత్పత్తుల కోసం:**

ఫ్లోటింగ్ వఢ్డి రేటు రుణాలు L&T పైనాన్స్ హెచ్‌ఎల్‌సేల్ లిమిటెడ్ పిఎల్‌ఆర్\*, భూమ్యార్డ్ ఎల్వి లేదా జిబి సెక్యూరిటీలు లేదా ఎంపబిఅర్ లేదా లీడ్ టెండర్ బేస్ రెట్/ఎంసిఎల్‌ఆర్ (కన్సార్టియం టెండింగ్ విషయంలో) లేదా మరేదైనా సహా నిధుల వ్యయాన్ని విస్తృతంగా ప్రతిబింబించే పారదర్శక ప్రమాణాలు లేదా తగిన ఏదైనా ఇతర ప్రమాణాలకు (ఉదా, ఎస్‌బి‌ఐ బేస్ రెట్/ఎంసిఎల్‌ఆర్ మొదలైనవి) అనుసంధానించబడతాయి.

స్థిర వఢ్డి రేటు లావాదేవీ కోసం, పైన చర్చించిన విధంగా రిస్క్ విధానం యొక్క శ్రేణీకరణతో పాటు ప్రస్తుత వఢ్డి రేటు దృష్టింతం ఆధారంగా మంజూరు/విడుదల సమయంలో ప్రతి ఒక్క కేసు ఆధారంగా వఢ్డి రేటు నిర్ణయించబడుతుంది.

రిటర్న్ ఆన్ ఈస్‌టీటీ, పేర్-హెచ్‌ఎల్ వాల్యూ యాడెడ్ మొదలైన అంశాలు కూడా ధరను నిర్ణయించడంలో ఉపయోగించబడతాయి.

ప్రతి లావాదేవీకి సంబంధించిన ధర క్లియంట్‌తో తగిన చర్చల ఆధారంగా మరియు కంపెనీ క్రెడిట్ పాలనీలో వేర్కొన్న విధంగా ఆమోదించే అధికారి ఆమోదానికి లేభిడి ఉంటుంది.

PLR కంపెనీ వెబ్-సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంది, దానిలో ఏదైనా మార్పు అనెట్ లయబిలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ కమిటీ ఆమోదానికి లేభిడి ఉంటుంది.

ii. **రిష్టైల్ రుణాల కోసం:**

ఎల్‌స్‌పిఎఫ్ దాని రిష్టైల్ రుణాగ్రహీతలకు ఉత్పత్తి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి స్థిరమైన మరియు ఫ్లోటింగ్ రేట్లు రెండింటిపై ఉబ్బును ఇస్తుంది. కంపెనీ తన రుణాగ్రహీతలకు టైతు పైనాన్స్, గ్రామీణ వ్యాపార పైనాన్స్, వెర్డోన్ రసీదు పైనాన్స్, ద్విచక్క-వాహన పైనాన్స్, వినియోగదారు రుణాలు, గృహ రుణాలు మరియు ఆస్తిపై రుణం మరియు సెక్యూరిటీ లేని ఎస్‌ఎం రుణాలు వంటి రిష్టైల్ ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది.

క్రమ సంఖ్య.	డిత్తులై	సమర్పణ	వార్దిక వడ్డి రేటు <sup>1</sup> సాధారణంగా మా కష్టమరుకు విధించబడుతుంది <sup>3</sup>
1.	రైతు షైనాన్స్	<p>ఎ) ట్రోక్టర్లు, కోత యంత్రాలు మరియు ఇతర వ్యవసాయ పనిముట్ల కొనుగోలు కోసం రైతులకు రుణాలు అందిస్తుంది, వీటిని వ్యవసాయ భూమిని దున్నడానికి మరియు ఆదాయాన్ని డిత్తులై చేయడానికి డిత్తుత్తులను రవాణా చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు</p> <p>ఖ) పంట డిత్తులైకి ఉపయోగించే వ్యవసాయ జన్మపుత్రల కొనుగోలు కోసం రైతులకు రుణాలు</p> <p>య) పంట డిత్తులై మరియు అనుబంధ-వ్యవసాయ కార్యకలాపాల కోసం మూల ధన అవసరాల కోసం రైతులకు రుణాలు</p>	సంవత్సరానికి 10 % నుండి 19 %.
2.	వేర్పశాస్న రసీదు షైనాన్స్	నష్టంతో కూడుకున్న అమృకాన్ని నివారించడానికి మరియు వారి పంట డిత్తుత్తులకు మెరుగెన ధరలను పొందేందుకు రైతులకు స్వల్పకాలిక రుణాలను అందిస్తుంది. ఇది వర్తకులు మరియు ప్రాసెసర్లకు పోటీ ధరలకు వ్యవసాయ వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి, పంట కాలంలో, వస్తువుల ధరలు బాగా తక్కువగా ఉన్నపుండు, తద్వారా వారి లాభదాయకతను పెంచడానికి వీలు కల్పిస్తుంది	సంవత్సరానికి 8 % నుండి 15 %.
3.	ద్విచక్క-వాహన షైనాన్స్	కష్టమర్ అతని/ఆమె యొక్క ఆదాయం డిత్తాదనకి హజరు కావడానికి లేదా మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగించే ద్విచక్క వాహనాల కొనుగోలు కోసం వినియోగదారులకు రుణాలను అందిస్తుంది.	సంవత్సరానికి 8.5 % నుండి 22 %.
4.	గ్రామీణ గ్రూప్ రుణాలు మరియు మైక్రోషైనాన్స్ రుణాలు	<p>ఎ) ఆదాయ డిత్తులై కార్యకలాపాల కోసం మహిళా రుణగ్రహీతలకు జెఎల్జి నిర్మాణం కింద చిన్న టిక్కెట్ గ్రూప్ రుణాలను అందిస్తుంది మరియు b) గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రుణగ్రహీతల కోసం కంపెనీ నిర్ణయించే ఇతర రుణాలు</p>	సంవత్సరానికి 16 % నుండి 23.50 %.
5.	ఆస్ట్రేప్ మైక్రో రుణం	a) ఆస్ట్రేప్ మైక్రో రుణం మరియు b) గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రుణగ్రహీతల కోసం కంపెనీ నిర్ణయించే ఇతర రుణాలు	సంవత్సరానికి 14% నుండి 22%
6.	వ్యక్తిగత రుణం	వినియోగదారులకు వారి వినియోగ అవసరాల కోసం రుణాలను అందిస్తుంది. వినియోగదారు వివిధ తుది ఉపయోగాల కోసం పెట్టుబడి పెట్టివచ్చు, అవి, ప్రయాణం, వినియోగ వస్తువుల కొనుగోలు, వైద్య బిల్లులు, విద్య మొదలైనవి. కష్టమర్ ఇప్పటికే ఉన్న లేదా కొత్త కష్టమర్ కావచ్చు.	సంవత్సరానికి 11 % నుండి 24 %.

7.	గృహ రుణాలు	గృహాల కొనుగోలు, నిర్మాణం, మెరుగుదల మరియు పొడిగింపు కోసం వినియోగదారులకు రుణాలను అందిస్తుంది. కంపెనీ ఇతర బ్యాంకులు/ఆర్డిక సంఘలతో ఇప్పటికే ఉన్న గృహా రుణం వినియోగదారులకు తమ బకాయి ఉన్న రుణ మొత్తాన్ని మెరుగైన నిబంధనలు మరియు పరితులతో మాకు మార్పుకునే అవకాశాన్ని కూడా అందిస్తుంది.	ఫోటోటెంగ్ వఢ్డి రేటు L&T షైనాన్ హెచ్టెంగ్ లిమిటెడ్ - హెచ్ఎల్ పిఎల్ఎర్ కి అనుసంధానించబడుతుంది.  @ ఫ్లిర వఢ్డి రేటు: సంవత్సరానికి 11.5% నుండి 12.25%  గమనిక: దయచేసి #ని చూడండి
8.	పై రుణం ఆస్తి	కష్టమర్లకు రుణాలు అందిస్తుంది పై ఆర్డిక సహాయం నివాస గృహాల (స్వయం-ఆక్రమించబడిన, అధ్యేతు తీసుకున్న, ఖాళిగా ఉన్న) మరియు వాణిజ్య అస్తులు.	ఫోటోటెంగ్ వఢ్డి రేటు L&T కి లింక్ చేయబడుతుంది షైనాన్ లిమిటెడ్ - ఎల్వపి పిఎల్ఎర్ 2.  @ ఫ్లిర వఢ్డి రేటు: 12.5% నుండి 13.25% వరకు హార్డికం గమనిక: దయచేసి #ని చూడండి
9.	సెక్యూరిటీ లేని SME రుణం	ప్రధానంగా చిన్న మరియు మధ్యతరపో పరిశ్రమలకు వారి వ్యాపార అవసరాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి రుణాలను అందిస్తుంది	సంవత్సరానికి 11 % నుండి 23 %.
10.	స్టేట్ షైనాన్	కార్బోరెట్ దిగ్జిలతో అనుబంధించబడిన విక్రేతులు మరియు డీలర్లకు వారి వ్యాపార అవసరాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి స్వల్పకాలిక షైనాన్సింగ్ శాకర్యాన్ని అందిస్తుంది.	సంవత్సరానికి 8% నుండి 26%

@ ఈ పాలనీ నిబంధనల ప్రకారం ఫోటోటెంగ్ వఢ్డి రేటును రీసెట్ చేసే సమయంలో.

# క్రెడిట్ క్లీటుత కారణంగా, ప్రస్తుతం ఉన్న ఏటైనా రుణాలపై దాని నిర్మాణంతో సహా వఢ్డి రేటు సపరించబడువచ్చు (ఫోటోటెంగ్ రేట్ రుణాలకు సంబంధిత ప్రామాణిక రేటులో మార్పుతో సంబంధం లేకుండా)

#### \*గమనిక:

1. వఢ్డి రేటు పరిధి సూచిక మరియు తుది రేటు రీసెట్ యొక్క ఫోటోటెంగ్ వఢ్డి రేటు ఆధారంగా వస్తుంది. కంపెనీ యొక్క ఎక్స్‌క్రెడిట్ మరియు పూర్తి విచక్షణకు లోబడి, షైన తెలిపిన విధంగా సూచిక వఢ్డి రేటు ఏ సమయంలోనేనా మారవచ్చు.
2. ప్రస్తుతం కంపెనీ పిఎల్ఎర్ కంపెనీ వెబ్సైట్ అందుబాటులో ఉంది, దానిలో ఏటైనా మార్పు అసెట్ లయబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఆమోదానికి లోబడి ఉంటుంది.
3. పూర్తి కొనుగోలు ద్వారా పొందిన రుణాల విషయంలో, ఈ రుణాలపై వఢ్డి రేటు బహ్య ప్రామాణిక రేటు, టి-బిల్లులు, రెపో రేటు, ఎంసిఎల్ఎర్ / పెట్రో బ్యాంకులు/ఆర్డిక సంఘల ప్రామాణిక రేట్లకు సూచించబడువచ్చు మరియు మరియు వాటి మూలం యొక్క విధానం ఇచ్చిన ప్రతి సంబంధిత ఉత్పత్తులకు షైన సూచించిన విధంగా తప్పనిసరిగా పరిధిలో ఉండకషోవచ్చు. అందువల్ల అటువంటి రుణాల కోసం వారి సంబంధిత మంజూరు లేభలో పేర్కొన్న లింక్ ఎక్స్‌రూల్ ప్రమాణాలలోని మార్పుల ప్రకారం వారి వఢ్డి రేటు కదలిక ఉంటుంది.
4. ధర ఇతర అంశాలతో పాటు క్లయింట్లతో తగిన చర్చల ఆధారంగా (వర్తించే చోట) ఉంటుంది.

మరియు/లేదా కంపెనీ అనుసరిస్తున్న క్రెడిట్ అసెన్సెంట్ పారామితులు.

## V. సమానమైన నెలవారీ వాయిదాల (ఇపంప) ఆధారిత వ్యక్తిగత రుణాలపై ఫోటోంగ్ వధీ రేటు రీసెట్ చేయబడుతుంది

ఆర్బిఐ తన ఆగస్టు 18, 2023 తేదీ ("ఆర్బిఐ సర్క్యూలర్") నాటి సర్క్యూలర్ నంబర్. DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 ద్వారా, ఇపంప ఆధారిత వ్యక్తిగత రుణాలపై ఫోటోంగ్ వధీ రేటును రీసెట్ చేయడానికి సంబంధించి ఒక నియంత్రణను రూపొందించింది మరియు ఇపంప ఆధారిత ఫోటోంగ్ రేట్ పర్సనల్ లోన్నకు సంబంధించి పాలనీ ప్రేమ్యర్స్‌ను నిర్దేశించడానికి నియంత్రిత సంపులు అవసరం. జనవరి 04, 2018 నాటి "ఎక్స్‌బిఆర్‌ఎల్ రిటర్న్స్ - హర్ష్‌నైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఫోటోస్క్యూప్"పై ఆర్బిఐసర్క్యూలర్ నం. DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18లో "వ్యక్తిగత రుణాలు" అనే పదం నిర్వచించబడింది.

డిసెంబరు 31, 2023 నాటికి ఈ విభాగంలో పొందుపరచబడిన సూచనలను ప్రస్తుతం ఉన్న మరియు కొత్త రుణాలకు తగిన విధంగా పొడిగించాలి.

ఇపంప ఆధారిత ఫోటోంగ్ రేట్ పర్సనల్ రుణాలను మంజూరు చేసే సమయంలో, అవకాశం పెరిగే సందర్భంలో, అవధిని పొడిగించడానికి మరియు/లేదా ఇపంప పెరుగుదలకు తగిన పొద్దుమ్/మార్కీన్ అందుబాటులో ఉండేలా కంపెనీ రుణగ్రహీతుల రీపేమెంట్ సామర్థ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది, రుణం యొక్క అవధి సమయంలో బహ్య ప్రామాణిక రేటులో పెరుగుదల సాధ్యమయ్యే దృష్టాంతంలో. ఇపంప ఆధారిత ఫోటోంగ్ రేట్ పర్సనల్ లోన్నకు సంబంధించి, కంపెనీ కింది చెట్రాన్ని అనుసరించాలి:

1. మంజూరు సమయంలో, ఇపంప మరియు/లేదా అవధి లేదా రెండింటిలో మార్పులకు దారితీనే రుణంపై ప్రామాణిక వధీ రేటులో మార్పు వల్ల కలిగే ప్రభావం గురించి కంపెనీ రుణగ్రహీతులకు సుష్టుంగా తెలియజేయాలి. తదనంతరం, పైన పేర్కొన్న వాటి కారణంగా ఇపంప/ అవధి లేదా రెండింటిలో ఏదైనా పెరుగుదల తగిన మార్పాల ద్వారా రుణగ్రహీతుకు వెంటనే తెలియజేయబడుతుంది.
2. వధీ రేటును రీసెట్ చేసే సమయంలో, రుణగ్రహీత రుణం యొక్క పదవీకాలంలో ఉన్న ఫోటోంగ్ రేటు నుండి స్థిరమైన రేటుకు ఒకసారి మార్చడానికి ఒక ఎంపికను అందించాలి. రుణం యొక్క అవధి సమయంలో ఫిక్స్‌డ్రాఫ్ట్ నుండి ఫోటోంగుకు లేదా ఫోటోంగ్ నుండి ఫిక్స్‌డ్రాఫ్ట్ కి ఏదైనా తదుపరి మారడం అనేది కంపెనీ యొక్క స్వంత ఆభీష్టానుసారం ఉంటుంది.
3. రుణగ్రహీత కంపెనీ అంతర్గత విధానాల ప్రకారం (a) (i) ఇపంపలో మెరుగుదల లేదా (ii) వ్యవధిని పొడిగించడం లేదా (iii) రెండు ఎంపికల కలయిక కోసం ఒక ఎంపికను కలిగి ఉండాలి; మరియు, (b) రుణ అవధి సమయంలో ఏ సమయంలోనైనా ప్రాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా ముందస్తుగా చెల్లించబడాలి.
4. స్థిరమైన నుండి ఫిక్స్‌డ్రాఫ్ట్ రేటుకి రుణాలను మార్చడానికి వర్తించే అన్ని ఛార్టీలు మరియు పైన పేర్కొన్న ఎంపికల అమలుకు సంబంధించిన ఏవైనా ఇతర సేవా ఛార్టీలు/పరిపాలన ఖర్చులు మంజూరు లేఖలో మరియు కంపెనీ అటువంటి ఛార్టీలు/ఖర్చుల ఎప్పటిక్కుపుడు సవరణ సమయంలో కూడా వెల్లడించబడతాయి.

5. ఫ్లోటింగ్ రేట్ రుణం విషయంలో అవధిని పొడిగించడం వల్ల ప్రతికూల రుణ విమోచన జరగదని కంపెనీ నిర్మారిస్తుంది.
6. కంపెనీ రుణగ్రహీతులకు సముచిత మార్గాల ద్వారా, ప్రతి త్రైమాసికం చివరిలో ఒక ప్రకటనను పంచుకుంటుంది / అందుబాటులో ఉంచుతుంది, ఇది కనిష్టంగా, ఇప్పటి వరకు తిరిగి పొందిన అసలు మరియు వడ్డీ, EMI మొత్తం, మిగిలి ఉన్న EMIల సంఖ్య మరియు వార్షిక వడ్డీ రేటును/ రుణం మొత్తం అవధికి వార్షిక శాతం రేటు (APR) లెక్కించాలి..
7. సమానంగా విభజించబడిన నెలవారీ వాయిదాల రుణాలు కాకుండా, ఈ సూచనలు వివిధ కాలాల యొక్క అన్ని సమాన వాయిదాల ఆధారిత రుణాలకు కూడా వర్తిస్తాయి.
8. కంపెనీ ప్రస్తుత రుణగ్రహీతులందరికీ తగిన మార్గాల ద్వారా వారికి అందుబాటులో ఉన్న ఎంపికలను తెలియజేస్తూ సమాచారాన్ని పంపుతుంది.

## VI. రుసుములు మరియు ఛార్టీలు

రుణాలపై వడ్డీని వసూలు చేయడంతో పాటు, కంపెనీ వర్తించే విధంగా రుసుములు మరియు ఛార్టీలను కూడా విధిస్తుంది. అదనంగా, కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు వర్తించే విధంగా ప్రోటో, సేవా పన్ను / జిఎస్టి మరియు ఇతర సెన్సులను కూడా సేకరిస్తుంది. ఈ ఛార్టీలలో ఏదైనా పునర్విమర్చ అనేది కష్టమర్లకు తగిన ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలతో భావి ప్రాతిపదికన అమలు చేయబడుతుంది.

వర్తించే ఛార్టీల షెడ్యూల్ (ఎక్కడ అవసరమయితే అక్కడ) కంపెనీ వెబ్‌సైట్లో అందుబాటులో ఉంది.

## VII. పాలనీ యజమాన్యం

చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివులు ఈ పాలనీకి యజమానిగా ఉంటారు మరియు పాలనీ అమలుకు బాధ్యత వహిస్తారు. మనీ మార్కెట్ దృశ్యం మరియు/లేదా వివిధ రుణ ఉత్పత్తులకు వర్తించే వడ్డీ రేట్లలో పెరుగుదల/డౌన్ సవరణ మరియు అటువంటి రుణ ఉత్పత్తులకు వర్తించే సంబంధిత ఛార్టీలను కలిగి ఉన్న ఏదైనా నియంత్రణ సంస్థ అవసరాల ఆధారంగా వడ్డీ రేటు పరిధిలో ఏదైనా మార్పులు మొదలైన వాటితో సహా ఈ వడ్డీ రేటు నమూనా విధానాన్ని సమీక్షించి తగిన మార్పులు చేయడానికి తైరెక్షర బోర్డు ఇందుమూలంగా కంపెనీ యొక్క ఆస్తి ధరల కమిటీకి అధికారం ఇస్తుంది.

## VIII. విధానం యొక్క అంశాల కమ్యూనికేషన్

ఆమోదయోగ్యమైన ఉత్తరప్రత్యుత్తర మార్గం ద్వారా రుణం మంజూరు / పొందే సమయంలో కంపెనీ ప్రభావవంతమైన వడ్డీ రేటును వినియోగదారులకు తెలియజేస్తుంది.

వడ్డీ రేటు నమూనా మరియు ఛార్టీల షెడ్యూల్ (అవసరమైన చోట) కంపెనీ వెబ్‌సైట్ అప్లోడ్ చేయబడతాయి మరియు ఇప్పటికే ఉన్న కష్టమర్లకు ప్రామాణిక రేట్లు మరియు ఛార్టీలలో ఏదైనా మార్పు కంపెనీ వెబ్‌సైట్ అప్లోడ్ చేయబడుతుంది.

## IX. విధానం యొక్క సమీక్ష/సవరణ

ఎద్దైనా సమయంలో పాలనీ మరియు ఎద్దైనా నిబంధనలు, నియమాలు, మార్గదర్శకాలు, నోటిఫికేషన్, స్పెష్చికరణలు, సరుక్కలర్లు, సంబంధిత అధికారులు ("రెగ్యులేటరీ ప్రొవిజన్స్") జారీ చేసిన ప్రథాన సరుక్కలర్లు/ ఆదేశాలు మధ్య వివరణ/సమాచారం యొక్క వైరుధ్యం తలెత్తితే, అప్పుడు నియంత్రణ నిబంధనల యొక్క వివరణ ప్రబలమైనదిగా ఉండాలి. రెగ్యులేటరీ నిబంధనలకు ఎద్దైనా సవరణ(లు) మరియు/లేదా స్పెష్చికరణ(ల) విషయంలో, నియంత్రణ నిబంధనల ప్రకారం పేర్కొన్న ప్రభావవంతమైన తేదీ నుండి పాలనీ సవరించబడుతుంది.

పత్రం యజమాని	సంబంధిత
--------------	---------

### వెర్షన్ నియంత్రణ

వెర్షన్	తేది	రచయిత	వివరణ మార్గు
1.0	నవంబర్ 2023	సంబంధిత జిష్టిల యొక్క	కొత్త విధానాన్ని అవలంబించింది
2.0	జనవరి 2024	సంబంధిత జిష్టిల యొక్క	గృహ రుణాలు మరియు ఆస్తిషై రుణం కోసం ఫిక్స్డ్ వడ్డి శ్రేణిని జోడించడం
3.0	అక్టోబర్, 2024	సంబంధిత జిష్టిల యొక్క	వార్షిక సమీక్ష - ప్రక్రియ నవీకరణకు అనుగుణంగా సవరణలు నిర్వహించబడతాయి
4.0	జనవరి 2025	బోర్డు	ఆస్తి ధరల కమిటీ ఆమోదించిన నిర్దిష్ట ఉత్పత్తుల వడ్డి రేటు పరిధిలో సవరణ ప్రక్రియ నవీకరణ మరియు గమనికకు అనుగుణంగా సవరణలు జరిగాయి

ఈ పత్రం కంపెనీ యొక్క అంతర్గత వినియోగం కోసం. ఈ లింక్లోని ఏ పత్రంలోని ఏ భాగాన్ని ఏ రూపంలోనైనా, పంపిణీ చేయబడకూడు లేదా ఏ విధంగానైనా [గ్రాఫిక్, ఎలక్ట్రానిక్ లేదా మెకానికల్, ఫోటోకాపీ చేయడం, రికార్డింగ్, ట్యూపింగ్ లేదా ఇన్వర్సన్ రిట్రైవల్ సిస్టమ్లతో సహ] ఎద్దైనా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, చైవ్, పెర్సోనేల్చెండ్ మీడియా లేదా ఇతర సమాచార నిల్వ పరికరం మొదలైనవి సైజర్ శాఖ యొక్క ముందస్తు ప్రాతపూర్వక అనుమతి లేకుండా పునరుత్పత్తి చేయబడకూడదు.